

बीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

१०५३

क्रम संख्या

२४०.५ विनायक

काल न०

खण्ड

राजेन्द्र-स्मृति ग्रन्थ-माला—८

सर्वोदय यात्रा

वि नो बा



सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदय-तीर्थमिदं तत्रैव ।

—आचार्य समन्तभद्र

भारत जैन महामण्डल, वर्धा

१९५१

प्रकाशक :
रिषभदास रांका
कार्याध्यक्ष,
भारत जैन महामण्डल, वर्धा

पहला संस्करण ५५००

मूल्य : सवा रुपया

मुद्रक :
जमनालाल जैन
व्यवस्थापक
श्रीकृष्ण प्रि० वर्क्स, वर्धा

प्रकाशक की ओर से

तीसरे सर्वोदय सम्मेलन शिवरामपल्ली (हैदराबाद) में सम्मिलित होने के लिए जाते हुए पू० विनोबाजी ने रास्ते के मुकामों पर जो प्रार्थना-प्रवचन दिए हैं वे सब क्रमशः इस संकलन में दिए गए हैं ।

सर्वोदय का आदर्श बहुत प्राचीन है । दो हजार वर्ष पूर्व जैना-चार्य समन्तभद्र ने 'सर्वोदय-तीर्थ' की भावना व्यक्त की थी । उन्होंने कहा था, 'सर्वोदय-तीर्थ सब की समस्त आपदाओं को दूर करनेवाला है ।' आज के युग में वापू ने इसे व्यवहार में लाया और विनोबा तो अब उस के यात्री ही बन गए हैं ।

महामण्डल की ओर से इन प्रवचनों को प्रकाशित करते हुए हमें विशेष आनन्द हो रहा है । हम पू० विनोबाजी और भ्राम सेवामण्डल, नालवाडी के विशेष कृतज्ञ हैं, जिनकी कृपासे हमें यह सद्भाग्य प्राप्त हुआ । और जिन मित्रों की मेहनत और तत्परतासे यह संकलन शीघ्र निकाला जा सका, उन्हें भी नहीं भूलोया जा सकता । उनके हम आभारी हैं ।

हमें आशा है यह पुस्तक नैतिक विकास, कैरिअ निर्माण तथा देश में सेवा भावना और समभाव बढ़ाने में मददगार साबित होगी ।

राजेंद्र-स्मृति ग्रंथमाला का यह आठवा पुष्प है ।

वर्षा,
६-६-५१ }

रिषभदास रांका
कार्याध्यक्ष, भारत जैन महामण्डल

अनुक्रमणिका

प्रास्ताविक श्री बल्लभस्वामी प्रवचन

१ सकल्प	१	१९ सर्वोदय की महिमा	८०
२ परधाम आश्रम से बिदा	३	२० सच्चा वर्णाश्रम धर्म	९०
३ वर्धा वासियो से बिदा	६	२१ गाव गोकुल बने	९६
४ देहात के मजदूरो का प्रश्न	९	२२ सच्चा स्वराज्य	९९
५ जन सेवा ही परमेश्वर की पूजा	१४	२३ हमारे पाप	१०३
६ हाथ-चक्की और हरि-नाम	२१	२४ मज्जनों का समाज	११८
७ स्त्रियो की जिम्मेवारी	२६	२५ गाव स्वर्ग-भूमि है	१२३
८ श्रम और प्रेम से स्वराज्य का उदय	२८	२६ मूर्ति गुण चिन्तन का साधन	१२९
९ स्वराज्य लक्ष्मी का आवाहन	३१	२७ परमेश्वर की देने	१३७
१० नाम जैसा हो काम	३५	२८ सत्पुरुष और धर्म	१४४
११ आत्म-जाग्रति से ही दुःख मिटेंगा	४२	२९ गाव कुंभ को तरह रहे	१४९
१२ भगवान का ही काम और नाम	४८	३० हम अपना कर्त्तव्य करे	१५३
१३ लघु आरम्भ का दीर्घ-कल	५१	३१ 'इशाल्लाह' भगवान चाहे तो	१६२
१४ सेवा ही तीर्थ-यात्रा है	५४	३२ प्राकृतिक चिकित्सा	१६८
१५ ग्रामोद्योग न छोड़े	५७	३३ शिक्षा-प्रणाली कैसी हो	१७८
१६ व्यापार सेवा के लिए	६३	३४ हैद्राबाद हिन्दुस्तान को समस्याओ का प्रतिनिधि	१९६
१७ देहात के काम	७०	३५ ग्राम सजीवनी	२०९
१८ ग्राम राज्य	७६	३६ पैदल यात्रा का इतिवृत्त	२१७

प्रास्ताविक

शिवरामपल्ली (हैदराबाद द.) मे ता. ८ से ११ अप्रैल '५१ को होने वाले सर्वोदय-सम्मेलन में भाग लेने के लिए विनोबाजी परधाम (पवनार) से ८ मार्च को सुबह पैदल निकले हैं। सारे देश में इससे आनंद की लहर फैल गयी है और साथ ही प्रेरणा की भी, क्योंकि जिस चीज की आज देश को जरूरत है, और जिसकी साधना के लिये कुछ काल के लिये ही क्यो न हो, परधाम पर ही स्थिर रहने का तय करके विनोबाजी साम्ययोग के प्रयोग में जुटे हुये थे, वह साधना है—अर्थ की अनर्थकारी, पराबलवी और सुखाभासी बेडियो में से आम जनता को छुड़ा कर श्रम की श्रेयस्कारी, स्वावलंबी, सात्विक और सुलदायी जीवन-क्रम की प्रतिष्ठापना। उमको इस यात्रा में खूब चालना मिली है, मिल रही है, मिलने वाली है।

देश की पुकार प्रतिध्वनिन हुई

देश के अन्य लोगो के समान ही विनोबाजो के निकट परिचितों के लिए भी यह यात्रा-निर्णय आनंददायी और अनपेक्षित है। खुद विनोबाजी के लिये भी यह अनपेक्षित है और इसीलिए उन्होंने इस निर्णय का वर्णन 'ईश्वर-प्रेरित' ऐसे शब्दों में किया है। ता० ६ मार्च को सर्व-सेवा-संघ की बैठक थी। आशादेवी और आर्यनायकम्जी की विनती से सातवें नयी-तालीम-सम्मेलन के निमित्त से ता० २७ फरवरी से ७ मार्च तक सेवाग्राम में रहना विनोबाजी ने तय किया और इसीलिए-सर्व-सेवा-संघ की ता० ६ मार्च की बैठक भी वहीं रखी गयी। बैठक के सामने शिवरामपल्ली-सम्मेलन का कार्यक्रम और विषय-पूची वगैरह तय करने का मुख्य कार्य था।

दो

इसी सिलसिले में सर्वोदय-समाज और सर्व-सेवा-संघ में परस्पर संघर्ष क्या हैं, क्या हों, आदि चर्चा भी छिड़ी, क्योंकि इस बारे में बहुतेरों के खयाल साफ नहीं हैं—यद्यपि अगुल संमेलन के बाद 'सर्वोदय' मासिक में विनोबाजी की लिखी हुई 'सर्वोदय-समाज और सर्व-सेवा-संघ' नाम की एक टिप्पणी को देखते हुए कोई ग़लतफ़हमी, दुविधा या असमंजसता का कारण नहीं रहना चाहिए। चर्चा के दौरान में एक भाई ने विनोबाजी से पूछा कि आप संमेलन में आने वाले हैं या नहीं? विनोबाजी ने कहा, "आने का विचार नहीं है।" निकट परिचितों के लिए यह उत्तर अनपेक्षित नहीं था, क्योंकि इस बारे में पहले भी बातें हो चुकी थीं। लेकिन प्रश्नकर्त्ता भाई के लिए यह उत्तर शायद अनपेक्षित और आज के कुल हालात को देखते हुए अप्रस्तुत भी था। उन्होंने बड़े दर्द के साथ, लेकिन उतनी ही हृदयता से और 'एक धाव-दो टूक' शब्दों में कहा कि "सर्वोदय-समाज और संमेलन आपकी ही प्रेरणा का फल है, अभी वह बाल्यावस्था में है। दूर-दूर से सेवक सत्संग के लिए आते हैं एव खास नेतृत्व न मिलने से निराश-से लौटते हैं। ऐसी हालत में आप न आवें तो कैसे चलेगा? इसके बजाय तो संमेलन बढ़ कर देना बेहतर होगा।" विनोबाजी के न आने में क्या जिम्मेवारियों और दिक्कतें हैं, उनका भी फिर थोड़ा-सा जिक्र हुआ। फिर भी विनोबाजी जानते थे कि उस भाई की कही हुई बात ही हम सबके भी मन में है। क्षण-भर के लिए विनोबाजी स्तब्ध रहे। न मालूम उन्होंने उस क्षण में क्या-क्या विचार किया! किसे मालूम कि जिस "भूत मात्र में हरि भावना" का इन दिनों वे चिंतन, उच्चारण और आचरण तीव्रता से कर रहे हैं, करने को कह रहे हैं, उसी भावना से उन्होंने हम सबकी इच्छा की ओर देखा हो। नहीं आने की बात जितने शब्दों में और जिस तटस्थता से कही थी,

तीन

उतने ही शब्दों में और उतनी ही तटस्थता से उन्होंने कहा, “अच्छा, मैं आता हूँ।” जवाब का उच्चारण करने के पहले उन्होंने पूछ लिया कि सम्मेलन-स्थान यहाँसे कितनी दूर है। जवाब मिला—तीन सौ मील समझ लीजिये। विनोबाजी के आने की बात सुन कर सबको आनंद हुआ, लेकिन शायद ही किसी के खयाल में आया हो कि विनोबाजी सम्मेलन में पैदल आवेंगे।

अपवाद भी नहीं

बैठक के बाद तुरंत ही आश्रम की प्रार्थना थी। प्रार्थना के अंत में विनोबाजी ने सम्मेलन में जाने की बात का जिक्र किया और कहा कि “कल सुबह यहाँ से परधाम जाने का पहले से तय ही है, वहासे परसों याने ८ तारीख को सम्मेलन के लिए पैदल निकलूंगा। वाहन का उपयोग न करने का मैंने कोई व्रत नहीं लिया है और अर्थोच्छेद की मेरी कल्पना में, जो कि आज सुबह की प्रार्थना में मैंने कही है, रेल्वे आदि का परित्याग अनिवार्य है ऐसी भी बात नहीं है, फिर भी मैंने पैदल जाने का ही तय किया है। क्योंकि जो विचार पूरा विकसित नहीं हुआ है, जिसका सामोपाग दर्शन हमें अबतक नहीं हुआ है, उस अविकसित दशा में अपवाद करने की मेरी मनोवृत्ति नहीं है। इसलिए पैदल के बजाय वाहन से जाने के लिए मुझे कायल करने में मित्र लोग अपनी बुद्धि-शक्ति न चला कर, पैदल यात्रा कैसे सुखकर-शुभकर होगी इसका खयाल करें।”

सेवाप्राम-आश्रम का भ्रम-जीवन-संकल्प

प्रार्थना के बाद निकटवर्ती लोगों का यही काम रहा कि नक़्शे देख कर किस रास्ते से, किन मुकामों से जाना आदि विनोबाजी से तय करें। दूसरे लोग मिलने और एक तरह से विदा लेने-देने के लिए आते-जाते थे। ता० ७ की सुबह की प्रार्थना में महादेवी ताई ने “जेबे जातो

तेरें तू माशा सागाती ’-‘ जहों जाता हूँ वहाँ तू मेरा साथी है ।’ यह तुकाराम का अभंग गा कर मारों प्रस्थान का आरंभ कर दिया । प्रार्थना के अंत में बोलते हुए विनोबाजी ने एक तरह से आश्रमवासियों से बिदा ली । कहा कि ‘ आश्रमवानी और अन्य संबंधितों की परमों की बैठक में यह तय हुआ है कि १ जनवरी, १९५२ से आश्रम पैसे में से मुक्त हो जायगा । आश्रमवासियों द्वारा लेती आदि में किये हुए परिश्रम और लोगों से मिलने वाले श्रमदानपर ही आश्रम चलेगा । यह एक शुभ निर्णय है और यही शोभा देता है, क्योंकि बापू के बाद आश्रम यहाँ चलता है, तो वह आखिरी आदर्श के अनुरूप चलाने की कोशिश हो, वरना वह बट रहे, यह अच्छा है । आश्रम यहाँ न चलता हो तो भी लोगों को इस स्थान से स्फूर्ति तो मिलती ही रहेगी । पैसे के दान पर आश्रम चला कर भी एक तरह की सेवा होगी । लेकिन वैसे देखें तो कौन सेवा नहीं कर रहा है ? एक किसान भी सेवा करता है, लेकिन आज जरूरत है लोगों के दिलों में क्रांति करने की । वह बिना परिश्रम के, बिना प्रचलित अर्थ-व्यवस्था को तोड़े नहीं होगी ।”

देखि रे मैंने निर्बल के बल राम’

निकरने के नियत समय के कुछ पहले तालीमी संघ का सारा कुटुंब सुबह की प्रार्थना के लिए विनोबा के निवासस्थान के पास आ पहुंचा । विनोबा के साथ सबने खड़े खड़े प्रार्थना की, ‘सुने री मैंने निर्बल के बल राम’ यह भजन गाया गया । आखिर में विनोबाजी ने दो शब्द कहे : “ आप नयी तालीम का महान् काम कर रहे हैं । आशादेवी और आर्यनायकम्जी ने अपने को इसमें खपा दिया है । उन दोनों का प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहा है । आपने यहाँ आ कर प्रार्थना कर के मेरो पैदल यात्रा के लिए खूब बल दिया है । अभी तक के सब संतों का अनु-

पाँच

भव है—'निर्वल के बल राम ।' मेरे जीवन का भी यही अनुभव है। हा, मैं लिखने बैठू तो "सुने री" के बदले लिखूंगा कि 'देखि रे मैंने निर्वल के बल राम ।'

आत्मानुभूति का साक्षात्कार

सेवाग्राम से सीधे पवनार जायेंगे ऐसा अंदाज था, लेकिन विनोबा जी ने कहा, मैं बजाज-वाड़ी में किशोरलाल भाई से मिल कर वहा से पवनार आऊंगा। किसीने हिसाब किया, कुल ९ मील चलना पड़ेगा। विनोबाजी ने कहा, हररोज १०-१२ मील चलना ही है न? आज ९ मील से शुरू कर दे। फिर वे महिलाश्रम में लडाकियों से विदा लेते हुए बजाजवाड़ी पहुँचे। किशोरलालभाई आदि से मित्र कर गोपुरी हो कर पवनार करीब ११ बजे पहुँचे होंगे। पवनार के ग्रामवासी विशेष सख्ता में शाम की प्रार्थना में हाजिर थे। वे विनोबाजी के दो शब्द सुनने को आये थे। आज भी हमेशा के मुताबिक विनोबाजी ने ही प्रार्थना चलायी। प्रार्थना में स्वतः गाये हुए भजनो के द्वारा मानों वे विदा ले रहे थे। जानदेव, नामदेव, एकनाथ आदि के भजनों में से प्यारे भजनों के सिवा 'हसता रमता प्रगट हरि देखु रे, मारु जीवधुं सफल तंव लेखुं रे, नित्यानदनो नाथ विहारी रे, ओचा जीवनदोरी अमारी रे,' ये चरण न्वास रूप से उन्होंने गाये। कृष्ण के मथुरा-गमन के बाद गोपी-जन को सात्वना देने के लिये उद्भव गये थे, उस प्रसंग का यह वचन है। प्रार्थना के बाद जो प्रवचन हुआ वह आगे प्रवचनों में दिया है।

'भरत राम' से विदाई

सुबह की प्रार्थना के बाद यथा-समय यात्रा आरंभ हुई। जैसे, सबसे तो पहले दिन ही विदाई ले ली गयी थी, लेकिन 'भरत-राम' से विदा लिये बिना विनोबाजी परंघाम से कैसे जा सकते थे? और वह विदाई पेशगी में थोड़े ही ली जा सकती है! विनोबाजी अपने कमरे

छह

से निकल कर 'भरत-राम-मंदिर' में गये। 'भरत-राम-मंदिर' परधाम में प्रवेश करते ही सामने दिखाई देता है। उसका बाहरी आकार प्रचलित मंदिर का-सा नहीं है। एक सादी-सी झोपड़ी है और उसमें वनवास से आने के बाद रामचंद्रजी की भरत से जो भेंट हुई, उस प्रसंग को अंकित करने वाली मूर्ति रखी हुई है, जो परधाम के खेत में मिली है और जिमके लिये विनोबाजी को विशेष भाव है। विनोबाजी ने अपने हाथों उसकी प्रण-प्रतिष्ठा की है। वहाँ जा कर वे भजनादि भी यथा-समय करते हैं। लोगों को इसका आश्चर्य होता है और वे विनोबाजी को पूछते हैं कि "आपके आश्रम में भी मूर्ति है और आप भी मूर्ति-पूजा करते हैं?" तब विनोबाजी कहते कि "मूर्ति-पूजा का मैं आपही नहीं हूँ, लेकिन भगवान् खुद होकर मेरे यहाँ आ जाय तो उसे निकाल दूँ, ऐसा अभक्त भी नहीं हूँ।" इस मूर्ति के बारे में 'भगवान् खुद होकर आ जाय, यह अक्षरशः सत्य है। इतना ही नहीं, यहाँ तो भक्त की एक पावन कल्पना पूरी करने के लिये ही वह आया है, ऐसा मुझे लगता है। करीब उन्नीस साल पहले, ८-५-३२ को धूलिया जेल में गीता के बारहवें अध्याय पर प्रवचन देते हुए सगुण और निर्गुण भक्ति समझाने के लिये अनुक्रम से लक्ष्मण और भरत का उदाहरण दे कर आखिर में विनोबाजी ने कहा है कि "ऐसा चित्र यदि कोई निकाले, जिसमें दोनों की मुखाकृति समान हो, किंचित उम्र का फरक, चेहरे पर तपस्या वही और राम कौनसा व भरत कौनसा यह पहचाना नहीं जा सकता, तो वह चित्र बड़ा पावन होगा।" भक्त की यह अभिलाषा पूरी करने के लिये ही मानों १९३७ के बाद जब विनोबाजी परधाम पर रहने गये और शरीर भ्रम के तौर पर कुछ-कुछ खोदते थे, तब १९४०-४१ में एक दिन उनकी कुदाली किसी पत्थर पर टकरायी। यहाँ मूर्तियाँ निकलती हैं, यह खयाल होने से उस पत्थर को हिफाजत से निकाला गया तो पाया गया कि औधी रखी हुई

सात

‘ भरत-राम-भेंट ’ की वह मूर्ति थी ! “ धर्म जागो निवृत्तीचा ” (‘निवृत्ति’ का धर्म जागृत रहे) इस ज्ञानदेव के अभंग के द्वारा भरत-राम की विदा माँग कर वे निकले । रास्ते में दादा धर्माधिकारी से नबी तालीम को लेकर काफी बातें होती रहीं ।

लक्ष्मीनारायण-देवस्थान (वर्धा) में वर्धावासियों से विदा लेने को टहरना था । यह देवस्थान हिन्दुस्थान का शायद सबसे पहला भव्य मंदिर है, जो हरिजनों के लिये खोला गया था । बजाज-कुल की देश-भक्ति का वह बाध चिह्न है । वर्धा का वह एक दर्शनीय स्थान है । योगिराज भनसाळी को १९४२-४३ की चिमूर-पद-यात्रा में यहीं से विदा दी गयी थी । वह सारा प्रसंग नजर के सामने आ रहा था । महिलाश्रम की बहनों ने ‘वैष्णव जन’ और ‘प्रेम मुदित मन से कहो राम-राम-राम’ ये मधुर भजन गाये । माता जानकीदेवी बजाज ने वर्धा-वासियों की ओर से दो शब्द कहे । यहा पर विनोबाजी ने भी वर्धा-वासियों से विदा लेते समय कुछ शब्द कहे थे । उनका यह भाषण आगे प्रवचनों में दिया गया है ।

और बाद मे वे वायगाव के लिये रवाना हुए ।

इस तरह पदयात्रा का आरंभ हुई है । पदयात्रा की पावन-शक्ति से हिंदुस्तान सदियों से परिचित है । जीवन-काल के आखिरी हिस्से में हिंदू-संस्कृति ने मनुष्य से अपेक्षा रखी है ‘परिव्राजकता’ की । परिव्राजक याने चारों ओर घूमने वाला । गीता के ‘सर्वधर्मान्पारेत्यज्य मामेक शरणं ब्रज, सब धर्मों को छोड़ कर मुझको ही शरण आ,’ इस आदेश को पालन करने वाला आदेश देते हुए गीता ने मानों उसका मर्म भी बता दिया । भगवान बुद्ध और महावीर के विहार से सारे प्रात को ही ‘विहार’ नाम मिला । साधु-संतों के परिभ्रमण ने खंड-प्राय हिंदुस्तान को “अखण्ड” बनाया । बापू की दाडी-यात्रा और नोआखाली-यात्रा का चमत्कार तो हमारी आँखों के सामने ही हुआ है ।

आठ

सर्वोदयी ' पद-यात्रा

आखिर मे जानदेव के अद्रोह के विवरण के शब्दों में कहूँगा कि क्या अद्रोह का ही भावरूप शब्द सर्वोदय नहीं है ? जिस तरह गंगा दुनिया के पाप-ताप दूर करती हुई और किनारे के वृक्षों का पोषण देती हुई समुद्र तक पहुँचती है, या दुनिया का अधापा दूर करता हुआ और शोभा के मंदिरों को प्रकट करता हुआ सूर्य जैसे प्रदक्षिणा को निकलता है, वैसे बड़ों को छुड़ाती हुई, डूबे हुएों को और दबे हुएों को ऊपर उठाती हुई एव आत्तों के दुःख दूर करती हुई यह सर्वोदय-पद-यात्रा संपन्न हो।

—बलभस्वामी

: १ :

संकल्प

आज यह तय हुआ है कि आगामी सर्वोदय संमेलन के लिये मुझे हैद्राबाद जाना है । बहुत लोग मुझे अब तक आग्रह पूर्वक कहते रहे हैं कि मुझे संमेलन में जाना ही चाहिये । लेकिन मैंने न जाने का तय कर रखा था । न जाने के मेरे जो कारण थे वे भी बहुत महत्त्व के थे । उनको देखते हुए मैं जाना नहीं चाहता था । लेकिन आज मित्रों ने आग्रह किया और आग्रहवशा मुझे जाने का निश्चय करना ही पड़ा ।

कल सेवरे यहाँ से पवनार जाऊंगा । परसो पवनार से हैद्राबाद के लिये पैदल निकलूंगा । रोज करीब पन्द्रह मील चलने की कल्याण है ।

यह सब मैं जब प्रार्थना में जाहिर कर रहा हूँ तो अपनी जिम्मेवारी महसूस करता हूँ । वाहन में न बैठने का व्रत मैंने नहीं लिया है । क्योंकि व्रत तो सत्य-अहिंसा आदि का लिया जाता है । विस-विच्छेद की बात मैं कर रहा हूँ तो उसका यह अर्थ भी नहीं है कि मुझे प्रवास छोड़ देना है । पैसे के छेद के कई पहलू मुझे दीख पड़ते हैं । उन पहलूओं के अनुकूल समाज हमें बनाना है । परमेश्वर चाहेगा तो इस काम में हमें जरूर यश देगा ।

मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस संकल्प को तोड़ने की बात वे न सोचें। संकल्प में शुरू से कुछ अपवाद भी नहीं रखना चाहिये। उससे मनुष्य की न संकल्पशक्ति बढ़ती है और न प्रतिभा। पैदल यात्रा की योजना बनाने में जो मदद देना चाहें वे जरूर दे सकते हैं।

सेवाग्राम आश्रम

६-३-५१

: २ :

परंधाम आश्रम से बिदा

आप लोगों को अब पता चल ही गया है कि कल से मैं पैदल चलकर हैद्राबाद के सर्वोदय संमेलन के लिये जा रहा हूँ। वहाँ जाने का पहले विचार नहीं था। लेकिन लोगों का आग्रह रहा और जाना तय भी हो गया। अचानक ही यह तय हुआ, और अब केवल तीस दिन ही बचे हैं। ज्यादा दिन टहरने की अब गुजाबिना नहीं रही है, इसलिये मैं कल ही कूच कर रहा हूँ।

चित्त-शुद्धि का कार्य

अपने यहाँ जो काम चल रहा है उस संबंध में मैं कभी बार आपके सामने बोल चुका हूँ। यह काम यदि ठीक ढंग से रूप पकड़ लेगा तो उससे हम सबकी चित्त-शुद्धि होगी और समाज को भी कुछ शुद्धि प्राप्त होगी। इस तरह दोनों का काम बनेगा। इसलिये बिच्छा थी कि इस काम का कुछ रूप आने तक यहीं रहें। वैसे मेरी तबियत भी बहुत अच्छी हुई है ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वह चीज गौण है। मुख्यतया यहाँ के काम का कुछ आकार आनेके बाद ही जरूरत पड़ी तो बाहर जा सकते हैं। हो सकता है शायद बाद में बाहर जाने की जरूरत भी न पड़े—ऐसी कल्पना थी। लेकिन बीच में जाने का तय हुआ है तो वह

भी परमेश्वर की इच्छा से ही प्रेरित हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूँ । क्योंकि यह सारा अनपेक्षित-सा हो गया और जिस खबर से सब को आनंद भी हुआ है ।

पैदल-यात्रा क्यों ?

सर्वोदय संमेलन में सब लोग जिस तरीके से जा सकते हैं उस तरीके से जाना ही अच्छा है । जो जिस तरह नहीं जा सकते हैं वे रेलगाड़ी से आर्येंगे तो भी उसमें दोष नहीं है । लेकिन हो सके तो पैदल ही जाना अच्छा है । उससे देश का दर्शन होता है । जनता के साथ संपर्क आता है और उसे सर्वोदय का संदेश पहुंचा सकते हैं । वह संदेश सुनने और उसमें से सात्वना प्राप्त करने के लिये लोग बहुत उत्सुक हैं । लोगों को इस समय सात्वना की सख्त जरूरत है । किसी का मन अगर व्रत हुआ है और उसमें से उक्त होने का कुछ रास्ता उसे मिल जाता है तो उसको शांति मिलती है । यही हाल आज जनता का हुआ है । इसमें किसी एक का दोष है ऐसी बात नहीं है । सबका मिलकर दोष है । लेकिन दोषों की चर्चा भी किस काम की है ? जरूरत है दोष-निवारण की । और उसका मार्ग सीधा सादा, सब को करने योग्य और असरकारक भी है जो हमने यहाँ परंधाम में प्रयोग किया है । यद्यपि अभी तक जैसा हम चाहते हैं वैसा रूप नहीं मिला है, फिर भी शुभ भावना से तपस्या हो रही है । और अतनी भी व्ययित मन को संतोष दे सकती है यात्रा का ढांचा नहीं बनाया है ।

जिस प्रवास मैं अपनी कुछ भी कल्याण ले कर नहीं जा रहा हूँ । सहजता से जो होगा वह होने दूंगा । फलाने ढंगसे

सफर करनी है, फलाना काम करवा लेना है, ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं है। जगह जगह जो भी भले लोग मिलेंगे उनसे मिलना और लोगों की जो कठिनाइयाँ होंगी उनको हल करने का कुछ रास्ता बना सकूँ तो बनाऊँ इतना ही मन में है। अब समय कम रहा है। इसलिए निश्चित रास्ते से ही जाना पड़ेगा। इधर उधर हो आने की गुंजाइश नहीं है। वापिस आते समय ऐसी कोई पाबंदी न होने के कारण अपनी इच्छा के मुताबिक घूम सकेंगे। लेकिन आगे का विचार अभी नहीं किया है। वह हैद्राबाद पहुंचने के बाद तय होगा।

मेरा मन यही है

जो लोग यहां जिस काम में लगे हुए हैं उनके साथ मेरा शरीर यद्यपि नहीं दिखाई देगा तो भी मेरा मन यही है ऐसा अनुभव आपको आएगा। शरीर से यहां रहते हुए जितनी तीव्रता से मेरा मन यहाँ या उमसे कम तीव्रता से वह नहीं रहेगा। शायद अधिक तीव्रता से ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जिन नवयुवकों ने यह काम पूरा करने की शपथ ली है वे यदि यह काम ईश्वर का है जिस भावना से उसे निरहंकार पूर्वक करते रहेंगे तो उन्हें यहाँ की मेरी गैरहाजरी उत्साह देनेवाली ही साबित होगी।

परंधाम, पबनार

७-३-५१

: ३ :

वर्धावासियों से बिदा

काबू के प्रयाण के बाद मुझे हिंदुस्तान भर घूमना पड़ा। थोड़ा व्यापक रूप से देखने का मौका भी मिला। अनुभव से मेरे ध्यान में आया कि प्रवास का यह टंग उस काम के लिये अनुकूल नहीं है जो हमें करना है। आज कल राज-काजवाले तो हवा में घूमते हैं। समाज-सेवक भी उसी टंग से घूमने लग जायें तो वे भी राज-काजवालों के समान हो जायेंगे। यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा।

स्वास्थ्य के कारण जब मुझे घूमना बंद करना पड़ा तब यह सब सोचने का मौका मुझे मिला। इसी बीच परधाम में वित्त-छेदन का प्रयोग शुरू हुआ। उस काम के कुछ स्वरूप आने पर, जरूरत पड़ी तो फिर घूमने की मेरी कल्पना थी। लेकिन अतने में यह यात्रा का कार्यक्रम बन गया और बहुत ही सहज में बना। जो वस्तु सहज उपलब्ध होती है उसे अीश्वर की अिच्छा समझ कर स्वीकारना चाहिये। इसी खयाल से मैं निकल पड़ा हूँ। संभव है, हैद्राबाद पहुंचने के बाद आगे भी बढ़ूं। उस हालत में वापिस कन्न आऊंगा कह नहीं सकता। इसलिये आज आपसे बिदा ले रहा हूँ।

वर्धावासियों की जिम्मेवारी :

वर्धावालों से मेरा अिकतीस वर्षों से संबंध रहा है। हम लोगों ने तालीम की एक पद्धति बनायी और उसे हमने 'सेवाग्राम-

पद्धति' कहा। लेकिन लोगोंने वह नाम नहीं अुठाया। 'वर्धा-शिक्षण-पद्धति' नाम चला। बापू के अनन्यभक्त जमनालालजी का नाम भी वर्धा से जुड़ा हुआ है। अितने पावन नामों का बल जब हमारे पास है, तो मेरा विश्वास है, वर्धा में बहुत कुछ काम हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारी अितनी संस्थाओं होने पर भी वर्धा शहर में हम खास काम नहीं कर पाए हैं यह कबूल करना चाहिये। मैं उसके कारणों में अभी नहीं जाऊंगा। संभव है अपने-अपने कामों में सभी अितने मशगूल रहे हों कि समय न निकाल सके हों।

बीच में हमने वर्धा शहर का सर्वे किया था। सैकड़ों लोगों ने अपने दस्तखत दिये और कुछ न कुछ सार्वजनिक काम करने की अिच्छा प्रकट की। यह छोटी बात नहीं है। लेकिन उन लोगों से काम नहीं लिया गया। वैसे यहां काफी कार्यकर्ता हैं और रचनात्मक काम के लिये वातावरण भी अनुकूल है।

अनिदावृत्ति की आवश्यकता

लेकिन जहां कार्यकर्ता अधिक होते हैं वहां अेक बात खास ध्यान में रखनी चाहिये। आज अभी वैष्णवगीत गाया गया जिसमें नरसी मेहता ने आदर्श भक्त के गुण बताए हैं। उनमें से अेक गुण की तरफ मेरा ध्यान इन दिनों विशेष रूप से जा रहा है। वह गुण है 'अनिदा'। अेक जमाना था जब मैं कहता था कि अपने तो दोष देखने चाहिये और दूसरों के गुण। लेकिन अेक दिन सूझा कि हमें अपने भी गुण ही देखने चाहिये। क्योंकि आखिर

हम कौन हैं ? वही शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप हम हैं । तो फिर दोष किसके देखें ? दोषों का भान हम जरूर रखें । लेकिन चिंतन तो गुणों का ही करना चाहिये । दोष तो सिर्फ गुणों की छायारूप होते हैं । बिना छाया के तसबीर नहीं खींची जा सकती । वैसे बिना दोषों के गुण भी अव्यक्त ही रह जाते हैं । दोषों को हम जानेंगे जरूर, लेकिन उनको दूर करने के लिये । और गुणों को बाहर आने का मौका देते रहेंगे । इस तरह अगर हम हर जगह गुण-दर्शन ही करते जाएंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे

महिलाश्रमवालों से

यहां महिलाश्रम की अितनी लड़कियां आई हैं । आरंभ से ही उस संस्था से मेरा संबंध रहा है । आज ऊपर से ऐसा दीखता है मानों मेरा महिलाश्रम से कोई संबंध नहीं है । लेकिन दर-असल मैं अने को महिलाश्रम के काम से अलग नहीं समझता हू । इस वक्त सेवाग्राम में तालिमी संघ के संमेलन में मैंने महिलाश्रम का जिक्र बुनियादी तालीम का प्रयोग करनेवाली संस्था के तौर पर किया । आपको अपना अलग अभ्यासक्रम बनाने का अधिकार है । लेकिन यह बात ध्यान में रखें कि हिंदुस्तानभर की लड़कियों को यहां जो संस्कार मिलेंगे उनके द्वारा उनमें तेज तथा वैराग्य प्रकट होना चाहिये ।

लक्ष्मीनारायण मंदिर, वर्धा

प्रातःकाल ८-३-५१

पहला दिन—

: ४ :

देहात के मजदूरों का प्रश्न

परंधाम का हमारा काम

आपके गांव में पहले मैं कब आया था मुझे याद नहीं है । लेकिन आपके पड़ोस में ही मैं रहता हूँ । यहां से तेरह मील पर पवनार में परंधाम आश्रम है । वहां मैं रहता हूँ और आप सब की चिंता करता हूँ । किसान कैसे बचेगा, देहात कैसे सुधेंगे, लोगों को सुख कैसे मिलेगा, दैन्य, दारिद्र्य और दुःख कैसे मिटेगा, प्रेम कैसे रहेगा इस विषय में मैं सोचता हूँ । परंधाम में मैं और मेरे साथ पढ़े-लिखे लोग भी कुदाली से खोदते हैं, रहट हाथ से चलाकर कुएँ से पानी निकालते हैं, सूत कातते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बड़ई का काम करते हैं । ये सारे उद्योग कैसे पनपेंगे इसका विचार करते हैं ।

मेरी पैदल यात्रा

आज मैं आपके गांव में आया हूँ और यहां से घूमते घूमते तीन सौ मीलपर हैद्राबाद है, वहां जाऊंगा । वहां सज्जन लोगों का एक सम्मेलन है । वहां मैं पैदल जा रहा हूँ । आप कहेंगे यह क्या पागलपन किसको सुझा ? अिन दिनों तो लोग हवाई जहाज में जाते हैं । कल ही एक बालक कह रहा था कि रेलगाड़ी से सफर

करने में बहुत समय लगता है। अब तेजीसे पहुँचाने वाले हवाई जहाज निकले हैं तो जैसे जमाने में पैदल सफर करने का यह पागल्पन कैसे ? लेकिन यह पागल्पन आपसे मिलने के लिये है। आप देहात की जनता नारायण स्वरूप है। आपसे संपर्क बढ़े, जिस खयाल से मैं आया हूँ। कल मैं रालेगांव जाऊँगा। सुबह पाँच बजे चल दूँगे। दोपहर को ग्यारह बजे वहाँ पहुँचेंगे। फिर भोजन आदि होगा। कुछ लिखने का काम चलता है वह करेंगे, फिर शाम को पाँच बजे लोगो से बातचीत करेंगे। रात को प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर भगवान का नाम लेंगे और सब को सिखायेंगे। फिर रात को भगवान की गोद में सो जाएंगे। परसो सुबह उठ कर फिर से कूच करेंगे। ऐसा हमारा कार्यक्रम है।

देहात की चिंता देहात ही करे

आज भी यहाँ के लोगों से पाँच बजे काफी चर्चा हुई। उन्होंने किसानों की दिक्कतों का जिक्र किया। गाँव के मजदूरों को आगे शायद खाने के लिये ज्वार न मिले ऐसी हालत पैदा होने की आशंका उन्होंने प्रकट की। मैंने उनसे कहा, तुकाराम महाराज ने हमें सिखाया-है कि

“तुझे आहे तुजपाशीं परि तूं जागा चुकलासी”
—तेरा तेरे पास ही है, लेकिन तू जगह भूल गया है और इधर उधर भटक रहा है। तुझे लगता है कि सरकार, डी. सी. या मंत्री मेरे लिये कुछ करेंगे। लेकिन तेरे लिये तू ही करेगा। तुझे षकान आयेगी तो तू ही सोयेगा, दूसरा तेरे लिये नहीं सोयेगा। तुझे भूख लगेगी तो तू ही खायेगा, दूसरा तेरे लिये नहीं खायेगा। तू आया

या तब अकेला ही आया था, और जायगा तब अकेला ही जायगा । इसलिये तेरी जिम्मेवारी तुझे ही उठानी है, और वह तू ही उठा सकता है । भगवान ने कैसी योजना बनाई है यह तू नहीं देखता है ? उसने हरेक को दो कान, दो आंख, दो हाथ, दो पाव दिये हैं और बुद्धि भी दी है । ऐसा क्यों दिया है ? इसलिये कि हर एक अपने पाव पर खड़ा रहे और फिर एक दूसरे की मदद करे । वैसे देहातों को भी अपने सवाल खुद ही हल करने होंगे । और वे हो भी सकते हैं । हिन्दुस्तान में पाच लाख देहात हैं । उनके सवाल दिल्ली की सरकार, चाहे वह कितनी भी कुशल क्यों न हो, अकेली हल नहीं कर सकती । सवाल हल करने का इलाज आपके हाथ में है । वह कौनसा ? पैसे के दर नीचे ऊपर होते हैं । एक रुपये में कभी चार पायली ज्वार तो कभी दो पायली । वह भी कभी मिलती है कभी नहीं । मैंने सुझाया कि सालदारों की तरह आप मजदूरों को भी कुछ निश्चित प्रमाण में ज्वार क्यों नहीं देते ? यह प्रमाण मैंने रोज की पचास तोला ज्वार सुझाया । खी हो चाहे पुरुष, ज्वार में फरक न किया जाय । मजदूरों में जो भी फरक करना है, वह पैसे में किया जाय । ५० तोला ज्वार दे देने के बाद ऊपर से जो भी पैसे देने हैं उसमें चाहें तो फरक कर सकते हैं । अिस तरह मजदूरों को उनकी रोजी में कम से कम ५० तोला ज्वार और बाकी के पैसे देगे तो आपके मजदूर भूखे नहीं रह सकेंगे । इस पर काफी चर्चा हुई । आखिर यह सुझाव उन लोगों को जंच गया । फिर मैंने कहा कि मेरे सामने आपने तय किया है तो वैसा प्रस्ताव अभी मंत्री हाजिरी में ही कर लीजिये । न मालूम फिर

मैं कब आपके गांव में आऊंगा। बातचीत में गांव के बड़े बड़े लोग हाजिर थे। उन्होंने प्रस्ताव किया। वह आपको बाद में सुनाया जायगा। जिस प्रस्ताव के अनुसार अगर आप लोग चलेंगे तो गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। फिर आपके गांव का उदाहरण देखकर दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करेंगे और इस तरह देहात का यह जटिल प्रश्न हल हो सकेगा।

पांच अंगुलियों की तरह रहो

और अकेल बात। हम सब हाथ की पांच अंगुलियों की तरह रहें। हमारे हाथ की एक अंगुली छोटी है तो दूसरी बड़ी है। सब अंगुलियां समान नहीं हैं। फिर भी जो काम करना होता है वह सब मिल कर ही करती है। लोटा उठाना हो तो अंगूठा और अंगुलियां मिलकर उठाती हैं। वे अगर आपस में झगड़ा करने लगेगीं और परस्पर सहकार नहीं करेंगी तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो हमें भी उनकी तरह प्रेम के साथ रहना चाहिये। कोई छोटा और कोई बड़ा यह तो दुनिया में रहेगा ही। लेकिन सबके दिल एक होने चाहिये। अपनी अंगुलियों से यह सबक हम सीखेंगे तो हमारा भला होगा।

भगवान का स्मरण कीजिये

एक आखिर की बात और है। मुझे आपका अधिक समय नहीं लेना है। लेकिन मैं जो कहता हूँ उसपर अमल कीजिये। रामदास स्वामी ने कहा है—“समजले आणि वर्तले तेचि भाग्यपुरुष

झाले, येर ते बोळत चि राहिले करंटे जन”। जो भाग्यहीन होते हैं वे केवल बोलते ही रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। लेकिन भाग्यवान वे ही होते हैं जो किसी विचार को समझने के बाद उसपर अमल करते हैं। इसलिये आप मेरी बात पर सोचें और वह बच जाय तो उसपर अमल करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब अेक साथ बैठकर हर रोज नियमित रूपसे भगवान की प्रार्थना करें। मैंने सुना है कि यहां रोज प्रार्थना होती है। लेकिन उसमें हाजिरी पन्द्रह बीस लोगों की ही होती है और उसमें ज्यादातर छोटे लड़के ही होते हैं। ऐसा न करें। आप सब प्रार्थना में हिस्सा लीजिये। आखिर इस मनुष्य देह मे आकर क्या करना है? मानव-देह में इसलिये आते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे पर प्रेम करें और सब मिल कर परमेश्वर का ध्यान करें। उसीने हमें वाणी दी है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितने अधिक लोग जमा हो सकते ह उतने जमा होकर परमेश्वर का स्मरण कीजिये।

बायगाव (वर्धा)

सायकाल

८-३-५१

दूसरा दिन—

: ५ :

जन-सेवा ही परमेश्वर की पूजा

प्रार्थना में निम्न पंक्तियाँ लोगों को गा कर समझायी गई :

“ नारायण असे विश्वी, त्याची पूजा करीत जावी
या कारणे तोषवावी, कोणी तरी काया ”

—सारे विश्व में नारायण भरा है, उसकी पूजा हर रोज करे।
असके लिये किसी न किसी की सेवा करके उसे संतोष देना
चाहिये।

मेरी माँ ने बचपन में हमें एक पहेली सुनायी थी “ भाऊ
भाऊ शेजारी भेट नहीं संसारी। ” भाभी भाभी पड़ोस में रहते हैं
लेकिन जिंदगी-भर में एक दूसरे की मुलाकात ही नहीं होती।
कौन हैं ये दो भाभी ? उसका जवाब है आँखें। दोनों आँखें
बिल्कुल अड़ोस-पड़ोस में हैं। लेकिन एक आँख दूसरी को नहीं देख
सकती। ऐसा ही हाल आप का और मेरा हुआ है। मैं आप—
के गाँव से पच्चीस-तीस मील की दूरी पर ही रहता हूँ। और
वहाँ तीस साल से रहता हूँ। लेकिन अज तक आपकी मुलाकात
नहीं हो पाई थी। भगवान ने आज वह दिन ला दिया है।

सर्वोदय संमेलन का पूर्वतिहास

अभी सर्वोदय संमेलन हैद्राबाद में है। गांधीजी के जाने के बाद सब लोगों ने मिल कर तय किया कि सर्वोदय-समाज कायम करें। सर्वोदय-समाज याने क्या? जिस समाज में न कोई ऊंचा है न कोळी नांचा है। जिस समाज में सब अेक दूसरे पर प्रेम करते हैं उसका नाम है सर्वोदय-समाज। फिर हर साल जगह जगह मेले लगाये जायं। उन मेलों में सब लोग इकठे हो कर भगवान का भजन करें, एक दूसरे से परिचय कर ले, और गांधीजी का स्मरण कर के देश के लिये अपने हाथ की कती सूत की अेक गुंडी समर्पण करें। तो अिसके अनुसार १२ फरवरी को हर प्रांत में मेले लगे। आप के प्रांत में पवनार में मेला लगा था। आप में से कुछ लोग शायद वहां पर आये होंगे लेकिन सब को आना चाहिये। और अपने साथ अेक अेक गुंडी ला कर भगवान के चरणों में समर्पण करनी चाहिये। यह अगले साल कीजिये। अिसके अलावा यह भी तय हुआ कि हिंदु-स्तान भर के कार्यकर्ता सालभर में अेक दफा अिकठे हो कर अगले साल के काम के बारे में सोचें।

नारायण के दर्शन के हेतु पैदल यात्रा

अिस साल सर्वोदय-समाज के सेवकों का संमेलन हैद्राबाद में होनेवाला है। वहां अगर मुझे जाना चाहिये तो मैं पैदल चलते चलते ही क्यों न जाऊं, अैसा मैंने सोचा है। अुससे आप जो लोग नारायण स्वरूप हैं अुनके दर्शन मैं कर सकूंगा। नदी समुद्र में

मिलने के लिये निकलती है। लेकिन जाते जाते रास्ते में कहीं अिस गांव को पानी दिया, कहीं उस खेत को पानी दिया ऐसा करते करते और सबकी सेवा करते करते समुद्र तक पहुंचती है। उसी तरह मैंने भी सोचा कि हैद्राबाद जाना है तो रास्ते में लोगों से मिलते मिलते और लोगोंकी कुछ सेवा करते करते जाऊं। तो आज आप के गांव में आया हूं।

दुखियों की सेवा ही परमेश्वरकी पूजा है :

आप और हम सब यहाँ प्रार्थना में अिकट्टे हुअे हैं। अिससे मुझे बहुत आनंद हुआ है। आज प्रार्थना में हमने अेक बात सीखी। सारी दुनिया में जो परमेश्वर भरा है उसकी कुछ सेवा हमारे हाथ से होनी चाहिये। और परमेश्वर की पूजा याने दुखियों की सेवा। तो आप लोग हर रोज सोने के पहले अपने दिल से पूछें कि अपनी देहके लिये तो मैंने सब कुछ किया लेकिन दूसरे के लिये क्या किया ? गांव के लिये क्या किया ? कोअी बीमार था तो स्को दवा दी है ? कहीं गंदगी पडी थी उसको साफ किया है ? मेरा देह और मेरा घर छोड़ कर गांव के लिये मैंने अगर कुछ नहीं किया है तो समझना चाहिये कि मेरा आज का दिन बरबाद हुआ। मैं व्यर्थ जिया। अिस तरह तो पशु, पक्षी सभी जीते हैं। भगवान ने हरेक को प्राण दिया है तो सब खाते हैं और जीते हैं। लेकिन दूसरे के लिये जीना, दूसरे की कुछ सेवा करना अिसमें जो समाधान मानव को प्रतीत होता है वह दूसरी किसी चीजमें नहीं होता। यह कलना की बात नहीं है। कोअी भी अिसका अनुभव ले सकता है।

दूसरे को खिलाने का आनंद बचो

बचपन की बात है। हमारे गांव में हमारा खुदका अेक कटहल का पेड़ था। जब फल निकलता था तब उसे काट कर दो दो बीज हरेक घर में दे आने के लिये माँ हम से कहती थी। हमारा गांव पचास-साठ घरों का था। सब घरों में मैं बीज पहुंचा आता था। मैं उस समय सात साल का बच्चा था। बच्चों को तो खाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन हमको उस फलके बीज पहले नहीं मिलते थे। मुझे अब भी याद आता है कि वे बीज दूसरो को बाँटने में मुझे कितना आनंद होता था। वह एक अजीब प्रकार का आनंद था। खुद खाने में जो आनंद आता है उसका अनुभव तो हरेक को है। जानवरों को भी वह अनुभव आता है। लेकिन दूसरे को खिलाने में कैसा आनंद आता है यह अनुभव करके ही देखना चाहिये। जैसे शक्कर मुंह में डालते ही उसकी मधुरता का हरेक को अनुभव होता है, वैसे दूसरे को मदद देने में मधुरता है या नहीं, यह अनुभव करके ही देखना चाहिये। अगर वैसा अनुभव न आये तो आप आ कर मुझे जरूर कहें। इतनी अनुभव सिद्ध यह बात है।

दूसरे को सुख देने में ही मनुष्य-जन्म कृतार्थ होता है

आज की प्रार्थना में हम यह सबक सीखे हैं कि नारायण की कुछ सेवा अपने हाथ से हो। वह पूजा तुलसी, बेल या फूल से नहीं होगी। कुछ सेवा ही होनी चाहिये। किसी-न-किसी तरह भगवान को संतोष पहुंचाना ही होगा। रामदासस्वामी समझाते हैं कि

इस तरह संतोष पहुंचायेगे तो ही नारायण की पूजा होगी। वही सिखावन आज मैंने प्रार्थना में आपके सामने रखी। आज पहले ही मैं आप के गांव में आया हूँ। हम सब ने मिल कर प्रार्थना की, बहुत आनंद आया। फिर कब मिलेंगे कह नहीं सकते। इसलिये इतनी बात याद रखिये कि एक फकीर आया था और सुनाकर चला गया कि मनुष्य देह की कृतार्थता भोग भोगने में नहीं है बल्कि दूसरे को थोड़ा भी क्यों न हो, सुख देने में है।

मजदूरों को मजदूरी में कुछ ज्वार दीजिये

आज आप के गांववालों से चर्चा चल रही थी। मैंने सुझाया कि मजदूरों को हर रोज की मजदूरी में कुछ ज्वार देते जाइये। आधी पायली ज्वार (५० तोला) और फिर ऊपर से जो भी कम ज्यादा पैसा देना हो वह दें। अगर यह बात आप को जंचे तो दस्तखत करके प्रतिज्ञा कर लो। मुझे तीन दस्तखत मिले हैं। तुझे खुशी हुई। तीन कुल कम नहीं है। अरे भाई, एक के हृदय में भी अगर भगवान जग गया तो सारी दुनिया बदल सकती है। ऐसे लोग हमने देखे हैं। बड़े लोग बड़े कैसे बनते हैं? गांधीजी हमारे सामने हो गये। वे किस कारण बड़े हुए? उनको क्या भगवान ने हमसे अधिक इन्द्रियां दी थीं? उनके पास क्या अधिक था? उनके हृदय में भगवान जग गया था और दूसरों की सेवा करने की लगन उन्हें थी। इसके सिवाय उनके पास क्या था? वैसी अगर हममें से एक को भी लगन लगी तो वह छोटी बात नहीं है।

तीन लोगों ने दस्तखत दिये, मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे उम्मीद है कि वे उसके अनुसार व्यवहार करेंगे।

मनुष्य के हृदय पर भरोसा रखो

लेकिन एक भाई ने मुझे सावधान किया। उसने कहा “आप दस्तखत लेनेकी झंझट में न पड़ें। उसमें कोई सार नहीं है। हमारा गांव इतना लोभी है कि बचन भले ही दे देंगे लेकिन उसको निभायेंगे नहीं।” मैंने कहा “भाई, भरोसा करना मेरा धर्म है। मेरे हाथ में दंड-शक्ति नहीं है और न मैं चाहता हूँ। यहाँ आकर एक बात मैंने कही और जिनको वह जंची उन्होंने उसके अनुसार चलने का वादा किया, तो मैं उनपर विश्वास ही रखूंगा। मनुष्य के हृदय पर भरोसा रखना ही चाहिये। अगर न रखें तो हम मनुष्यता गंवायेंगे। आपने मुझे सावधान किया, अच्छा हुआ। उससे वे लोग भी चेत जायेंगे। बचन अगर दिया है तो “प्राण जाइ बरु बचन न जाई।” लेकिन याद रखो कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर जागता है। कब जागेगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। किस निमित्त से जागेगा यह कह नहीं सकते। मैं एक फटा-टूटा आदमी आप के पास आया और ऐसा कहने की भगवान ने मुझे हिम्मत दी कि “अपने लिये तो हम जीते ही हैं, लेकिन दूसरे के लिये जीना सीखो” तुकाराम महाराज ने यही सिखाया। “तुका म्हणे फार थोडा करी परउपकार” — थोडा भी क्यों न हो परोपकार करो। यह देह दूसरो के लिये धिसने दो। अगर देह वैसी धिसेगी तो चंदन धिसने पर

जैसी सुगंध फैलती है वैसी देह घिसने पर सुगंध फैलेगी । वैसी सुगंध फैलने दो यह सिखावन हमारे सब संतों ने हमें दी और वही मैंने आज आप के सामने रखी ।

मेरे मित्रो, मेरा भाषण समाप्त होता है । आपको मेरे प्रणाम हैं ।

राळेगाव, (जि. यवतमाळ)

९-३-५१

तीसरा दिन—

: ६ :

हाथ-चक्की और हरि-नाम

यह एक छोटासा गांव है। छोटे गांव में सब के हृदय एक हांत है। एक दूसरे की अच्छी पहचान होती है। किसी को कुछ तकलीफ हो तो उसका जल्दी पता चलता है और आप मदद के लिये दौड़ जाते हैं। यह सब अच्छा है। फिर आप का गांव रेलगाड़ी से और मोटर से बहुत दूर है जिस से आप बड़े सुख में हैं। लेकिन आगे-पीछे मोटर यहां तक पहुंच जायगी। तब भी आप अपना सादा जीवन और प्रेम न छोड़ें।

हाथ-चक्की का महत्त्व

आपके गांव में अभी हाथ-चक्की पर पीसा जाता है। यह अच्छा है। लेकिन मोटर नजदीक आ जायगी तो ओट की चक्की निकलेगी और आप अपना आटा वहां से पिसवा लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप की बड़ी हानि होगी।

मैं बचपन में कोकण में रहता था। आप के जैसा ही वह छोटा गांव था। सुबह चार बजे घर की खियां उठती थीं और सब से पहले जो कुछ पीसने का होता था, पीस लेती थीं। बाद में झाड़ू आदि लगा कर आंगन में पानी छिड़कती थीं। और फिर

प्रेम से भगवान का नाम लेती थीं। हर गांव में इस तरह चक्की चलती थी।

देश आधा घंटा देरी से उठने लगा

लेकिन तीस साल के बाद, अब देहातों में से चक्की लुप्त होती जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ कि पहले से लोग देरी से उठने लगे हैं। यानी सारे देश का प्रातःकाल का अमूल्य आधा घंटा बरबाद हो रहा है। सुबह के दो-तीन प्रहर बहुत मूल्यवान होते हैं*। उस समय नामस्मरण कर सकते हैं और गहरा अभ्यास आदि कर सकते हैं। इसलिये सुबह के प्रहर में आधा घंटा देरी से अठने के कारण सारे देश का उतना नुकसान हो रहा है। तो आप लोग सुबह जल्दी उठते जाइये और रात में जल्दी सोते जाइये।

पुरुष भी चक्की चलायें

और पीसने का काम केवल स्त्रियां ही क्यों करें? बहुत सारा तो वे पीसती हैं। लेकिन आप को भी थोड़ा पीसना चाहिये। हम जेल में पीसते थे। जेल में पुरुष पीसते हैं, यह तो सब जानते हैं। लेकिन हम परंधाम के हमारे आश्रम में हर रोज पीसते हैं। पुरुष और स्त्रियां दोनों पीसती हैं। हर रोज ताजा आटा मिलता है। हाथ के ताजे आटे में जो ताकत है वह मिल के आटे में नहीं है। आपके गांव में अभी तक तो चक्की चल रही है। लेकिन मोटर आने पर भी आप यह नियम न छोड़ें। आलस्य को छोड़ दें। और परमेश्वर का नाम लेते लेते चक्की चलाते जाइये। कबीर

एक कविता में लिखते हैं कि लोग मंदिरों में पत्थर रखकर उसकी पूजा करते हैं; लेकिन “घर की चक्की कोई न पूजे, जा पर पीसा खाय।” जिस चक्की पर हम अपना आटा पीसते हैं और हमारी रोज की रोटी खाते हैं उस चक्की की पूजा क्यों नहीं करते ? वह भी परमेश्वर ही है। चक्की की पूजा बेल-फूल चढ़ाकर नहीं होती। उसको हर रोज साफ कर के उसमें तेल दे करके आटा पीसना यही उस चक्की की पूजा है।

व्यसन छोड़िये

इस तरह अगर हम आलस्य छोड़ेंगे, उद्योग करेंगे, तो छोटा गाँव होने पर भी हम सुखी रह सकते हैं। गाँव में किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिये। किसी को चिलम का व्यसन, किसी को बीड़ी का व्यसन, किसी को गांजा-अफीम का व्यसन, और आज कल तो चोरी से शराब का व्यसन भी शुरू हो गया है। आप ही सोचिये कि इन चीजों का न देह को उपयोग है न आत्मा को। इन व्यसनों के कारण तो मनुष्य गुलाम बन जाता है। मनुष्य देह में हम आये हैं तो गुलाम बनने के लिये थोड़े ही आये हैं ? हम तो इस देह में मुक्ति का अभ्यास करने के लिये आये हैं। इसलिये गाँव में किसी प्रकार के भी व्यसन न रहने दो।

हरि-नाम मत विसारो

यह छोटा गाँव होते हुए भी करीब आधे गाँव के लोग आये हैं। मैं जो बात अब कहूँगा वह ध्यान में रखो। हर रोज गाँव के १५-२० लोग भेक जगह जमा हो कर प्रेम से प्रभु का भजन

करते जाइये । १५-१६ साल पहले मैं मेरे बचपन के देहात में गया था । उस गांव में स्कूल नहीं है । न कोई खास लिखना पढ़ना भी जानता है । दो दिन ही मैं वहां रहा । लेकिन एक दिन रात को दो बजे मेरी नींद खुली तो मुझे भजन की आवाज सुनाई दी । बुधवार का रोज था । मैं बिस्तर से उठा और जहां भजन चल रहा था वहां जाकर बैठ गया । घंटा-आधा घंटा उन लोगों ने भजन गाया । मुझे बहुत आनंद हुआ । मैं सोचने लगा जिस गांव में स्कूल नहीं है और लिखना-पढ़ना भी कोई नहीं जानता वहां इतना ज्ञान भी इन लोगों को किसने दिया ? तुकाराम के चार अभंग ये लोग भक्तिपूर्वक गाते हैं तो उतनी अकल गांव में बची है ; वरना कब स्कूलें निकलती और कब इनको ज्ञान मिलता ? लेकिन भजन करने की आदत देहातों को रही तो चार अच्छे शब्द इनको कंठ हो गये हैं । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एकत्र हो कर प्रार्थना करते जाइये । जिनको पढ़ना आता है वे कुछ अच्छी किताब पढ़ कर सुनायें । जो गाना जानते हैं वे भजन सुनायें । आज मैंने जिस तरह आपको भजन करना और ताल पर ताली बजाना सिखाया वैसे आप छोटे बड़े एक साथ भजन कीजिये । पीठ सीधी रख कर बैठना चाहिये । और थोड़ी देर मौन रह कर ईश्वर का ध्यान करना चाहिये । ऐसा आप करेंगे तो स्कूलों से बढ़ कर शिक्षण आप को इस प्रार्थना में से मिलेगा । स्कूल तो देहात में होने

ही चाहिये और आगे चल कर होंगे भी । लेकिन भक्तिपूर्वक की गई प्रार्थना से जो संस्कार और तालीम आपको मिलेगी वह तालीम स्कूल की तालीम से बढ़ कर होगी ।

सखी-कृष्णपुर

१०-३-५१

खास स्त्रियों के लिए—

: ७ :

स्त्रियों की जिम्मेवारी

स्त्रियों को भी भजन करना चाहिये

अपने लोगों में आम तौर से केवल पुरुष लोग ही भजन करते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या स्त्रियों के लिये कोई भगवान ही नहीं है ? गांव की स्त्रियों को एक जगह जमा होकर प्रेम के साथ थोड़ी देर तो भजन करना चाहिये। गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिये हैं। एक स्त्री और दूसरा पुरुष। जैसे पुरुषों को धर्म होता है वैसे स्त्रियों को भी होता है। पुरुष को आत्मा होती है वैसे स्त्रियों को भी होती है। भगवान के सामने स्त्री और पुरुष समान हैं।

धर्म की रक्षा स्त्रियों ने ही की है

आप देखेंगी कि हिंदुस्तान में स्त्रियों ने ही धर्म की रक्षा अधिक की है। पुरुषों में जितने व्यक्ति व्यसनी मिलते हैं उससे बहुत कम स्त्रियों में मिलेंगे। स्त्रियों ने दुनिया में सदाचार जिंदा रखा है। इसीलिये उनके बालकों की जिम्मेवारी होती है। बच्चों में अच्छी आदतें डालना और उनको साफ-सुथरा रखना स्त्रियों के हाथ में है। आप अपने बच्चों को सच्चरित्र बनायेंगी तो देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। बच्चे तो आप की बड़ी इस्टेट हैं। इनसे बढ़ कर कौन

सा धन है ? कौसल्या की कोख में से भगवान रामचंद्रजी निकले और देवकी का कोख से भगवान श्रीकृष्ण । जितने भी सत्पुरुष हुए हैं उनकी मातायें धर्मपरायण थीं । जिस घर की स्त्रियां भगवान का स्मरण करती हैं, सत्य का पालन करती हैं, प्रेमभाव से रहती हैं उस घर में अच्छे पुरुष पैदा होते हैं यह बात दुनियाभर में प्रसिद्ध है । जिसलिये आपके हाथ में बड़ी शक्ति है यह बात ध्यान में रखिये ।

पुरुष को सन्मार्ग पर लाना भी स्त्रियों का काम है

पुरुष झगड़ा करते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उनकी स्त्रियां चुपचाप सहन कर लेती हैं । उनका काम है कि वे अपने पतिसे इन आदतों को छोड़ देने को कहें । और अगर उनका कहना पुरुष न माने तो कहना चाहिये कि जब तक ऐसी आदत आप नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगी । यह सारा काम स्त्रियों का है ।

आप सब बहने प्रेम से यहां आयीं मुझे बहुत अच्छा लगा । आप अपने पुरुषों को अच्छे रास्तेपर रखिये, बच्चों को सदाचारी बनाइये और एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार कीजिये । यह सब आप करेंगी तो आपके गांव में स्वर्ग उतरेगा । *

सखी—कृष्णापुर

१०-३-५१

* प्रार्थना के बाद गांव की बहुत-सी स्त्रियां विनोबाजी का प्रवचन सुनने को आईं । उनके लिए उन्होंने जो चार शब्द कहे थे, उसका साराश यहा दिया गया है ।

श्रम और प्रेम से स्वराज्य का उदय

भगवान की देन

हम जो देहात के लोग हैं उनके पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ और चीज है या नहीं ? क्या भगवान ने हम को बिल्कुल खाली ही रख छोड़ा है ? पटाके में बारूद भरी होती है इसलिये उसको बत्ती लगाते ही धमाका होता है । लेकिन बारूद न होती तो कैसे आवाज आ सकती थी ? तो देहात के लोगों में भगवान ने कुछ मसाला भरा है या नहीं ? मेरा कहना है कि भगवान ने हमें दो अहम चीजें दी हैं : काम करने के लिये दो हाथ, और हृदय में प्रेम ।

हिम्मत रखनी चाहिए

अपने हाथ की ताकत से हम गंदगी साफ कर सकते हैं । आप देखते हैं कि घर घर में देवियां हैं इसलिये घरों के आंगन साफ रहते हैं । तो भगवान ने दो हाथों से काम करने की शक्ति हमें दी । और दूसरी चीज दी है प्रेम । तो देहात के लोगों के पास कुछ नहीं है, वे दीन हैं, दरिद्र हैं, दुबले हैं, लाचार हैं ऐसी अमत्र वार्णा मुह से मत निकालो । बल्कि यूँ कहो कि हम भगवान के बड़े लाडले हैं । उसने हमें प्रेम दिया और काम करने के लिये हाथ दिये । कोई भी बाप अपने लड़के को कुछ न कुछ दिये बिना नहीं रहता । परमेश्वर हमारा पिता है, उसकी हम पर प्रीति है और उसने हमें बहुत बड़ी देन दी है । हम श्रीमान् हैं । दुनिया के सामने भाँग माँगने की हमें क्या जरूरत है । इस तरह हिम्मत रखनी चाहिये ।

बिना श्रम के खाना पाप समझे

वैसे देहात के लोग काम तो करते हैं । वे खेती करते हैं । लेकिन प्रेम और अभिमान के साथ नहीं करते । लाचारी से करते हैं । लगना यूँ चाहिये कि बिना श्रम किये खाना पाप है इसलिये मैं श्रम करके ही जीऊंगा । अब देखिये आप सब लोगों के बदन पर कपड़ा है । लेकिन यह सारा आप खरीद कर लाते है । कपास आप के खेत मे पैदा होती है वह आप बेच डालेंगे और बिनाले मोल लेते है, कपड़ा मोल लेते हैं । तिलहन आप के खेत में होती है, उसको आप बेचेंगे और खल्ली और तेल मोल लेंगे । यह क्या चल रहा है ! अगर देहात इस तरह आलसी बने तो वे कभी सुखी नहीं बन सकते । हमें भगवान ने पैसा नहीं दिया है लेकिन हाथों की ताकत दी है उसका उपयोग करना चाहिये ।

आपसी अनबन

दूसरी बात प्रेम की । देहात छोटे से छोटा भी क्यों न हो लेकिन वहाँ पर तीन गुट, चार पार्टियाँ, और पांच पक्ष होते हैं । इसका उसके साथ बनता नहीं और उसका इसके साथ बनता नहीं । मैं एक देहात मे गया था । रात के करीब नौ बजे मैंने आग लगी हुई देखी । मैंने पूछा “यह आग कैसे लगी ?” तो लोगों ने कहा, “लगी नहीं, बल्कि लगाई गई है ।” उस गाँव में धनिये का बड़ा व्यापार चलता था । दो आदमियों का झगडा था तो एक ने दूसरे के धनिये का आग लगा दी । मुझे यह भी कहा गया कि यह बात आज की नहीं, बल्कि हमेशा चलती है ।

स्वराज्य का उदय काम से ही होगा

इस तरह हम न हाथो से काम करते हैं और न एक दूसरे से प्रेम करते हैं । तो फिर स्वराज्य की गरमी कैसे महसूस

होगी। आप किसी भी देहात में चले जाइये। आप को पाँच पचास आदमी बेकार बैठे हुए दिखाई देंगे। अगर आपको सभा करनी है तो किसी भी समय पचास लोग सभा के लिये आप को मिल ही जायेंगे। स्वराज्य आया कहते हैं। लेकिन वह है कहां? कपड़ा बाहर से खरीदते हैं, तेल, खल्ली, गुड बाहर से खरीदते हैं। इतना ही नहीं रस्सियाँ भी आप बाहर में मोठ लेते हैं। तो फिर स्वराज्य काहेका? एक आदमी को प्यास लगी थी। अब पानी कहां से मिलेगा? उससे कहा गया कि पानी चालीस मील की दूरी पर पैनगंगा नदी में है। वह दुखी हुआ। एक दूसरा आदमी था जो पैनगंगा नदी से एक मील के फासले पर था। वह भी प्यासा था। चालीस मील दूर रहने वाले आदमी ने उससे कहा “अरे तू क्यों दुखी होता है। पानी तो तेरे नजदीक पड़ा है।” उसने जवाब दिया, “अरे भाई नजदीक हुआ तो क्या हुआ। पानी गठे में उतरेगा तभी न प्यास बुझेगी।” इसी तरह स्वराज्य लंदन से दिल्ली आ गया, और दिल्ली से नागपुर या यवतमाल भी आ गया। लेकिन वह तुम्हारे क्या काम का। सूर्य जब तक आप के गाँव में नहीं ऊगेगा, तब तक आप मूर्खोदय हुआ ऐसा माननेको तैयार नहीं होंगे। स्वराज्य हमारे हाथ में है। हम और आप काम करने लग जायेंगे तभी स्वराज्य का उदय होगा।

रंझा, जि० यवतमाल

ता० ११-३-५१

पाँचवाँ दिन—

: ९ :

स्वराज्य-लक्ष्मी का आवाहन

स्वराज्य-सूर्य की गरमी महसूस नहीं होती

हमारे देश को स्वराज्य मिले अब तीन साल हो चुके; लेकिन स्वराज्य का असली दर्शन इस देश में अब तक नहीं हो रहा है। सब जगह स्वराज्य का उदय सूर्योदय के समान माना जाता है। सूर्योदय के बाद अंधकार नहीं रहता। स्वराज्य आने पर भी सारी जनता उत्साह से काम करने लगती है, जिम्मेवार बनती है, परस्पर सहयोग बढ़ता है, और हमारे देश की लक्ष्मी कैसे बढ़ेगी, हमारे देश का सौभाग्य कैसे प्रकट होगा इसकी चिंता सब लोग करते हैं। वैसा अनुभव इस देश में अब तक नहीं आ रहा है, यह बड़े दुःख की बात है !

देश का उत्पादन कैसे बढ़ेगा

आज कल जो भी उठता है, कहता है कि देश की पैदावार बढ़नी चाहिये, उद्योग बढ़ने चाहिये। लेकिन पैदावार और उद्योग सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ते। खेती करनी पड़ती है और उद्योग भी करने पड़ते हैं। आज आपके गाँव में कताई मंडल की स्थापना की गई है। मैं वहाँ गया था। दो-चार लोग कात रहे थे। इस शहर

की आबादी करीब दस हजार की है। इन सब को कपड़ा लगता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब कपड़ा पहनते हैं; लेकिन सारा कपड़ा ये लोग मिल का ही खरीदते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन मिलों में इतनी पूँजी और इतनी अकल खर्च हो रही है, वे हिंदुस्तान को कितना कम कपड़ा देती हैं। इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। पिछली लड़ाई के पहले हिंदुस्तान की मिलों में फी आदमी १७ गज कपड़ा तैयार होता था, अब लड़ाई के बाद याने दस साल बीत जाने पर फी आदमी १२ गज कपड़ा तैयार होता है। और इस साल कहा गया है कि हड़ताल आदि कारणों से कपड़ा और भी कम मिलेगा, करीब ११ गज। १७ से १२ और १२ से ११। यह है मिलों का बारह साल का पराक्रम !

लोग दलील करते हैं, अब स्वराज्य आगया है तो मिलों को पूरा कपड़ा देना ही चाहिये। मैं बहस में नहीं उतरता। मैं पूछता हूँ क्या आज मिलें पूरा कपड़ा दे सकती हैं ? मामूली धोती जोड़ा भी काले बाजार में आज (१५) २०) रुपये में मिलता है। काला बाजार क्यों होता है ? कपड़ा थोड़ा है। श्रीमान लोग चाहे जितना दाम देने को तैयार होते हैं। इस लिये कपड़े की कीमत बढ़ती है और गरीब लोगों को पूरा कपड़ा नहीं मिलता।

इस हालत में लोग अगर खुद कातने लग जाँय और रोज का एक घंटा भी दे तो साल भर में फी आदमी १५ गज कपड़ा तैयार होगा। मैं कहता हूँ आधा घंटा भी वे दें तो साढ़े सात गज

कपड़ा तैयार होगा। मिलों में बारह गज होता है उसमें यह साढ़े सात गज और बढ़ेगा तो देश को अधिक कपड़ा मिलेगा या नहीं ? लेकिन यह सब बिना किये कैसे होगा ! मैं विवाद में नहीं पड़ता। मिलों के जरिये अगर कपड़े का सवाल हल हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप घर में सूत कातेगे तो देश की संपत्ति में वृद्धि होगी या नहीं ?

आज की जरूरत

आपके एक गाँव ने अपना कपड़ा तैयार करने का संकल्प अगर किया तो बहुत बड़ा काम होगा। जो बात कपड़े पर लागू है वही दूसरी चीजों पर भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ कताई मंडल कायम किया है वे हारेंगे नहीं। खुद कातते रहेंगे, अपने मित्रों को सिखायेंगे, और इस तरह अपना मंडल बढ़ाते जायेंगे।

लोग कहते हैं, इस ज़माने में अगर हम चरखे पर सूत कातेंगे तो पुराने ज़माने में चले जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ 'पुराना ज़माना और नया ज़माना' इस बहस में क्यों पड़ते हो ? आज आपको कपड़ा चाहिये। मिले कपड़ा देती है, वैसे चरखा भी देता है। फिर चरखे पर सूत कातकर कपड़ा बना लेने में क्या हर्ज है ? मैंने सुना है पांढरकवड़े की आबादी पहले नौ हजार थी अब आठ हजार हो गई है। यह एक हजार संख्या कैसे कम हो गई ? तो कहा गया कि यहाँ मजदूरी नहीं मिलती इसलिये

मजदूर गाँव छोड़कर शहर में चले गये हैं । लेकिन वहाँ भी उनको क्या उद्योग मिलने वाला है ? देश में जब तक उद्योग नहीं बढ़ते हैं तब तक लोगों को मजदूरी कैसे मिलेगी ? स्वराज्य मिलने पर भी हम अगर आलसी रहे तो हमारा स्वराज्य भी सुस्त ही रहेगा । हम उद्योगी बनेंगे तभी स्वराज्य में लक्ष्मी रहेगी । लक्ष्मी का ऐसा बाना है कि वह उद्योगी पुरुष के घर में ही रहेगी । स्वराज्य आया है इसका अर्थ इतना ही है कि हमारी रुकावटें दूर हो गयी हैं, और काम करने की उमंग बढ़ी है । लेकिन एक बात साफ है कि देश का हरेक मनुष्य जब तक उत्पादन में हाथ नहीं बटायेगा तब तक हमारे देश को सुख के दिन नसीब नहीं होंगे ।

पादरकवडा, (जि० यवतमाळ)

१२-३-५१

छठा दिन—

: १० :

नाम जैसा ही काम

पैदल यात्रा क्यों ?

अभी सर्वोदय संमेलन हैद्राबाद के नजदीक शिवरामपल्ली में होने जा रहा है। अगर इन दिनों रेलवे से जाते हैं तो वर्धा से हैद्राबाद एक रात का रास्ता है। लेकिन हमने तो सोची पैदल-यात्रा। और उसमें भी कोशिश यह करते हैं कि बने जहा तक छोटे छोटे गावों में पहुंचें। अब लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप रेलवे या विमान आदि नहीं चाहते हैं ? मैं कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। उल्टे मैं तो आज से भी अधिक गति वाले विमान चाहता हूँ। अगर घंटे भर में हम दिल्ली जा सकें तो जरूर जायेंगे। लेकिन हर चीज का अपना स्थान होता है। ऐनक की चाहे जितनी भी महिमा गाई जाय तब भी आंख की महिमा से वह नहीं बढ़ सकती। ऐनक आंख की मददगार है। लेकिन आंख की स्वयंभू महिमा है। वैसे हम विमान और दूसरे भी गतिमान साधन चाहते हैं। हमें उनसे नफरत नहीं है। फिर भी पांव की जो प्रतिष्ठा है सो है। पैदल-यात्रा के जो लाभ हैं वे विमान से हरगिज नहीं मिल सकते।

भारतवर्ष एक कैसे बना

हमारे पूर्वजों ने यात्राओं की महिमा बहुत गायी है। काशी-वाले को कहा कि तुमको रामेश्वर के दर्शन करने चाहिये। वैसे

तो काशी में भी गंगाजी है, विश्वनाथजी है। लेकिन उनके बब्रजुद काशीवाले की इच्छा होती है कि जिदगी-भरमें कभी रामेश्वर हो आऊँ तो अच्छा है, और गंगाजी का पानी रामेश्वर के मस्तक पर चढाऊँगा तो धन्य होऊँगा। तो इधर रामेश्वरवाले को क्या लगता है ? उसको शास्त्रकारों ने सिखाया कि समुद्र का पानी उठा लो और काशी ले जा कर विश्वनाथजी के मस्तक पर चढाओ। इस तरह काशीवाले को रामेश्वर की प्रेरणा और रामेश्वरवाले को काशी की प्रेरणा। दोनो के बीच पन्द्रह सौ मील का अंतर। रेलवे तो उन दिनों थी नहीं। तो पैदल-यात्रा की ऐसी प्रेरणा हमारे पूर्वजों ने दी थी, और हजारों लोग जिदगी-भरमे प्रायः पैदल जाने की हवस रखते थे। उससे लोगों के दिल एक-दूसरे से एकरूप हो जाते थे। यह एक ऐसा तरीका उन्होने निकाला कि सारा भारतवर्ष एक बन गया।

पैदल-यात्रा में पारमार्थिक बुद्धि

आज हम देखते हैं कि इतने साधन बढ़ जाने पर भी देश में जातीयता बढ़ रही है, प्रांतों प्रांतों में वाद बढ़ रहा है। यह सब किस लिये हो रहा है ? इसीलिए हो रहा है कि लोग ज्यादा स्वार्थी बने हैं। वे दूर दूर जाते हैं तो मतलब के लिये जाते हैं। कोई बंबई जाता है तो कोई कलकत्ता जाता है। रोज गाड़ी भर भर कर जाती है। लेकिन टिकट घर पर जा कर देखो क्या तमाशा दीखता है। किसी को किसी की दरकार नहीं होती। हरेक अपनी अपनी टिकट कटाने की धुन में होता है। एक दूसरे की पूछ परख करने को फुरसत नहीं

और एक दूसरे की परवाह भी नहीं। रेल की मुसाफिरी तो बहुत बढी है लेकिन उसके पीछे स्वार्थ है। अब पैदल अगर कोई मुसाफिरी के लिये निकलेगा तो क्या स्वार्थ ले कर जायगा। यहां तो काफी मुसाफिरी का सामना करना पड़ता है। और दिन भी बहुत जायेंगे। अगर पारमार्थिक बुद्धि है तो ही यह काम किया जायगा। और पारमार्थिक बुद्धि से होनेवाले लाभ स्वार्थी बुद्धि से कभी नहीं मिल सकते। कोई अगर विमान में बैठ कर काशी या रामेश्वर पहुंच जाय तो यात्रा का जो फल है, उससे चित्त-शुद्धि की, देशनिरीक्षण की और जनता से एकरूप होने की अपेक्षा कभी नहीं पूरी हो सकेगी। इसलिए हमने सोचा कि हम अपने देशवासियों से मिलते-जुलते, उनसे बातचीत करते करते सर्वोदय संमेलन के लिये जायेंगे।

नाम अच्छे हैं लेकिन काम अच्छे चाहिये

आप पूछेंगे भला यह सर्वोदय क्या चीज है? अच्छे अच्छे नाम तो आज कल बहुत चल पड़े हैं। कोई अपने को समाजवादी कहते हैं। वे कहते हैं कि सारा समाज एक है और हम सारे समाज के सेवक हो जायेंगे। अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखेंगे। निजी स्वार्थ जैसी कोई चीज नहीं। सारा समाज को समर्पण। इसका नाम है समाजवाद। कोई कहते हैं कि हम साम्यवादी हैं। सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिये। न कोई ऊंच और न कोई नीच होना चाहिये। जाति का या अन्य कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिये। सारा साम्य होना चाहिये यह हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छा उद्देश्य

है। साम्यवाद शब्द भी अच्छा है, समाजवाद शब्द भी अच्छा है। अब यह नया शब्द निकला "सर्वोदय"। यह भी अच्छा है। अच्छे शब्द तो बहुत निकले हैं लेकिन हमें काम अच्छे करने चाहिये तभी ये शब्द काम देंगे। नहीं तो वे हवा में रह जायेंगे। हमें तो इनको जमीन पर लाना है। सर्वोदय का मतलब है 'हरेक का भला।' याने एक का स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ के विरोध में, या दूसरे की परवाह किये बगैर अपना स्वार्थ साधना यह बात नहीं होनी चाहिये। हम सब एक हैं और हम सब का उदय। यह है सर्वोदय का अर्थ। तो सर्वोदय में सब से जो पिछड़े हुए होते हैं उनकी फिक्र करना पड़ता है। इसीलिये हमने सोचा है कि हम छोटे-छोटे गाँव में पहुँचें और हो सके तो वहाँ मुकाम करे।

भारत की सभ्यता देहातो में ही

आखिर यह हिंदुस्तान है कहाँ ? हिंदुस्तान का प्रेम, भारत-माता का अभिमान, देशभक्ति आदि बातें हम सुनते हैं। लेकिन देशभक्ति याने क्या देश की जो मिट्टी होती है उसकी भक्ति ? वह तो जो हमारे देश में है वैसे दूसरे देशों में भी पड़ी है। भारतमाता की भक्ति का यही मतलब है कि अपने जो लाखों भाई देहातो में पड़े हैं उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनपर प्रेम। इन छोटे देहातों के इतिहास कौन लिखेगा ? बड़े शहरों के तो इतिहास लिखे जा चुके हैं। रोम एक बड़ी भारी नगरी हो गई। उसका इतिहास सुनो। लेकिन छोटे गाँवों का इतिहास जब कोई लिखने बैठेगा तब उसको पता चलेगा कि ये गाँव दीखने में तो छोटे छोटे हैं लेकिन अति प्राचीन

काल से चले आ रहे हैं। ये देहात ही हिंदुस्तान की रंगें हैं, असलियत हैं, आत्मा है। हिंदुस्तान की जो संस्कृति और सभ्यता है वह देहातों में देखने को मिलती है। आज भी हमारी पुरानी सभ्यता जितनी हम देहात में पाते हैं उतनी बड़े शहरों में नहीं पाते। एक मिसाल देता हूँ। कल हमारी सभा एक शहर में हुई और आज की सभा देहात में हो रही है। कल की सभा में तो क्या शोर ही शोर मचा था। आज यहां भी छोटे बच्चे हैं लेकिन सारे शांति से सुन रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि प्राचीन काल से हमारी जो सभ्यता चली आ रही है उसका अंश देहातों में मौजूद है। देहातों में आप देखेंगे कि वहां के लोग बहुत दीन बन गये हैं, खाने को भी उनको पूरा नहीं मिलता। लेकिन साथ साथ यह भी देखेंगे कि किसी के घर पर अगर भूखा आदमी पहुंच जाय तो किसी-न-किसी तरह उसको खिला ही देते हैं। उसका आदर करते हैं। गरीब से गरीब के घर में भी अतिथि का सत्कार पहले से आज तक होता आया है। इसका अर्थ यही है कि भारत की संस्कृति और भारत की आत्मा देहात में है। देहातों के काम करने के औजार भी करीब करीब पुराने जमाने के ही हैं। पुराने जमाने का ऋषि अगर आज देहात में आ जाय तो देहातियों की पोषाक में वह जरूर फरक देखेगा, लेकिन उसके जमाने की भावना का अंश वह आज देहातों में जरूर देखेगा, इसमें संदेह नहीं है।

देहात की करुण हालत

लेकिन आज इन देहातों में किसी को कुछ आकर्षण ही नहीं है। न यहाँ कोई मजा है, न यहाँ कोई सिनेमा है और न और कोई समौ है। यहाँ कुछ है ही नहीं। शहर का आदमी यहाँ आता है तो कहता है यहाँ कुछ सुझता ही नहीं। देहातों में से भी बुद्धिमान लोग शहर में जा कर रहने लगे हैं। अगर कभी देहात में आते हैं तो उनकी जो कुछ इस्टेट यहाँ पड़ी होती है उसको देखने या यहाँ से कोई चीज उठा ले जाने के लिये आते हैं। लेकिन अपनी सारी अकल वह शहर को समर्पित कर देता है। अगर इस तरह देहात का वन, देहात की अकल शहर में चली जाय तो सारे देहात कंगाल हो जायेंगे और मिट जायेंगे। शहरों की आबादी बढ़ रही है। बीस साल पहले वर्षा शहर बीस हजार आबादी का था। अब कहते हैं कि चालीस हजार का हो गया है।

देहात का सर्वांगी विकास

इसलिये सर्वोदयवालों का काम है देहात की चिन्ता करना, उनकी देख-भाल करना। यह किस तरह होगा? देहातियों के जो उद्योग हैं वे उनके हाथ में रखने चाहिये। देहात के कुछ उद्योग ऐसे हैं जो उनके हक के हैं। वे अगर उनसे कोई छीन लेगा तो उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिये और कहना चाहिये कि ये हमारे उद्योग हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। जिन उद्योगों का कच्चा माल देहात में होता है उनका पक्का माल करने का उद्योग देहात में ही होना चाहिये। सिर्फ किसानों से याने

खेती से किसानों का कारोबार नहीं चलेगा । खेती के साथ गोसेवा का काम, कपड़ा बनाने का काम, काल्हू चलाने का काम, गुड़ बनाने का काम, मकान बनाने का काम, यह सारा देहात में बनना चाहिये । ऐसा होगा तभी देहात ताजा-तवाना होंगे और दुनिया के सामने हिंदुस्तान हिम्मत के साथ खड़ा रहेगा ।

देशकी की रक्षा देहाती ही कर सकेंगे

देहात अगर क्षीण होते गये तो अपने देश की रक्षा सिर्फ शहरवालों के भरोसे नहीं हो सकेगी । देश के लिये मर मिटने का प्रश्न आयेगा तब देहात के लोग ही मरने के लिये तैयार होंगे । क्योंकि अपने वतन का खेती का अभिमान और उसकी रक्षा करने की तीव्र वासना देहात को ही हो सकती है । क्योंकि देहातवाले जमीन से चिपके हुए हैं । हिंदुस्तान जैसा देश अपनी रक्षा के लिये अगर सिर्फ शहरवालों पर निर्भर रहा तो खतरे में रहेगा । इसकी रक्षा तो देहातियों से ही होगी । इसलिये सर्वोदय वालों ने यह संकल्प किया है कि हम देहातियों की सेवा करेंगे । और यही आप को कहने के लिये मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ । भाइयो, सर्वोदय का विचार देहातियों की दृष्टि से थोड़े मे मने आपके सामने रख दिया है ।

पाटणबोरी, (जि० यवतमाळ)

१३-३-५१

सातवाँ दिन—

: ११ :

आत्म-जाग्रति से ही दुख मिटेगा

हरिनामसकीर्तन का कार्यक्रम

आप लोग शायद जानते हैं कि हम लोग पैदल निकल पड़े हैं और हैद्राबाद में सर्वोदय सम्मेलन के लिये जा रहे हैं। जब मैंने पैदल चलने का सोचा तो एक भाई ने पूछा, “एक दिन के काम के लिये आप एक महीना लगा रहे हैं तो इस बीच आपका क्या कार्यक्रम रहेगा।” मैंने जवाब दिया, “मेरा कार्यक्रम तो यही रहेगा कि मैं हरिनाम लूँ और सब को लेना सिखाऊँ।” यह जवाब मैंने इसलिये दिया कि मैं अपने में सिवा राम-नाम लेने के और कोई ऐसी ताकत नहीं देखता हूँ कि जिससे आपका काम बन सके।

अनेक धर्म, अनेक उपासनायें

आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। यह आश्चर्य की बात भी नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है। फिर हमारी आजादी को भी अभी कितने साल हुए हैं? जिम्मेवारी एकाएक आ पड़ी इसलिये हमारे देश की नौका गहरे पानी में आ पड़ी। इन सबका हल एक राम-नाम के सिवा और किसी मानवी प्रयत्न में है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।

आखिर हरिनाम का क्या मतलब है ? जो हरिनाम लेगा वह और कोई नाम नहीं ले सकता । हमारे संतों ने हमें सिखाया है कि भाई, परमेश्वर की उपासना और वैसे की उपासना दोनों बाते साथ नहीं चल सकतीं । यदि आप अपने मन में परमेश्वर को स्थान देते हैं तो फिर दूसरी किसी चीज को आपके मन में स्थान नहीं हो सकता । हमारे यहां कई प्रकार के भेद पड़े हैं । इन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा है । अगर ये मिटते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है, और देश एक हो जाता है । हमारे देश में धर्म अनेक है यह बात दुख की नहीं है बल्कि सौभाग्य की है । जहां अनेक धर्मों की सम्मिलित उपासना होती है वहां धर्मों की यह विविधता देश के विकास में मददगार ही होती है । हिंदुस्तान के विकास में यहां के विविध धर्मों ने काफी मदद पहुंचाई है । भिन्न भिन्न धर्मों के जरिये एक परमेश्वर का नाम हम लें तो हजारों भेद मिट सकते हैं ।

हरिनाम में भेद मिटाने की शक्ति

एक दूसरे की भाषाओं का हमें अध्ययन करना चाहिये । हमारे विविध साहित्यों में अनेक खूबियां भरी हैं । लेकिन यहां तो एक दूसरे की भाषा का भी द्वेष शुरू हुआ है । कोई भी साहित्य द्वेष पर नहीं टिक सकता । इसी तरह प्रांत-भेद, प्रदेश-भेद, पक्ष-भेद भी हम में है । हिंदुस्तान में दुख तो सब तरफ पड़ा है । हमें जरूरत है सिर्फ सेवा में लग जाने की । पक्ष भेद आदि से सुरक्षित रहने की तरकीब अगर कोई है तो वह भगवान का नाम ही है । मैं लोगों को यह सुनाऊंगा कि हम सारे भगवान के पैदा किये हैं । वे

परमपिता हैं और हम सब उनके पुत्र हैं। हम अगर आपस में लड़ेंगे तो उनको बहुत दुख होगा। “अमृतस्य पुत्राः” सब के सब अमृत के पुत्र हैं। देह को क्या देखते हो ? आग्वि सब को खाक में ही मिलना है। फिर कौन सी खाक ब्राह्मण की है, कौनसी हरिजन की है या और किसी की है, यह पहचानना भी नहीं जायगा। आत्मा एक है, उसीका ध्यान रखो। हम देह में इसीलिये आये हैं कि अपने पड़ोसियों की, दीनों की और सबकी सेवा हम करें और परस्पर प्रेम करें। इसी में मानवदेह की सार्थकता है। और यही हरिनाम का अर्थ है।

और जो हरिनाम लेनेवाला है उनको सेवा में लग जाना है। पानी निकलता है समुद्र की ओर जाने के लिये; लेकिन रास्ते में जो कुछ सेवा वह कर सकता है करते हुए जाता है। समुद्र तक पहुँचने में अगर वह कामयाब रहा तो वहाँ तक पहुँच जाता है ! अगर न पहुँच सका तो रास्ते में ही खतम हो जाता है। वैसे हमारी कोशिश यही होनी चाहिये कि हमारी जो भी ताकत है उससे हम दीन-दुखियों की सेवा करें।

दोनों हाथों का उपयोग करें

वैसे हिंदुस्तान में क्या काम है। जमीन पड़ी है, कितनी ही नदियाँ हैं, फिर भी हम भीख माँगते हैं। न खाने को अन्न है और न पहनने को कपड़ा। मेरी समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने हमें दो हाथ दिये हैं तो हमें हाथों से काम करने में क्या आपत्ति है ? मानव की ही यह विशेषता है कि उसको भगवान ने दो हाथ

दिये है, जिससे कि वह कर्मयोग साध सके। स्वर्ग में देवता सुख ही सुख भोगते हैं, तो पृथ्वी पर जानवर दुख ही दुख भोगता है। जहाँ केवल भोग ही भोगना है वहाँ योग कैसे सधेगा? मनुष्य योनि में कर्मयोग की साधना हो सकती है इसीलिये देव योनि और पशु योनि से मानव योनि श्रेष्ठ समझी गयी है। तो भगवान ने हमें दो हाथ दिये यह उसकी बहुत बड़ी देन है। उनका हम उपयोग करेंगे तभी हमारे दुख मिटेंगे।

स्वराज्य के मही माने क्या हैं ?

लोग कहते हैं स्वराज्य आ गया। क्या किसी पार्सल से आया है? स्वराज्य तो अपना निज का होता है। अपनी कमाई का होता है। स्वराज्य आया इसका अर्थ इतना ही है कि उजाला हो गया। अब काम करने में सहूलियत हो गई। लेकिन हम अगर काम ही न करें तो सिर्फ उजाले से क्या होनेवाला है? स्वराज्य नहीं या तब हम जिम्मेवारी अधिक महसूस करते थे। अब सभी कहने लगे हैं कि सब कुछ सरकार को ही करना चाहिये। मैं पूछता हूँ कि सरकार आप से भिन्न है क्या? आप जिसे चाहते हैं उनको बोट दे कर चुन लेते हैं। आप अगर मजबूत बनेंगे तो आपकी सरकार मजबूत बनेगी। और आप दुर्बल रहे तो आपकी सरकार भी दुर्बल ही रहेगी।

लोग कहते हैं कि अब तक हमने बहुत काम किया अब कुछ आराम करने दो। मैं कहता हूँ आराम कैसा? क्या पौर्णिमा आ गई है? अभी तो अमावस्या खतम हुई है और चांद धीरे धीरे

बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अब तक हमे काँग्रेसवालों से आशा थी अब आप सर्वोदयवालों पर आशा रखी है। यह कितना बड़ा भ्रम है। सर्वोदय समाज कोई अमृत की पुड़िया तो नहीं है जिसे खा लिया और सर्वोदय अपने आप हो गया। हमको ऐसा व्रत लेना होगा कि हमारे जीवन के लिये हम दूसरे की सेवा नहीं लेगे, बल्कि हो सकेगी उतनी दूसरे की सेवा करेंगे। ऐसा जो करते है वे सर्वोदय-समाज के सेवक बनेंगे। सर्वोदय-समाज सब का है। वह किसी प्रकार की शहादत नहीं मांगता। जो कहता है कि मुझे सर्वोदय समाज के उमूल मान्य हैं वह सर्वोदय समाज का सेवक है। कोई शराबी भी अगर सर्वोदय की बात मान कर शराब पीना कम कर देता है तो वह भी सर्वोदय-समाज का सेवक है।

आत्मा की पहचान ही सब दुख दूर करेगी।

किसी ने मुझे बताया कि ढाई साल पहले यहा रजाकारे का बहुत जुल्म था। अब वह चला गया है फिर भी हमें दुख है। ऐसा होता ही है। जब तक मनुष्य की निज की आत्मा जाग्रत नहीं होती तबतक एक दुख मिटता है तो दूसरा शुरू होता है, पेशवाओं के राज में लोग दुखी थे। उनके बाद अंग्रेजों का राज आया। उनका पहला गवर्नर माउंट एल्फिन्स्टन हुआ। उसकी व्यवस्था मे हमारे लोगों ने सुख समझा। लोगो ने देखा कि सारे काम इनके जमाने में समय पर चलते है, व्यवस्था अच्छी है। राज कानून से चलता है। यह सब देख कर लोग बड़े खुश हुये, लेकिन थोड़े ही दिनों में लोग दुखी हो उठे। डाक्टरी इलाज का

ऐसा ही है। एक बीमारी के लिये दवा देते हैं, वह बीमारी अच्छी हुई ऐसा लगता है इतने में दूसरी बीमारी शुरू होती है। हिंसा में ऐसा ही होता है। रजाकारों से हमको किसने छुड़ाया। पुलिस ने और हथियारों ने। उससे हम तो पराधीन ही रहे। जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं आया। इस तरह से जीवन सुखी नहीं होगा।

सर्वोदय के कार्यक्रम में रस क्यों नहीं ?

लोग कहते हैं कि सर्वोदय के कार्यक्रम में रस नहीं आता। तो अब मैं क्या प्रोग्राम बताऊं ? पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ने का प्रोग्राम दूं ? लड़ाई के नाम से लोगो में उत्साह आता है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि फौज पर देश का पचहत्तर फी सदी से अधिक खर्च होता है। तो फिर गरीबों की सेवा कैसे कर सकेंगे ? सारे मानव-सेवक बनें

भाइयो, मुझे इतना ही कहना है कि आप सब भेद भूल जाँय। आड़े गंध और खड़े गंध, भस्मी और बिना भस्मी, सर्वोदय वाले और बिना सर्वोदयवाले ये सब भेद मिटा कर आप एक भाव रखिये कि मैं मानव हूँ और मानव का सेवक हूँ।

आदिलाबाद (निजाम स्टेट)

१४-३-५१

आठवाँ दिन—

: १२ :

भगवान का ही काम और नाम

रास्ता छोड़ कर क्यों आया ?

मैं तो जा रहा था वर्धा से हैद्राबाद । लेकिन रास्ता छोड़ कर इधर आपके गाँव की तरफ आ गया । उसका कारण यह है कि इधर माडवी मे कस्त्रबा ग्रामसेवा केंद्र है । महात्मा गांधीजी की धर्मपत्नी कस्त्रबा का नाम तो आप सबने सुना ही है । उनके स्मरण मे जगह जगह संस्थायें खोली गई है जो ग्रामीण स्त्रियों की सेवा कर रही है । माडवी मे जो बहन काम कर रही है उसने इच्छा प्रकट की कि मैं उसका काम देखने के लिये वहाँ जाऊँ । इसलिये मैं वहाँ जा रहा हू ।

आपके कामों से प्रसन्नता

मुझे यहाँ इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप लोगो ने भगवान के भजन सुनाये । इतने छोटे से गाँव में हरि-चर्चा रोज चलती है यह बहुत अच्छी बात है । हरि-चर्चा हर गाँव मे चलनी चाहिये और रोज चलनी चाहिये ।

दोपहर को मैं आपके गाँव मे घूम आया । लोगों के घरों में भी हो आया । सौ साल की एक बूढ़ी स्त्री मिली । उसे बड़ी खुशी हुई ।

आपने एक बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ का कुआँ और हनुमानजी का मंदिर सबके लिये, हरिजनों के लिये भी, खोल दिया है। यह काम मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान के सामने भेद-भाव रखना गलत बात है। हरिजनों के साथ छूत-छात रखना और उन्हें मंदिरों में आने से रोक-टोक करना अच्छी बात नहीं है। इसलिये आपने जो काम किया है वह बहुत अच्छा है।

फिर आप लोगों ने पानी आदि का छिड़काव देकर यह प्रार्थना की जगह साफ कर ली यह भी बहुत अच्छा किया। इससे आप लोगो को शिक्षण भी मिला।

पशु बलिदान गलत चीज

मैंने सुना कि यहाँ आप लोगो के दो देव है। एक हनुमानजी हैं और दूसरी है पोचम्मा देवी। यह देवी कौन हैं ? उसे तो मुरगी चाहिये। बकरा भी चाहिये। क्या अपने बच्चों को खानेवाला भी कोई देव हो सकता है ? इसलिये आप एक ही देवता की पूजा करें। और सब देव झूठे हैं। उसके नाम पर बकरे और मुरगी काटना धर्म नहीं हो सकता।

बुनकर क्यों नहीं ?

मैंने और एक बात देखी। इस गाँव में बढई, लुहार, चमार कुम्हार तो हैं। लेकिन बुनकर नहीं है। मैं परेशान रह गया। कपड़ा तो आप सबको चाहिये। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सबको। इतने पुरुष यहाँ बैठे हैं सब कपड़ा पहने हैं। लेकिन सारा कपड़ा खरीदा

जाता है यह शर्म की बात है। गाँव का धन इस तरह बाहर भेजना ठीक नहीं है। मैंने यह भी सुना कि यहाँ स्त्रियाँ दोपहर में खेती पर नहीं जाती। सिर्फ सबेरे ही खेत पर जाती हैं। याने उनके पास वक्त रहता है। उन्हें कातना सिखाया जाय तो वे कातेगीं। भगवान ने मनुष्य को दो बड़ी भारी शक्तियाँ दी हैं। एक वाणी, दूसरी हाथ। वाणी से भगवान का नाम लेना चाहिये, हाथ से भगवान का काम करना चाहिये।

वैसा आप करेगे तो आप जो भजन करते है वह कृतार्थ होगा। भगवान आप सबको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी प्रार्थना है।

कुचलापुर अर्थात् कौलव्यापुर

१५-३-५१

नौ वां दिन—

: १३ :

लघु-आरंभ का दीर्घ-फल

ग्रामसेविका का प्रेमाग्रह

मैं आज यहां आदिलाबाद से आया हूँ। वर्षा से हैद्राबाद जा रहा हूँ। आप का गाँव रास्ते में तो नहीं था लेकिन आपके यहां की सेविका पार्वती का आग्रह रहा। उसने कहा, “हम यहां देहात में काम कर रहे हैं। आप अभी न आये तो फिर कब आयेगे कह नहीं सकते। इसलिये अभी ही चलिये।” मैंने सोचा हमारी लाडली लडकी आग्रह कर रही है तो हो आऊँ। इससे मुकाम पर पहुँचने में चार दिन देर हो जायगी।

यह काम एक बड़े वृक्ष का पौधा है

यहां की बालवाड़ी और आरोग्य केंद्र आज सुबह हम देख आये। यह केंद्र छोटा है लेकिन वह पौधा है। ज्ञानदेव कहते हैं, “इबलें से रोप लावियेलेँ द्वारी त्याचा बेल गेला गगनावरी” छोटा-सा पौधा लगाया था लेकिन उसकी बड़ी बेल बन कर सारे आकाश पर छा गई। वैसे ही छोटे पौधे की अगर आप लोग ठीक देखभाल करेंगे तो उसको आगे फूल और फल लगेंगे। बच्चा पैदा होता है तब छोटा होता है। लेकिन माँ जानती है कि वह

आगे चल कर बड़ा होनेवाला है और उसकी हिफाजत करती है, उसकी सेवा करती है। वैसे आप भी इस केंद्र की कीजिये।

कस्तूरबा की महत्ता

इस केंद्र का नाम है कस्तूरबा ग्रामसेविका केंद्र। कस्तूरबा गांधीजी की पत्नी थी यह तो आप जानते ही हैं। जैसे गांधीजी पढ़े लिखे थे वैसे कस्तूरबा नहीं थीं। लेकिन उनका भाग्य बढ़ा था। गांधीजी और कस्तूरबा ये नाम आज जैसे सार्वभौम हो गये हैं वैसे ही वसिष्ठ और अरुंधती के नाम थे। आज भी विवाह-विधि में वधू और वर को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा करते हैं और अरुंधती की तरफ इशारा करते हैं। उत्तर दिशा में वसिष्ठ का तारा है और पास ही चार अंगुलियों के फासले पर अरुंधती का छोटा-सा तारा है। इन दो तारकाओं के दर्शन करके उनको नमस्कार कराने की विधि आज भी विवाह में चलती है। कौन वसिष्ठ और कौन अरुंधती? लेकिन वसिष्ठ के साथ अरुंधती का नाम भी अमर हो गया है। देह के पास छाया होती है। लेकिन मनुष्य छाया की ओर ध्यान नहीं देता है। फिर भी छाया मनुष्य को छोड़ती नहीं है। अरुंधती का ऐसा ही था। उसका व्रत था कि पति के साथ रहना, सुख में या दुःख में। वह संकट में पड़ेगा तो उसके पीछे संकट में पड़ना, और वह स्वर्ग में जाय तो उसके पीछे स्वर्ग में जाना। कहीं न ठहरते हुए जाना इसी व्रत के कारण तो उसका नाम “अरुंधती” पड़ा। ऐसा ही दूसरा नाम सीता का है। हम “राजा राम” के साथ साथ “सीता राम” भी कहते हैं।

रामचंद्रजी वनवास के लिये निकले तो वह भी उनके पीछे निकली । रामचंद्रजी ने कहा, “पिताजी ने तुझे तो वनवास नहीं कहा है ।” सीता ने जवाब दिया, “आप सुखोपभोग के लिये कहीं निकलते तो शायद मैं न आती, लेकिन आप जंगल में जा रहे हैं इसलिये मैं आये बगैर नहीं रहूंगी ।”

इन उदाहरणों के जैसे ही गांधीजी और कस्तूरबा थी । जहां जहां गांधीजी गये वहां वे गयीं । और आखिर सरकार के साथ सत्याग्रह के युद्ध में लड़ते हुए गांधीजी के साथ जेल गयीं और वहीं गांधीजी की गोद में उन्होंने प्राण छोड़ दिये । कस्तूरबा के स्मरणार्थ यह काम शुरू हुआ है । तो आप लोग इस काम में सहयोग दें और इस केंद्र से लाभ उठाये ऐसी मेरी आप से प्रेमपूर्वक प्रार्थना है ।

माडवी, (जि. आदिलाबाद)

१६-३-५१

दसवां दिन—

: १४ :

सेवा ही तीर्थ-यात्रा है

गाँव की फिक्र गाँववाले ही करें

मैं आज आपका गाँव घूम आया। यहाँ काफी शक्ति है। दो-चार घरों में कातना चलता है। हर घर में क्यों नहीं चलना? आपके गाँव में कपास बहुत होती है। पहले हमारे यहाँ सब कातने थे और खेती भी करते थे। तब खेती ज्यादा थी और लोग कम थे। इसलिये खेती में ज्यादा समय जाता था। आज खेती कम है और लोग ज्यादा हैं। फिर कातने के लिये समय क्यों नहीं मिलेगा? मैं आप लोगों को दोष नहीं देना चाहता। यह स्थिति हर गाँव में है। इसे बदलने के लिये हर गाँव में कार्यकर्ता चाहिये। अब कार्यकर्ता हर गाँव में बाहर से कैसे आयेंगे? इसलिये गाँव में से ही कार्यकर्ता नामान होने चाहिये।

हम लोगों को एक आदत पड़ गई है कि हम अपने परिवार के बाहर नजर नहीं देते। घर का कचरा पडौसी के दरवाजे पर डालते हैं। घर के बरतन साफ रखेंगे लेकिन गाँव का कुआ साफ नहीं रखेंगे। सोचते हैं कि वह तो सब का है मैं क्यों फिक्र करूँ? लेकिन चेचक एक को भी हो जाय तो सारे गाँव में फैलती है। इसलिये सारा गाँव मेरा और सारे गाँव वाले मेरे इस तरह सोचेंगे तो

गांव वैकुण्ठ बन जायगा। लेकिन आज तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि हर गांव में कम-से-कम एक कार्यकर्ता निर्माण होना चाहिये। हिंदुस्तान में यह खूबी है कि जिस गांव में कोई अच्छा आदमी होना है उसके पीछे लोग चलते हैं। मांडवी में अभी मैं गया था। वहा एक अच्छे भाई है तो लोग उनके पीछे जा रहे हैं। आप से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने गांव के बारे में आज से ही सोचना शुरू करें। जिस गांव में लोग सारे गांव का नहीं बल्कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं वह गांव नहीं बल्कि स्मशान है।

दुखियों की सेवा कीजिये

लोगों को एक ही स्थिति में समाधान नहीं होता। मन की शांति के लिये वे तीर्थ-यात्रा करते हैं। लेकिन हम अगर एक दूसरे की सेवा करेंगे और चिंता करेंगे तो तीर्थ-यात्रा की जरूरत नहीं रहेगी। खाने का आनंद तो पशु को भी होता है। लेकिन खिलाने का संतोष मनुष्य को ही होता है। आपके गाँव में एक भी दुखी आदमी नहीं रहना चाहिये। दुखी आदमी किस जाति का है यह भी नहीं देखना चाहिये। दुखी लोगों की अलग जाति नहीं होती। वह दुखी है यही उसकी जाति है। वैसे ही पुण्यवान लोगों की भी जाति नहीं होती। आप ने सुना है कि साधु संत सब जातियों में हो गये। हम महात्माओं की जाति नहीं देखते। सब महात्मा महात्मा हैं। वैसे सब पापी पापी ही हैं। मरने के बाद परमात्मा यह नहीं पूछेगा कि तुम ब्राह्मण हो या

रेड़ी। वह यही पूछेगा कि तुमने पाप किया है या पुण्य। यह जो ढबू पैसा आप कमा रहे है वह साथ नहीं जानेवाला है। इसलिये जिसके पास जो भी धन है वह लोगो की सेवा में लगा दे। तभी आप भगवान के सामने खड़े रह सकेंगे।

तलमगु (जि० आदिल)

ता० १७-३-५१

ग्यारहवाँ दिन —

: १५ :

ग्रामोद्योग न छोड़ें

पक्के रास्ते के खतरे

हम लोग वर्धा से हैद्राबाद पैदल जा रहे हैं। आप लोग भी यात्रा के लिये जाते हैं। यात्रा के लिये पैदल ही जाने का रिवाज है। हमारा रास्ता तो आदिलाबाद से इस गाँव से हो कर जाता है। लेकिन रास्ता छोड़ कर मैं माडवाँ हो आया। आदिलाबाद जिले में जंगल ज्यादा है। देहातों के रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छे रास्ते न होना बड़े दुःख की बात है। शहर वाले सोचते हैं कि रास्ते अच्छे बनाना ही पहली सुधार की बात है। हमारे गाँव वाले भी भोले होते हैं। कहते हैं कि हाँ रास्ते बनने चाहिये। लेकिन मैं सोचता हूँ कि देहातों में रास्ते बन जायेंगे तो उनका कल्याण होगा या अकल्याण ? रास्ता अच्छा बन जाता है तो सुभीता हो जाता है सही। लेकिन किन लोगों का सुभीता होता है ? सब से ज्यादा सुभीता शहरवालों को होता है। वे यहाँ आसानी से आ सकते हैं और देहातों को छूट सकते हैं। देहातों में रास्ते नहीं बनने चाहिये, यह मुझे नहीं कहना है। लेकिन रास्ते बनने पर क्या आपत्ति आती है यह मैं समझ रहा हूँ। आपके नजदीक के एक गाँव में मैं कल घूम आया था।

वहाँ मैंने देखा कि कई उद्योग चल रहे हैं। रंगारी का काम चल रहा था। वहाँ रास्ता अच्छा नहीं था इसलिये वह रंगारी का धंधा चल रहा है। लेकिन रास्ता पक्का बन जाने के बाद रंगारी का धंधा जिंदा नहीं रहेगा। कुछ देहातो में चरखे चलते हुए भी देखे। लेकिन मोटर-रोड हो जाने पर वे कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। कुछ घरों में हाथ की चक्की चलती हुई देखी। मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन रास्ता बनने के बाद कोई पूँजीवाला यहाँ आ कर मिल की चक्की शुरू कर देगा और सारे देहात वाले अपनी चक्कियाँ छोड़ कर उस मिल के गुलाम बनेंगे।

पीसने का व्यायाम

एक गाँव की बात है। वहाँ एक मुसलमान रहता था। उसकी बीबी बीमार हो गई। उस आदमी की मुझ पर श्रद्धा थी। उसने मुझे बुला लिया और क्या इलाज करना चाहिये इसके संबंध में मेरी सलाह माँगी। मैंने देखा कि उस बहन को सिवा बदहजमी के और कोई बीमारी नहीं है। मैंने पूछा कि घरमें आटा कौनसा आता है? जवाब मिला कि मिल का आता है। फिर मैंने सलाह दी कि आप एक चक्की घर में लगा दीजिये और बूड़ी फजर उठ कर थोड़ा पीसते जाइये। उस आटे की रोटी खाते जाइये। सारा रोग दूर हो जायगा और आज से दुगुनी भूख लगेगी। उसने वैसा ही किया। वह बहन धीरे धीरे चक्की पर पीसने लगी। पंद्रह-बीस दिनों के बाद मैं उस बहन को देखने गया और पूछा कि अब तबियत कैसी है? तो उसने जवाब दिया कि अच्छी है।

हाथ के आटे की रोटी जब से खाना शुरू किया तब से भूख बढ़ी । रोटी भी बहुत बढ़िया लगती है । पीसने का व्यायाम होता है तो तबियत भी अच्छी रहती है । लेकिन मोटर-रोड बनने पर मिल आते ही हम हाथ से पीसना बंद कर देते हैं । हम आलसी बनते हैं । कौन जल्दी उठेगा ? फिर मिल सस्ता भी तो पीस देती है । लाग अब छः बजे उठने लगे हैं ।

रास्ता होने पर भी उद्योग न छोड़ो

रास्ते आज नहीं कल होने ही वाले हैं । बिना रास्ते के यह जिला पिछड़ा हुआ माना जायगा । लेकिन रास्ते होने पर भी आप अपनी अकल कायम रखेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता । मैं आपको एक हिसाब बताता हूँ । आप सबके बदन पर कपड़ा है । यह सारा आप मोल लेते हैं । हर आदमी के पीछे राज की आधा सेर ज्वार हम पकड़ें और एक कुटुंब में पांच आदमी पकड़ें तो साल भर में पांच खंडी ज्वार लगेगी । साठ रुपये खंडी का भाव पकड़ें तो तीन सौ रुपये हो गये । अब कपड़े का हिसाब करें । एक कुटुंब के लिये आज के भावसे, ब्लैक मार्केट के कारण सौ रुपये का कपड़ा साल भर में लगता है । याने ज्वार के बाट कपड़े का ही खर्च अधिक होता है । अब यह सारा कपड़ा अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारी गृहस्त्री कैसे चलेगी और दारिद्र्य भी कैसे मिटेगा ?

आप जरा सोचें कि हमने पहले क्या किया था ! हिंदुस्तान की मिलों से योरप की मिलों का कपड़ा बहुत सस्ता बिकता था ।

यहां की मिलों का कपड़ा पड़ा रहने लगा। तब हमने विलायत के कपड़े का सस्ता होते हुये भी बहिष्कार किया। तो अब हम भी मिल का कपड़ा, सस्ता होने पर भी, नहीं लेंगे ऐसा व्रत क्यों नहीं लेते ? ऐसा व्रत अगर नहीं लेंगे तो फिर देहात में कौनसा उद्योग रहेगा ? सारे देहात के उद्योग अगर शहरवाले छीन लेंगे, और हम भी उद्योग बन कर फर्केगे कि बहुत अच्छा हुआ सस्ता मिलने लगा, आप शहरवाले सेवा ही कर रहे हैं, तो फिर अनाज भी बाहर से लेने लगेंगे क्या ? कुछ लोग तो आज कह भी रहे हैं कि अनाज पैदा करने की अपेक्षा तंबाकू पैदा करना अधिक फायदेमंद है। लेकिन तंबाकू से यद्यपि पैसा मिलेगा फिर भी अन्न कैसे मिलेगा ? खाने के लिये अन्न चाहिये इसलिये वह गाँव में ही पैदा करना चाहिये। उसी तरह पहनने के लिये कपड़ा चाहिये तो वह भी गाँव में ही तैयार करना चाहिये। घर में कपास होती है। उसको धुन कर पूनी बना लेनी चाहिये। घर में ही कातना चाहिये और बुनना भी घर में ही चाहिये। बुनना कोई कठिन काम नहीं है। ऐसा होगा तो किसान के घर में उद्योग दाखिल होगा और उसका घर सुखी होगा। फिर झगड़े भी नहीं होंगे।

आज जहाँ देखो वहाँ झगड़े ही झगड़े हैं। खाने को पूरा नहीं मिलता इसके कारण ये सब झगड़े हैं। हमें जो चीजें हर रोज लगती हैं वे अगर हम घर पर ही तैयार कर लेंगे तो हमें कोई खूटेगा नहीं और हम भी किसी को खूटेंगे नहीं। लेकिन इसके लिये पराक्रम करना पड़ेगा।

हाथ-चक्की के चार फायदे

मेरी आप से प्रार्थना है कि रास्ते होने पर भी आप अपने घर के उद्योग मत छोड़िये । आटा घर पर ही पीसिये । मिल हो जाने पर भी वहाँ नहीं पिसायेंगे ऐसी शपथ लीजिये । आप कहेंगे दो ही पैसे में पिस कर मिलता है । लेकिन रोज के दो पैसे याने महीने में एक रुपया और साल भर में बाराह रुपये हो जाते हैं । आप का गांव टाई सौ घरों का होगा तो साल भर में तीन हजार रुपये चले जायेंगे ।

दूसरी बात यह होगी कि रोज का आपका व्यायाम चला जायगा । आज अपने देहात के लोग कमजोर है । और पीसने की आदत छूट जायगी तो बाद में वह काम बहुत कठिन मालूम होगा ।

तीसरी बात यह कि मिल का आटा हम छः-छः दिनों तक खाते रहेंगे । ताजे आटे में और हाथ-चक्की पर पीसे हुए में जो ताकत है वह मिल के और बासे आटे में नहीं है ।

चौथी बात यह कि हम आलसी बनेंगे, देर से उठेंगे । आज जो भगवान का नाम लेते हैं वह भी नहीं लेंगे । मुझे याद है कि मेरी मा सुबह जल्दी उठ कर करीब घंटा भर पीसती थी । और पीसते हुए भगवान का नाम लेती थी । हमारे संतों ने चक्की पीसते हुए गाने के लिये भजन और अभंग बनाये हैं । मेरी मां तुकाराम का अभंग गा कर पीसती थी । “ पहिली माझी ओबी ओबीन जगत्र गाओन पवित्र पांडुरंग ”....(यह अभंग विनोबाजी ने पूरा गाकर सुनाया) ।

तो अगर चक्की बंद हुई तो ऐसे भजन भी बंद हो जायेंगे । इसलिये मुझे आप को सावधान करना है । आप की सेवा करने के बहाने बाहर से लोग आयेंगे और आप छूटे जायेंगे इसलिये आप अपने गाँव के धंधों को कभी भी मत छोड़िये यही मुझे कहना है ।

शुबी इतनूर, (जि० आदिलाबाद)

१८-३-५१

चारहवां दिन—

: १६ :

व्यापार सेवा के लिए

हिंदुस्तान के बाजार का बिगड़ा रूप

आप इतने लोग दूर दूर के गावों से यहा इकठे हुए हे यह देख कर मुझे खुशी होती है । मुझे इस गांव की कोई जानकारी नहीं थी । लेकिन जिन लोगोंने कार्यक्रम तय किया उन्होंने यहा का मुकाम रखा, और यह अच्छा ही हुआ । क्योकि आज यहां का बाजार था । दुनिया भर में बाजार कैसे चलता है वह तो दुनिया जाने ! लेकिन हिंदुस्तान मे जहाँ बाजार भरता है वहां झूठ ही झूठ का बाजार होता है । आज ही का किस्सा है । एक दूकान पर एक आदमी पुस्तक खरीदने गया । दूकानदार ने उसको वह पुस्तक चौदह आने में दी । फिर वह आदमी दूसरी दूकान पर पहुंचा । वहां उसको वही पुस्तक दिखाई दी तो उसने उसके दाम पूछे । दूकानदार ने छह आने बताये । तो फिर वह आदमी पहली दूकान पर वापिस आया और दूकानदार से पूछने लगा कि इस किताब के तुमने चौदह आने कैसे लिये जब कि यह दूसरी दूकान पर तो छह आने में मिलती है ? दूकानदार ने जवाब दिया, भाई, मैं तो व्यापारी हूं । मुझे जो दाम लेने थे मैंने लिये । तुमको अगर यह पुस्तक दूसरी दूकान पर छह आने में मिलती थी तो आप वहाँ से खरीदते ।

याने दूसरी दूकान पर नहीं खरीदा, यह आपका ही दोष है। दूकानदार का कोई दोष ही नहीं है। ऐसा सब हो रहा था। इतने में हममें से एक सार्थी वहाँ पर पहुँचा। उसने पूछा क्या बात है? उस आदमी ने कहा कि यह पुस्तक इस दूकानदार ने चौदह आने में दी जब कि दूसरी दूकान पर छह आने में मिलती है। हमारे भाई ने पुस्तक खोल कर दाम देखे और कहा, इस पुस्तक के दाम न चौदह आने हैं और न छह आने हैं बल्कि तीन आने हैं। वह कीमत उस पुस्तक पर छपी थी। उस तीन आने में दूकानदार का कमीशन आदि सब आ गया। इसलिये दूकानदार को उससे अधिक कीमत लेने का कोई हक नहीं था। फिर दूकानदार का और पुस्तक खरीदने वाले का झगड़ा शुरू हुआ। मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। हमारे बाजार कैसे होते हैं यह समझ लो “झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ चबेना।”

व्यापारियों का धर्म

होना तो यह चाहिये कि व्यापारी सेवा का भाव रखे। व्यापार एक धर्म है। हमें शास्त्रकारों ने बताया है कि वैश्यो को व्यापार के धर्म का आचरण करना चाहिये। धर्म का मतलब छूटना नहीं होता, बल्कि सेवा करना होता है। जो चीज एक जगह नहीं मिलती है उसको दूसरी जगह से लाकर लोगों को देना और उसमें अपनी जो मेहनत लगी हो उसको जोड़ कर ठीक भाव से बेचना। इसका अर्थ है व्यापार।

मालिक को जाग जाना चाहिये

वास्तव में किसान मालिक है और व्यापारी सेवक है। तो सेवक कभी स्वामी से बढ़कर नहीं होता। जब हिंदुस्तान में मालिक गरीब है तो सेवक भी गरीब ही होना चाहिये। लेकिन बात उल्टी हो गई है। मालिक गरीब बन गया है और सेवक श्रीमान बन गया है। और वह श्रीमान कैसे बना ? मालिक को छूट कर। आज अगर उन सेवको को कोई उनका धर्म सिखादे तो वे नहीं सीखेंगे। इसलिये अब मालिक को ही जाग जाना चाहिये। मालिक के जागने का मतलब यह है कि वह अपना आधार बाजार पर न रखे। मेरा तो विश्वास है कि अगर गाँववाले अपनी जरूरत की चीजें गाँव में बना लेंगे तो हर गाँव बादशाह बन सकता है। यह किसान क्या खरीदने के लिये आता है ? उसको भाजी चाहिये तो क्या वह अपने खेत में भाजी पैदा नहीं कर सकता ? आंगन में भी भाजी बन सकती है। कोई कपड़ा खरीदने आते हैं। गाँव में कपड़ा क्यों नहीं बन सकता है ? अगर कपड़ा नहीं बन सकता तो कल आप रोटी भी बाजार से ही खरीदने लगेंगे। अगर इस तरह बनी बनाई चीजे खरीदते रहोगे तो छूट में से आपको कौन बचायेगा ?

भगवान की व्यवस्था से सबक सीखो

हमें गांधीजी ने चरखा चलाने को कहा, और यही कहते कहते वह बूढ़ा मर गया। उनका वह संदेश अब भी सुनने लायक है। लोग कहते हैं अब तो स्वराज्य हो गया अब कातने की क्या जरूरत है ? सरकार का काम है कि वह कपड़ा हमें दे। मैं कहता

हूँ कि आप कल कहेंगे स्वराज्य आया है तो अब हम हल नहीं चलायेंगे, सरकार को हमें अनाज देना चाहिये। लेकिन स्वराज्य का यह मतलब नहीं है कि हम सारे काम छोड़ दे। दिल्ली के लोग बड़े हैं और बुद्धिमान हैं इसमें शक नहीं है। लेकिन उनसे भी परमेश्वर अधिक बड़ा और बुद्धिमान है। वह किस तरह हमारा पालन करता है देखो। उसने हमको हाथ दिये, पाव दिये, नाक दिया, कान दिये, और बुद्धि दी। और कहा कि अपने हाथों से काम करो, तुम्हारा पेट भरेगा। उसने थोड़ी थोड़ी बुद्धि हरेक को दी। अगर वैसा वह नहीं करता और बुद्धि का सारा खजाना बैकुण्ठ में ही रखता तो हमारा पालन वह कैसे कर सकता था? उस दशा में भगवान को चैन से नोंद भी नहीं आती। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि शेषशायी है और योगनिद्रा में सो रहा है। वह इसलिये सो सकता है कि उसने सब को अकल दी और काम करने की जिम्मेवारी का दंग बताया। हम हाथों से काम करते हैं फिर भी अगर काम नहीं बनता है तो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, और वह हमें मदद देता है। हम अगर हाथों से काम नहीं करते हैं तो भगवान भी मदद नहीं करता इसी तरह हम अगर हाथों से काम नहीं करेंगे तो दिल्ली की सरकार भी हमको कुछ मदद नहीं दे सकेगी।

सरकार खास प्रसंग के लिये है

आप कहते हैं कि अब स्वराज्य आ गया है तो हमें कुछ कर्तव्य ही बाकी नहीं है। सब सरकार करेगी। हरेक काम के लिये अगर हम सरकार पर अवलंबित रहेंगे तो वह स्वराज्य होगा या

गुलामी । अपने गाँव में हम शांति नहीं रखेंगे और हर समय पुलिस को मदद के लिये बुलायेंगे तो वह होनेवाली बात नहीं है । विशेष मौके पर पुलिस की हम मदद माँगें तो सरकार दे सकती है । बाकी हमारी रोज की शांति, हमारा अनाज, हमारा कपड़ा, हमारी सफाई, हमारा शिक्षण, सारा गाँव में ही करना चाहिये ।

लोग कहते हैं कि सरकार हर गाँव में स्कूल खोले । लेकिन सरकार के पास उतना पैसा नहीं है । अधिक कर देने के लिये आप तैयार नहीं है । मैं कहता हूँ कि आप आपस आपस में क्यों नहीं सिखाते ! जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वह अगर रोज एक बटा दूसरे को पढ़ायेगा तो सारा गाँव शिक्षित हो सकता है । मान लीजिये कि हजार लोक-संख्या के गाँव में दस लोग पढ़े हुए हैं । वे अगर हर साल दस लोगों को पढ़ा देंगे तो एक साल में सौ लोग पढ़े-लिखे बन जायेंगे । और इस तरह दस साल में सारा गाँव पढ़ा-लिखा बन जायगा, इतनी यह आसान बात है । यही बात दूसरे कामों के बारे में भी है ।

उद्धरेत् आत्मनात्मानम्

हमारे सब काम हमें खुद करने चाहिये । भगवान ने गीता में कहा है, “ उद्धरेदात्मनात्मानं ” खुद का उद्धार खुद को ही करना चाहिये । दूसरों पर भरोसा रख कर मत बैठो । गाँव का राज्य गाँव वालों को स्थापित करना है । जो स्वराज्य दिल्ली में या आदिलाबाद में है वह आप को काम नहीं देगा । आप को वही स्वराज्य काम देगा जो आप के गाँव में बनेगा । यहीं देखो न । बाहर से मनुष्य

के शरीर को वैद्य तब तक ही मदद दे सकता है जब तक शरीर में ताकत बची हुई होती है। अगर शरीर की ताकत खतम हो जाती है तो वैद्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिये हमारा काम यह है कि शरीर का आरोग्य हम अच्छा रखें। उसके लिये हमें गांधीजी ने बताया है कि कुदरती इलाज पर आधार रखो। सूर्यप्रकाश, पानी, मिट्टी, आदि से रोग अच्छे करना सीख लेना चाहिये। आज कल तो लोग कहते हैं हर गाँव में एक दवाखाना हो। अभी तक वैसा नहीं हुआ है यह परमेश्वर की कृपा है। अगर ये लोग हर गाँव में दवाखाना खोल सकें तो गाँव का पैसा दवाखाने के निमित्त से बाहर जायगा और रोग दसगुना बढ़ेंगे....जरा कहीं कुछ हुआ तो हम दवाखाने में दौड़ेंगे। और यह समझ लो कि एक दफा वैद्य अगर घर में आता है तो फिर वह घर नहीं छोड़ता। कुछ लोग कहते हैं फलाना डॉक्टर हमारा फॅमिली डॉक्टर है। याने घर में जैसे माता-पिता होते हैं वैसे वह डॉक्टर भी घर का ही एक हिस्सा बन गया। इस तरह हर बात में अगर हम गुलाम बनते जायेंगे तो फिर स्वराज्य काहे का ? सरकार का काम आप को बाहर से कपड़ा ला देने का नहीं है। वह आप को कातना बुनना आदि सिखा देगी। वैसे तो सरकार आप की खिदमत करने के लिये ही है। आप जैसा चाहेंगे वैसा वह करेगी। लेकिन आप को उसके लिये पैसा खर्च करने की तैयारी रखनी होगी। आप कहेंगे हम खेती नहीं करेंगे हमें बाहरसे गल्ला दो तो सरकार अमेरिका से गल्ला ला देगी। उसके लिये आप को पैसा देना पड़ेगा। सरकार तो सेवक है। सेवक

से कैसी सेवा लेनी चाहिये यह मैं आप को समझा रहा हूँ। आप उसको कहें कि हमें तालीम दो, हम स्वावलम्बी बनना चाहते हैं।

भगवान झूठे पर प्रसन्न नहीं होता

आप का बाजार देख कर मुझे जो बातें सूझी वह मैंने आप के सामने रखी। जब तक हिंदुस्तान के बाजारों में झूठ चलता है तब तक हिंदुस्तान सुखी नहीं होगा। हम परमेश्वर का भजन करते हैं। लेकिन परमेश्वर झूठे पर कभी प्रसन्न नहीं होता। एक दफा दुर्योधन गांधारी के पास आशीर्वाद मांगने गया था। युद्ध का अवसर था। दुर्योधन ने गांधारी से कहा कि मुझे विजय मिले ऐसा आशीर्वाद दो। गांधारी तो दुर्योधन की माता थी और उसका दुर्योधन पर बहुत प्यार था। लेकिन उसने अपने पुत्र से कहा, “जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी यह मेरा आशीर्वाद है।” परमेश्वर का हमारे ऊपर बहुत प्यार है। वह हमें कहता है कि सचाई से बरतो तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अगर हम झूठे होंगे तो परमेश्वर हमें उसके लिये सजा देगा। उसमें भी उसकी दया ही होती है। परमेश्वर की दया अजीब होती है। पापी को शुद्ध करने के लिये वह उसको सजा देता है तो उसमें उसकी दया ही होती है। तो अगर हम परमेश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं और जीवन सुखी हो ऐसी इच्छा रखते हैं तो सत्य को नहीं छोड़ना चाहिये।

इच्छोडा (जि० आदिलाबाद)

१९-३-५१

तेरहवाँ दिन—

: १७ :

देहात के काम

आप सावधान रहें

आप का यह गाँव बिल्कुल ही छोटा है। लेकिन इस गाँव में मैंने जो काम देखा है उससे मुझे बहुत ही आनंद हुआ है। क्यों आनंद हुआ यह आप लोगों को नहीं मालूम हो सकता। बात ऐसी है कि आप के गाँव में मैंने बीस पच्चीस चरखे चलते हुए देखे। इस तरह चरखों का काम मैंने अपनी इस यात्रा में अभी तक कहीं नहीं देखा। और यह दृश्य देख कर मेरे हृदय को बड़ा संतोष हुआ। लेकिन आप लोगों को मैं जाग्रत कर देना चाहता हूँ। यहाँ अभी तक बाहर के व्यापारियों का ज्यादा प्रवेश नहीं हुआ है। लेकिन आगे चल कर स्थिति ऐसी ही नहीं रहेगी। बाहर के व्यापारी यहाँ भी आयेंगे। मुझे आज कल व्यापारियों का सब से अधिक डर लगता है। वास्तव में व्यापारी तो होने चाहिये प्रामों के सेवक। लेकिन इन दिनों ऐसा हुआ है कि व्यापारियों में दयाधर्म नहीं रह गया है। इसलिये वे जब कहीं जाते हैं तो गांवों की सेवा के बजाय अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। आज तामीरातवाले एक भाई मुझसे मिलने आये थे। बातचीत में उन्होंने बताया कि यह जिला जो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है पैनगंगा पर

पुल बनने के बाद आगे बढ़ जायगा। क्योंकि फिर बरार के साथ बहुत व्यापार चलेगा। लेकिन फिर यह जिला आगे बढ़ेगा इसका मतलब इतना ही है कि यहां व्यापारियों का जमघट बन जायगा। मतलब उसका इतना ही है कि फिर आपके गाँव में जो अच्छा दृश्य हमने देखा वह देखने को नहीं मिलेगा। बाहर के व्यापारी आपके गाँव में आयेंगे। कपड़ों के अच्छे अच्छे नमूने आपको बतायेंगे, आप लोभ में पड़कर उनसे कपड़ा खरीदने लग जायेंगे और गुलाम बन जायेंगे। आज भी मैं देखता हूँ कि आपके गाँव में सूत कतता है। कुछ लोग हाथ का कपड़ा पहनते हैं; लेकिन मिल का कपड़ा भी बहुत चलता है। लेकिन जब वे व्यापारी आयेंगे तब सारा का सारा कपड़ा बाहर से आने लग जायगा। इसलिये मैं आज ही आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप शपथ लीजिये कि बाहर का कपड़ा नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप के देखते देखते सारा गाँव दरिद्र हो जायगा। आज मैं आपके गाँव में घूम आया। सारे घर देख आया। घर बहुत तो थे नहीं इसलिये समय भी ज्यादा नहीं लगा। छोटासा गाँव है। आज आप लोग संतोष से रहते हैं। लेकिन अगर आप आलस में पड़े और बाहर की चीजें खरीदने लगे तो आज का यह संतोष नहीं रहेगा।

खादी का व्रत

एक घर में, जो कुछ पड़ा था, लोगों ने बैठने के लिये कहा। मैं वहाँ बैठा। उन्होंने मेरा स्वागत किया। लेकिन उस घर में मैंने

देखा कि उस घर की लक्ष्मी सारे कपड़े मिल के पहने हुए थी । मैंने उन्हें प्रेम से समझाया कि इस घर में मैं आया हूँ तो अब यहाँ बाहर का कपड़ा नहीं आना चाहिये । उन्होंने मेरी बात को मान लिया । अब मैं नहीं जानता कि वे कहाँ तक अपना वचन पालन करेंगे । भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उन्होंने जो वचन दिया है उसका पालन करने की शक्ति वह उन्हें दे ।

हिंदुस्तान की पहले की स्थिति

मैं अभी हैद्राबाद में होनेवाले सर्वोदय सम्मेलन के लिये जा रहा हूँ । सर्वोदय का मतलब है सब की उन्नति । सर्वोदय में यह बात नहीं आती कि किसी एक का भला हो, दूसरे का न हो । इसलिये सर्वोदय का चिन्तन करनेवाले मुझ जैसे के सामने यह बड़ी समस्या है कि शहरों के साथ देहातों का भला कैसे होगा ? हम चाहते हैं कि भला शहरों का भी हो और गाँवों का भी । एक जमाने में हिंदुस्तान के सारे गाँव बहुत सुखी थे । परदेश से आनेवाले लोग उसकी गवाह देते थे । बीच में जब अंग्रेज यहाँ आये तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ हर गाँव में कपड़ा बनता है और दूसरे भी बहुत से उद्योग चलते हैं । तो उन्होंने लिखा है कि गाँव गाँव में दूध बहुत मिलता है । लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों को मुश्किल से दूध मिलता है । दूध नहीं, तरकारी नहीं, कपड़ा नहीं, और आज तो गल्ला भी बाहर से आता है । यह हालत दो सौ साल के अंदर हुई है ।

स्वराज्य का कार्यक्रम

अब स्वराज्य आया है । हम चाहते हैं कि हमारे गांव फिर से सुखी हो । लेकिन स्वराज्य आने पर भी अगर हम लोग देहात का रक्षण नहीं कर पायेंगे, देहात के उद्योग कायम नहीं रख सकेंगे तो हमारे गांव सुखी नहीं हो सकेंगे । स्वराज्य का अर्थ ही यह है कि आप लोगो को अपने गांव का कपडा पहनना चाहिये । अपने ही गांव की चीजे खरीदनी चाहिये । बाहर का पक्का माल आप को नहीं खरीदना चाहिये, बल्कि अपने गाँव में खुद कच्चे से पक्का माल बनाना चाहिये । आप के गाँव में पक्का माल बनेगा तो शहरवाले खरीदेंगे और आप को लाभ होगा । लेकिन अगर आप कच्चा माल पैदा करके पक्का बाहर से खरीदेंगे तो आप को नुकसान होगा । अगर अपने ही गाँव में कच्चे माल से पक्का बनाते हैं तो मजदूरी आप को मिलती है । पक्का नहीं बनाते तो मजदूरी बाहर जाती है । एक जमाना था जब हिंदुस्तान-वाले अपने लिये तो कपडा बनाते ही थे लेकिन बाहर भी भेजते थे । उस जमाने में लोगों को चरखा कातने के लिये समय मिलता था और आज नहीं मिलेगा ऐसी बात तो नहीं है । आज लोगों की संख्या बढ़ गई है, जमीन कम हुई है । इसलिये समय तो खूब मिलता है । अभी एक जगह एक गांव का सर्वे किया गया तो माउम हुआ कि वहा के लोगों को साल भर में छः माह काम नहीं मिलता है । मैं देखता हूँ कि आप के गाँव में बगीचे भी नहीं हैं । याने आप के यहां की खेती बारिश के पानी पर ही होती है ।

इसलिये वह काम अधिक नहीं रहता। समय काफी बचता है। उसका क्या किया जाय ? अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आप के गांव की सेवा करे तो आप के गांव की उन्नति होगी। वह व्यक्ति आपके गांव का ही होना चाहिये। काँप्रेसवालों का काम है कि ऐसे गांव की सेवा करें। मुझे तो ऐसे गांव में रहने की इच्छा हो जाती है। यहाँ रहा तो पहले मैं कातनेवालों को धुनना सिखाऊंगा। आज तो कातनेवाले अपनी पूनी नहीं बनाते। दूसरे लोग उनके लिये पूनी बनाते रहे हैं। अपने घर में कपास बने और दूसरा मनुष्य उसकी पूनी बनावे और फिर मैं कातूँ ऐसा क्यों होना चाहिये ? अगर हम अपने ही घर में पूनी बनाते हैं तो पूनी अच्छी बनती है और सूत भी अच्छा कतता है। दिल्ली में हमने यह प्रयोग करके देखा। पंजाब की निर्वासित स्त्रियों को कातने के साथ हमने उन्हें पूनी बनाना भी सिखा दिया। परिणाम यह हुआ कि जो स्त्रियाँ पहले आठ दस नंबर तक कातती थीं वे सोलह बीस नंबर तक सूत कातने लगीं। याने पहले बिल्कुल मोटा सूत कातती थीं अब महीन कातने लगी हैं। बारीक सूत से धोतियाँ और साड़ियाँ बन सकती हैं। आप देख रहे हैं कि मदालसा यहाँ बैठी पूनी बना रही है। पाँच पाँच छः छः साल के बच्चे भी ऐसी पूनी बना लेते हैं। इस तरह अगर घर में ही पूनी बनने लग जायगी तो सूत अच्छा कतंगा।

फिर आप के यहाँ ये पहाड़ भी हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो पहाड़ से पत्थर ला ला कर उन पत्थरों से मकान बना दूंगा। इस

तरह अपने परिश्रम से पक्के मकान बन जायेंगे। फिर सफाई का काम शुरू कर दूंगा ताकि गांव में कोई बीमारी न होने-पावे। आप लोग बाहर खुले में पाखाना जाते हैं। लेकिन उस पर मिट्टी नहीं डाली जाती। खाद की बरबादी होती है। हमारा हिसाब है कि फी आदमी मैले की कीमत चार रुपया होती है। मतलब यह कि पाचसौ जनसंख्या के आप के गाव मे दो हजार रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। इस तरह गाव गाव उत्पादन भी बढ़ेगा और स्वच्छता भी बढ़ेगी। अब यह सारा काम अगर यहां कोई मनुष्य रहेगा तो हो सकेगा। लेकिन बाहर से मनुष्य कहां से लावें ? इसलिये यहीं पर कोई कार्यकर्ता मिलना चाहिये।

एक बात और। आप के गाव में प्रेम-भाव बढ़ना चाहिये। जैसा एक परिवार में प्रेम होता है वैसा सारे गाव में होना चाहिये। सारा गाव एक परिवार ही हो जाना चाहिये।

तो आप लोग नित्य गाव में उद्योग बढ़ाइये और प्रेम-भाव बनाये रखिये, यहां जुझे आप से कहना था।

निरञ्जीडी, (जि० आदिलाबाद)

२०-३-५१

चौदहवाँ दिन—

: १८ :

ग्राम राज्य

गांधीजी का ही संदेश सुनाता हूँ

मुझे गांधीजी का आदमी समझ कर आप सब स्त्रियां अपने अपने चरखे लेकर इस सभा में आयी हुई है। और आज मैं आपको जो सुनानेवाला हूँ वह गांधीजी का ही संदेश है। लोग कहते हैं कि गांधीजी ने जो कहा उससे कोई नई बात यह मनुष्य नहीं कहता है। यह बात सही भी है। क्योंकि गांधीजी के पास मैंने जो सीखा उसे नहीं भूल सकता। अगर गांधीजी का शिक्षण मैं भूल जाऊंगा तो पशु बनूंगा।

सुदर्शन चक्र धारी भगवान के दर्शन

आप लोगो को मैं नारायण समझता हूँ। और जब मैंने देखा कि सौ से अधिक स्त्रियां यहां चरखे चला रही हैं तो उस सुदर्शन चक्रधारी भगवान के ही मैंने आज दर्शन किये। इस तरह आपके दर्शन का लाभ लेने के लिये मैं पैदल निकल पड़ा हूँ। आज सुबह पांच बजे हम निकले और चौदह मील की मुसाफिरी की। एकदम से इतना चलने से हम लोगो को कुछ तो थकान जरूर लगी। लेकिन जो दृश्य यहां आपके कातने का मैंने देखा उससे वह सारी थकान

उड़ गई। आज की सभा जो भी देखते थे अगर मनमें शंका रखते हैं कि चरखा कैसे चलेगा इन दिनों, तो यह दृश्य देखकर वे समझ जायेंगे। लेकिन आज तो आप लोगों ने बता दिया कि आप खेती का काम भी कर सकती हैं और चरखा चला कर अपना कपड़ा भी बना लेती हैं।

लक्ष्मी की कथा

अब मुझे यही कहना है कि आप यह काम निष्ठा से अधिक बढ़ाइये। अपने गाँव में हाथ का बना कपड़ा ही हमें पहनना चाहिये। बाहर का कपड़ा यहाँ नहीं आना चाहिये। आप कातती हैं और उसका कपड़ा भी पहनती हैं यह अच्छा है। लेकिन खहर ही पहनेंगे दूसरा कपड़ा नहीं पहनेंगे ऐसा व्रत आपने नहीं लिया है। ऐसा व्रत न लेने में क्या खतरा है यह मैं आपको समझाऊंगा। खतरा यह है कि मिल का कपड़ा यहाँ आता रहेगा और आपको उसका मोह होगा। फिर आप खुद उस मिल के कपड़े को शायद नहीं पहनेंगी। लेकिन अपनी लड़कियों को वह पहनायेंगी और कहेगी कि कैसी सुंदर दीखती है मेरी लड़की मिल के कपड़े में। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मिल के कपड़े में आपके लड़के लड़कियाँ खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत दीखेंगी। क्योंकि मिल का कपड़ा अगर घर में आता है तो घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। और लक्ष्मी अगर बाहर गई तो फिर घर की क्या शोभा रही? लक्ष्मी की कथा है कि वह शामके समय गाँव में घूमती है। जिस घरमे देखती है कि सायंकाल के समय भी दीपक जल रहा है और:

काम हो रहा है उस घर में वह प्रवेश करती है। उसका मतलब यह है कि जहां दिन में भी काम चलता है और रातको सोते तक निरंतर काम और उद्योग चलता है उसी घर पर लक्ष्मी की कृपा होती है। चरखे से इस तरह घर घर काम हो सकता है।

कातनेवालों की जाति नहीं होती

मैं देख रहा हूं कि कुछ स्त्रियां कात रही हैं लेकिन कुछ नहीं कातती हैं। एक बाई से मैंने पूछा कि वह क्यों नहीं कातती ? मिल का कपड़ा क्यों पहनती है ? उसने उत्तर दिया कि हमारी जाति में कातना निषिद्ध है। यह खयाल गलत है। जो भी कपड़ा पहनता है उसको कातना चाहिये। जैसे बर्दई की या लुहार की जाति होती है वैसे कातनेवालों की कोई जाति नहीं होती। हरेक जाति को कातना चाहिये। हर घर में रसोई बनती है उसमें जाति का कोई प्रश्न नहीं होता। वैसे हर घरमें कातने का काम होना चाहिये। मैं यह भी देखता हू कि स्त्रियां तो कातती हैं लेकिन पुरुष नहीं कातते हैं। शायद उनको लगता है कि वे कातेंगे तो उनका धर्म त्रिगुण्डेगा। स्त्रियां कपड़ा पहनती हैं तो पुरुष नंगे थोड़े ही रहते हैं ? इसलिये पुरुषों को कातना चाहिये स्त्रियों को कातना चाहिये बच्चों को कातना चाहिये और बूढ़ों को भी कातना चाहिये। गांधीजी रोज नियम से कातते थे। जिस दिन उनका खून हुआ उस दिन भी वे कात कर मरे हैं। इस तरह उन्होंने सारी जिंदगीभर हमारे सामने एक आदर्श दिखा दिया कि हमको रोज कुछ न कुछ सूत कातना चाहिये।

बेकार रहेंगे तो शैतान मन में घर करेगा

लोग पूछते हैं कि अब तो स्वराज्य आया है अब कातने की क्या जरूरत है ? तो आप से यह भी पूछ सकते हैं कि अब स्वराज्य आया है तो रसोई करने की क्या जरूरत है ? स्वराज्य के पहले घर में रसोई करने की जरूरत थी, स्वराज्य के बाद भी जरूरत है। मिल का पराक्रम आप को सुनाता हू। लड़ाई के पहले मिलें फी आदमी १७ गज कपड़ा देती थी। और अब १२ गज तैयार करती है। इस पर से आप के खयाल में आयेगा कि मिल पर भरोसा रखना कितना घातक है। मैं तो कहना चाहता हू कि मिलें अगर ५० गज भी कपड़ा तैयार करें तो भी उसको खरीदने में देहातवालों का भला नहीं है। कोई कहते है कि मिल का कपड़ा सस्ता होता है। मैं कहता हू कि वह मुफ्त में भी मिले तो भी हम वह कपड़ा नहीं लेगे इस तरह का निश्चय हमें करना चाहिये। ऐसा निश्चय अगर देहातवाले नहीं करेंगे तो उनके सारे धंधे खतम हो जाएंगे। और आप के धंधे अगर नष्ट हो गये तो फिर आप को मुफ्त कौन खिलायेगा ? इसलिये मैंने लक्ष्मी का जो चरित्र कहा था वह याद रखिये। उद्योग चले गये तो लक्ष्मी चली जायगी, हम आलसी बनेंगे और फिर आपस आपस में झगड़े शुरू हो जायेंगे। फिर लोगों में तरह तरह तरह के व्यसन शुरू हो जायेंगे। नशाखोरी चलेगी। लोग शराब और बीड़ी पीने लगते हैं। बीड़ी पीनेवाले तो यहां तक आगे बढ़ गए है कि जहां प्रार्थना चलती है वहां भी वे बीड़ी पीते है। याने साधारण-सभ्यता भी वे नहीं जानते हैं कि

जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां बीड़ी नहीं पीनी चाहिये । जहां उद्योग नहीं होते हैं और मनुष्य खाली रहता है वहां ये सारे ढंग सूझते हैं । फिर झगड़े बढ़ते हैं और उसके साथ व्यभिचार आदि भी चलते हैं । इसीलिए हमारे पुरखाओं ने हमें सिखाया है कि “ क्षणार्धमपि व्यर्थ न नेयम् ” एक क्षण भी खाली नहीं रहना चाहिये । इस तरह एक एक क्षण का हम हिसाब नहीं रखेंगे तो फिर हमारे मन में शैतान काम करने लगता है और यह विचार शुरू होता है कि दूसरे के जब से पैसे कैसे छूटे जायं । व्यापार में सर्वत्र झूठ शुरू होता है । चौरियां कैसे की जायं इसकी युक्तियां खोजी जाती हैं । यह सब हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है इसलिये मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ ।

ग्रामराज्य और रामराज्य की व्याख्या

जो लोग अपने घर में सूत कातेंगे उनका अपना कपड़ा घर का होगा । लेकिन उनके घर में अगर ज्यादा कपड़ा तैयार होता है तो गांव के दूसरे लोग उसको खरीद सकते हैं । गांव में कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे कि जिनके लिए खुद सूत कातना संभव नहीं होगा । तो वे अपने गांव में कते सूत का कपड़ा खरीदेंगे । यह जो मैंने कपड़े के लिये कहा वही दूसरे उद्योगों को भी लागू है । तेल गांव में बनाना चाहिये । गुड़ गांव में बनाना चाहिये, आटा घर घर पीसा जाना चाहिये । इस तरह आप देहात की स्त्रियां और पुरुष काम करेंगे तो यह राज्य आपका होगा । इसको ग्रामराज्य कहते हैं । ग्राम में जब स्वावलंबन होगा, गांव अपनी शक्ति पर खड़ा होगा तब

वह ग्रामराज्य होगा। और रामराज्य तब होगा जब आपस आपस में कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सब एक दूसरे पर प्यार करेंगे, सब एक दूसरे का साथ देंगे और सहकार करेंगे। अपने देश के लिये स्वराज्य तो आया है। लेकिन ग्रामराज्य स्थापित करना बाकी है। उसके लिये अब हमें झगड़ना है, मेहनत करनी है। वह बड़ी भारी लड़ाई होगी।

ग्रामराज्य के लिए लड़ाई लड़नी है

स्वराज्य के लिए तो लड़ाई हो गई। लेकिन उससे भी कठिन लड़ाई आगे ग्रामराज्य के लिये होनेवाली है। आज तक हमने जो लड़ाई लड़ी वह अहिंसात्मक थी। वैसे यह लड़ाई भी अहिंसात्मक ही होगी। यह लड़ाई टलनेवाली नहीं है। उस लड़ाई के सिपाही आप सारी बहनें और भाई होंगे। उधर शहरवाले लोग व्यापार में लगे हुए हैं, ग्रामों की कोई चिंता नहीं करते हैं। उनके साथ हमारा कोई भेदभाव तो नहीं है, लेकिन झगड़ा जरूर है। उस युद्ध में हमारे औजार होंगे चरखा और हल। हमारे युद्ध के लिये हमें बम की जरूरत नहीं है, तोपों की भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है काम करने के औजारों की।

गोपाल पेंठ, (जि० आदिलाबाद)

२१-३-५१

पन्द्रहवाँ दिन—

: १९ :

सर्वोदय की महिमा

स्वराज्य शब्द की महिमा

हम सर्वोदय के यात्री अपनी पैदल मुसाफिरी में आप के गांव में आ पहुंचे हैं। सर्वोदय एक महान शब्द है और उसका अर्थ भी महान है। समाज के सामने जब कोई महान शब्द होता है तो उससे समाज को शक्ति मिलती है। शब्द की महिमा अगाध होती है। जिस समाज के सामने कोई बड़ा शब्द नहीं होता है वह समाज शक्ति-हीन और श्रद्धा-हीन बनता है। शब्द की शक्ति का यह अनुभव हर जमात को और हर देश को आया है। हमारे देश में चालीस साल तक स्वराज्य शब्द चला और उसका पराक्रम तथा महिमा सब ने देख ली। १९०७ में स्वराज्य शब्द दादाभाई नौरोजी ने हमें दिया और १९४७ में उसका दर्शन हमें मिला। उसका चमत्कार आखिर तो हैद्राबादवालों ने भी देख लिया। हैद्राबादवाले बहुत दिनों से सोच रहे थे कि बाकी के सारे देश में स्वराज्य का उदय हुआ, हमारा क्या हाल होगा? उनको भी अनुभव हुआ कि जो शक्ति देशभर में पैदा हुई थी उसका स्पर्श यहां भी होना था। यह सत्यान उससे अलग नहीं रह सकता था।

स्वराज्य के बाद का शब्द

इस तरह स्वराज्य शब्द का कार्य हिंदुस्तान में हो गया और उसके साथ साथ महात्मा गांधीजी का अस्त हुआ। उनके जाने के पीछे सारा देश हक्का-बक्का हो गया और कुछ रोज तो सज़्जता ही नहीं था कि इस देश का क्या होनेवाला है ? लेकिन परमेश्वर की कृपा से सब लोग स्थिर हो गये और अब ऐसा समय आ गया है कि देश के प्रगति का अगला कदम रखा जाय। अगला कदम तो तब रखा जा सकता है जब कि जहाँ जाना है उसकी दिशा तय हुई हो। तो गांधीजी के जाने के बाद चंद लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने देश को सर्वोदय शब्द दे दिया। यह शब्द भी गांधीजी का ही रचा हुआ था। और उसकी जड़ हिंदुस्तान की संस्कृति में प्राचीन काल से जमी हुई है। जब स्वराज्य नहीं हुआ था तब तो वही एक शब्द हमारे सामने था और परदेशियों का यहाँ का राज्य हटाने में ही हम सब लगे हुए थे। हमारे खेत में तरह तरह के निकम्मे झाड़ उगे हुए थे, उनको काटने का काम हुआ उसीका नाम स्वराज्य था। अब स्वराज्य-प्राप्ति के बाद उस खेत में परिश्रम करना है और बोना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों का यही खयाल है कि अब तो काटनेका समय है। यह बिल्कुल गलत खयाल है। तो वह जो खेती में परिश्रम करके फसल लाना है उसी का नाम है सर्वोदय। सर्वोदय शब्द अगर हमारे सामने न होता तो हम सब ध्येय-शून्य बन जाते।

स्वराज्य के बाद का नैतिक कार्य

सर्वोदय शब्द ने हमारे सामने स्पष्ट उद्देश्य रख दिया । वह उद्देश्य ऐसा है जिसमें सब लोगों का समावेश हो सकता है । मेरे अभिप्राय में स्वराज्यप्राप्ति के बाद हिंदुस्तान में जो तरह तरह के राजकीय पक्ष पैदा हुए हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी । स्वराज्य के बाद हिंदुस्तान में जो असंख्य समस्याएँ पैदा हुईं वे बहुत सारी अनैतिक थीं । याने जनता की नीति गिरी हुई थी उसका हमें तरह तरह से अनुभव आया । और आज भी हम यही देखते हैं कि जहाँ जाओ वहाँ नीति-हीनता और शील-भ्रष्टता का दर्शन होता है । इसके लिये मैं जनता को दोष नहीं देता हूँ । क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारी की सारी जनता नीति-भ्रष्ट नहीं हो सकती । लेकिन वैसा नीति-भ्रष्टता का दर्शन अगर सर्वत्र होता है तो यही समझना चाहिये कि उसका कारण परिस्थिति में मौजूद है । जिम्मेदारी चाहे परिस्थिति की हो चाहे जनता की हो लेकिन जो है उसको हमें दुरुस्त करना है । स्वराज्य प्राप्ति के बाद सब लोगों का शील कायम रखना, आपस आपस में प्रेम-भाव कायम रखना आदि बिल्कुल बुनियादी काम करना ज़रूरी हो गया था और है । इस हालत में किसी भी तरह के राजकीय उद्देश्यों के लिये मौका ही नहीं रहता है । जब समाज का नैतिक स्तर और आपस आपस का प्रेम-भाव बढ़ेगा तब राजकीय उद्देश्यों के लिये मौका आ जाता है । इसलिये जिन जिन लोगों से जब जब बात करने का मौका मिलता है तब उन्हें मैंने यही कहा है कि भाइयो,

यह राजकीय लेबल अब अपने सिर पर मत चिपकाओ। और केवल इन्सान बन जाओ।

आज का परदेशावलंबी स्वराज्य किस काम का

देखिये मैं तो पैदल घूम रहा हूँ। बीच-बीच में छोटे-छोटे गाँवों में जाना होता है तो बीच में शहर देखने को मिलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उधर गावों की परिस्थिति क्या है और इधर शहरों की परिस्थिति क्या है! देहात में एक तरह का दुःख है तो शहरों में दूसरी तरह का। देहात में देखता हूँ कि लोगों को कपड़े पहनने के लिये नहीं है और शहर में देखता हूँ कि लोग शराबी बन रहे हैं। वस्त्रों का न होना एक बड़ा भारी दुःख है तो शराबी होना कोई सुख की बात नहीं है। तरह-तरह के व्यसन शहरों में बढ़ रहे हैं। स्वराज्य के पहले स्वदेशी विदेशी का जो फरक हम करते थे वह भी अब भूल गये हैं। जो भी अच्छी चीज देखते हैं खरीद लेते हैं। स्वराज्य के बाद हमारे शहरों की अगर यह हालत हो जाय कि सारे बाजार परदेशी वस्तुओं से भर जायें तो वह स्वराज्य किस काम का? और मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि आप परदेशी वस्तु खरीदते रहिये, आप के स्वराज्य पर कभी आक्रमण नहीं होगा। आपका स्वराज्य कायम रहेगा। क्योंकि दूसरे देशों को क्या फिक्र पड़ी है कि आप का देश कब्जे में रख कर सारा जिम्मा उठायें अगर उनका माल यहाँ खपता है? और इन दिनों किसी देश को अपने कब्जे में रखना काठिन काम हुआ है। इसलिये दुनिया के बड़े बड़े

देश यह नहीं सोचते कि दूसरे देशों पर अपनी राजकीय सत्ता कायम करे। अगर व्यापारी सत्ता हासिल है तो राजकीय सत्ता हासिल करने में कोई लाभ नहीं है। मतलब यह हुआ कि फिर हमारे स्वराज्य का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा अगर हमारे बाजार परदेशी वस्तुओं से भरे रहें। यह है हमारे शहरों का हाल।

उपर देहातों का हाल यह है कि उन लोगों के पास कोई धंधे नहीं है। उनके जो छोटे छोटे धंधे थे वे शहरवालों ने छीन लिये। यहाँ देखो, हम जहाँ बैठे हैं वह एक धान कूटने की मिल है। अगर धान कूटने का धंधा देहात में चला तो लोगों को काम मिलेगा, वह भी शहर में गया तो देहातवाले बेकार हो जायेंगे।

तो उपर परदेशी वस्तुओं से शहर के बाजार भर रहे हैं उनके विरोध में शहरियों का पराक्रम कुछ नहीं चलता है। उनका सारा पराक्रम देहात के धंधे डुबाने का है।

देहात के धंधे सुरक्षित रहें

होना यह चाहिये कि देहात के धंधों को देहात में रखना चाहिये और परदेश से जो माल आ रहा है उसके विरोध में शहरों में धंधे खड़े होने चाहिये। आज की हालत यह है कि परदेश के लोग हमारे शहरों को छूटते जा रहे हैं और शहरवाले हमारे देहातों को छूटते जा रहे हैं। अगर उससे उलटा बना याने परदेश के धंधों के विरोध में शहरवाले खड़े हो गये और देहात के धंधों को उन्होंने बचा लिया तो देहात और शहर दोनों का सहयोग होगा।

और यह देश शक्तिशाली बनेगा । हम हमारे कुछ जंगलो को जैसे रिजर्व रखते हैं वैसे देहात के लिये कुछ बंधे रिजर्व रखने चाहिए । इस तरह देहात के बंधो को हमने सुरक्षित नहीं रखा तो देहात उजड़ जायेगे और आखिर देहाती लोग शहरो पर टूट पड़ेंगे । तो उधर परदेश के व्यापारी शहरो को लूटेंगे और इधर देहात के लोग शहरो पर टूट पड़ेंगे तो फिर शहरों की क्या हालत होगी आप ही सोचिये । तो स्वार्थबुद्धि से भी आप को देहात की रक्षा करनी चाहिये ।

देहात उजड़ जाय तो शहर और देहात की लड़ाई अटल है

तो हम लोगोकी अकल अब इस बात मे लगनी चाहिये कि देहात और शहर दोनो का सहयोग कैसे हो और दोनो मिल कर परदेशी माल के विरोध मे कैसे शक्ति पैदा करे / यह नहीं हो रहा है और मुझे देहातवालों को कहना पड़ता है कि भाई तुम्हारे और शहरियों के बीच लड़ाई होनेवाली है । मैं उस लड़ाई को नहीं चाहता । लेकिन अगर शहरियों का रवैया नहीं बदला तो यह लड़ाई अटल है, यह मैं देख रहा हूँ और वही मुझे कहना पड़ता है ।

सर्वोदय का ध्येय

मैं उस लड़ाई को नहीं चाहता इसीलिये सर्वोदय के प्रचार के लिये आप को समझा रहा हूँ । और मैं कहता हूँ कि इस समय इस शब्द में जो शक्ति है वह आप चिंतन करेंगे तो आप को महसूस होगी । सर्वोदय शब्द हमें यह समझा रहा है कि देश मे जगह

शक्तिसंचय हो जाना चाहिये। देश में एक घर भी अशक्त नहीं रहना चाहिये। अगर इस तरह हम नहीं सोचते हैं और बगों के झगड़ों की बात निकालते हैं या कोई खास लोगो के हित की ही बात सोचते हैं तो हिंदुस्तान सुख में नहीं रहेगा। सरकारी कानूनो में जो भी लूणहोल मिलते हैं उनका लाभ उठाने का व्यापारी सोचते हैं। इस तरह व्यापारी और सरकार दोनों के बीच अकल की लड़ाई चलेगी और इन दोनों की लड़ाई के बीच देहात के लोग मारे जायेंगे। जरूरी इस बात की है कि व्यापारियों की ताकत देहात के हित में लगे, सरकार की ताकत देहात के हित में लगे और शहरियों की भी ताकत देहात के हित में लगे। और देहाती लोग, शहर के लोग, व्यापारी और सरकार चारों मिलकर परदेशी वस्तुओं का और बिचारों का जो आक्रमण हो रहा है उसके विरोध में खड़े हो जाँय।

सर्वोदय का लक्ष्य

तो स्वराज्य के बाद सर्वोदय का क्या काम है यह मैंने थोड़े में आपको समझाया। हमारे देश में चार शक्तियाँ काम कर रही हैं। एक है सरकार की, दूसरी है व्यापारियों की, तीसरी है शहरियों की और चौथी है देहातियों की। इन सब शक्तियों का योग साथ करना सर्वोदय का काम है। अब आप ही सोचिये कि सर्वोदय में इतना अर्थ भरा है तो इसको छोड़ कर और किस शब्द की आपको जरूरत है? और किन राजकीय पक्षों की आपको आवश्यकता है? सर्वोदय कोई राजकीय पक्ष नहीं है।

लेकिन सारे राजकीय पक्षों को पेट में निगलने के लिये वह पैदा हुआ है। दूसरी भाषा में सबका हृदय एक बनाना, सबकी भावना एक बनाना, और सबकी शक्तियों का समवाय सिद्ध करना सर्वोदय का लक्ष्य है।

भाइयो, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ का हरेक जवान और प्रौढ इस शब्द से स्फूर्ति पावेगा और इसके लिये जीवन भर कोशिश करेगा। इस शब्द से जो स्फूर्ति मिलती है वह राम-नाम जैसी शक्ति है। और राम वही है जो सबके हृदय में रम रहा है। उसी का भजन अब हम सब मिल कर करेंगे।

निमल, (बि० आदिलाबाद)

२२-३-५१

सोलहवां दिन—

: २० :

सच्चा वर्णाश्रम धर्म

आज प्रार्थना सभा सदा की भांति साढ़े पांच बजे होनेवाली था। लेकिन आप सब भाई बहनें दूर दूर गांव से यहां आ कर बैठे हैं इसलिये जल्दी ही शुरू कर देता हूं। ये स्त्रियां अपने बच्चों को घर छोड़ कर आई हैं। इसलिये मैं उन्हें जल्दी ही खाना कर देना चाहता हूँ।

ग्रामोद्योग का अर्थशास्त्र

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप सूत कातती हैं। लेकिन आपके चारों ओर घटोत्कची माया फैली है। सब तरफ मिलो का कपड़ा छाया हुआ है। आप के लिये इस देश की मिलो और परदेश की मिलो में कोई फरक नहीं है। आप को तो अपने सूत का ही कपड़ा पहनना चाहिये। मुझे इस बात का दुःख है कि आप तो सूत कातती हैं लेकिन यहां के लोग मिल का कपड़ा पहनते हैं। होना तो यह चाहिये कि इस गांव में बना हुआ कपड़ा ही यहां के लोग पहनें। अपने गांव वालों पर जो प्रेम नहीं करते वे प्रेम करना जानते ही नहीं। प्रेम का अर्थ ही यह है कि एक दूसरे की रक्षा करें। गांव में चमार है। वह जूता बनाता है तो उसका जूता हम नहीं खरीदेंगे और बाहर का खरीदेंगे तो

गांव का चमार मर जायगा । इस तरह हमारे चमार को हम रक्षण नहीं देते हैं तो उस पर हम प्रेम नहीं करते । इसी तरह तुझारे गांव के तेली का तेल तुम्हें खरीदना चाहिये । अपने गांव के बुनकर का कपडा पहनना चाहिये । लेकिन हम कहते है कि हमारे गांव के चमार का जूता महंगा है, तेली का तेल महंगा है, बुनकर का कपडा महंगा है । इस तरह अगर गांव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपडा, गांव का गुड़ और गांव की चीजे हमे महंगी लोगी तो हम जी नहीं सकेंगे । हम महंगा महंगा कहते हैं, लेकिन वास्तव मे वह महंगा नहीं है । गांव के तेली का तेल उसी गांव का चमार खरीदता है और चमार का जूता तेली खरीदता है तो इसका पैसा उसके घर मे जाता है, उसका पैसा इसके घर में जाता है । हम अपने घर की लडकिया दूसरो के घर देते है, उनकी लडकियां हमारे घर लेने है । क्या यह सौदा महंगा पड़ता है ? इसी तरह अगर तेली का पैसा चमार के घर और चमार का पैसा तेली के घर जाता है तो किसका नुकसान होता है ? इस तरह जिसे आप महंगा कहते है वह महंगा नहीं है बल्कि उस पर ही हमारे गांव का जीवन चलता है । इस लिये आप लोगो से मेरी प्रार्थना है कि जो माल आप के गांव मे बनता है वही खरीदिये । यह मत कहिये कि हमारा देश बड़ा है तो दिल्ली का माल क्यों न खरीदे । दिल्ली हमारे देश में तो है पर दिल्लीवालो का काम है कि वे दिल्ली की चीजे खरीदें, यहांवालों का काम है कि वे यहां की चीजे खरीदें । दिल्ली में जो वारिश होती है वह सुवर्णपुर में नहीं

आती । भगवान हर गांव मे बूंद बूंद बारिश बरसाता है । उसी तरह घर घर मे और गांव गांव में लक्ष्मी निर्माण करने की शक्ति चरखे मे पडी है । चरखा धन थोडा देता है जैसे बारिश की बूंद भी छोटी होती है । लेकिन बारिश की बूंद छोटी होते हुए भी घर घर बरसती है वैसे ही चरखे का धन थोडा होने पर भी घर घर निर्माण होता है । यह जब सोचते है तो आप को मालूम हो जायगा कि अपने गांव की रक्षा कैसे हो सकती है ।

हमारे यहां पहले से वर्ण-धर्म चला आया है । वर्ण-धर्म का अर्थ यह है कि अगर बाप चमार है तो लड़के को भी चमार का धंवा करना चाहिये । लेकिन अगर हम अपने गांव के चमार का माल नहीं खरीदेगे और बाहर का खरीदेंगे वैसे ही अपने बुनकर का कपड़ा न खरीद कर बाहरवालों का कपड़ा खरीदेगे तो चमार का लड़का चमड़े का काम करेगा कैसे ? और बुनकर का लड़का बुनकर का काम आगे चलायेगा कैसे ?

गांव का शिक्षण ब्राह्मण संभाले

इस गांव में ब्राह्मण भी रहते है । ब्राह्मण विद्वान होते है । और देहातों मे अक्सर नहीं रहते । मै अभी छोटे छोटे देहातो से होता हुआ आया हूं । मैने कहीं ब्राह्मणों के घर नहीं देखे । छोटा गांव होते हुए भी यहां ब्राह्मण हैं क्योंकि यह क्षेत्र का गांव है । लेकिन यहां ब्राह्मणों के होते हुए भी यहां के लोग शिक्षित नहीं हैं । यहां के लोग मुझे आज सबेरे कहते थे कि यहां एक मदरसा खोलने के लिये सरकार से प्रार्थना की जाय । सरकार हर गाँव में कहां तक

मदरसे खोल सकती है ? और पैसा भी कहां से ला सकेगी ? इस गाँव में अगर ब्राह्मण रहते हैं तो यहाँ के बालकों को वे मुफ्त क्यों नहीं पढ़ाते है ? ब्राह्मण लोग रोज एक घंटा पढ़ायेंगे तो पाँच-सात साल में सारा गाँव लिखना-पढ़ना सीख जायगा । मदरसा-खोलेंगे तो वहाँ बच्चों को रोज पांच छः-घंटे पढ़ना होगा । और इतना समय गरीबों के बच्चे निकाल नहीं सकेंगे । इसलिये मैंने ब्राह्मणों से कहा है कि वे सिर्फ एक घंटा पढ़ावें और बच्चे भी एक घंटा सीखें । कुछ लोग शाम को एक घंटा पढ़ायेंगे कुछ लोग सुबह एक घंटा पढ़ायेंगे । पढ़नेवाले बाकी के समय काम करेंगे और पढ़ाने वाले भी काम करेंगे । अगर इस तरह ब्राह्मण बिना शुल्क विद्यादान करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी । लेकिन ब्राह्मण बन गये लोभी और फिर भी प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते है । लोभ और प्रतिष्ठा दोनों साथ नहीं रहेंगे । इसलिये मैंने ब्राह्मणों से कहा है कि वे विद्यादान करें ।

वर्णाश्रम धर्म कैसे टिकेगा ?

ये सारे ब्राह्मण वर्णाश्रमाभिमानी होते हैं । लेकिन उनके बदन पर मिल के ही कपड़े हैं । अब मैं उनसे पूछूँगा कि भाई आप अगर वर्णाश्रम का अभिमान रखते हैं तो गाँव के बुनकर का कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं ? अगर वे जूते पहनते हैं तो गाँव के चमार के बनाये हुये क्यों नहीं पहनते ? इस तरह वर्ण-धर्म की प्रतिष्ठा कायम रखना उनका काम है । मैं ब्राह्मणों से और सब से प्रार्थना करता हूँ कि अपने गाँव के उद्योग कायम रखों और इस

तरह वर्ण-धर्म कायम रखने में मदद करो। ऐसा करोगे तो गोदावरी के तट का यह गाँव फिर से भाग्यशाली और सही माने में सुवर्णपुर बनेगा।

इस गाँव के बहुत से लोग बाहर गये हैं। उन्होंने बाहर अपनी पढाई की है। लेकिन वे अपने इस गाँव की क्या सेवा कर रहे हैं? उनका काम है कि अपने गाँव का जो ऋण उन पर है वह चुकावे और उसके लिये गाँव की सेवा में लग जाय।

सबसे समान व्यवहार करो

अतः मे एक बात और। यह क्षेत्र है। क्षेत्र में ब्राह्मण ऊँचे माने जाते हैं और हरिजन नीचे माने जाते हैं। मुझसे कहा गया है कि मैं इस बारे में कुछ कहूँ। लेकिन इस बारे में आप मुझसे मत पूछिये। इस गोदावरी नदी को ही पूछिये। क्या यह गोदावरी ब्राह्मण को पानी पिलाती है और हरिजन को नहीं पिलाती? तो जैसे गोदावरी सब के साथ समान व्यवहार करती है और यह सूर्य सब को समान भाव से प्रकाश देता है वैसे सबके साथ समान भाव में व्यवहार करना ही धर्म है। यह ऊँचा वह नीचा कहने वाले धर्म का आचरण नहीं करते। इसलिए इस क्षेत्र में किसी तरह का भेद-भाव होना ही नहीं चाहिये। दुनिया में दो ही जातियाँ हैं। एक सज्जनों की और दूसरी दुर्जनों की। मला बर्ताव करनेवाला चाँडाल भी ब्राह्मण से बढ कर है, और बुरा बर्ताव करनेवाला ब्राह्मण भी चाँडाल से बढतर है।

तो मेरे माइयो, जुझे जो कहना या नै कह चुका । मै एक दफा आपके गाँव मे आया । फिर कब आऊंगा कौन जाने ? हम लोग सर्वोदय यात्रा के लिये निकले हैं । जैसे यह गोटावरी आप के गाँव से होकर गुजरती है वैसे हमारी यात्रा भी सहज ही यहाँ आ गई है । तो आप से मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र का सच्चे अर्थ मे क्षेत्र बनाओ । यहां के हर मनुष्य को पढ़ना-लिखना आना चाहिये एक बात, और यहां जो चीजे बनती है उन्हीं को आप को खरीदना चाहिये यह दूसरी बात । एक ज्ञान की है और दूसरी प्रेम की । ये दो बातें आप ध्यान में रखियेगा । मेरा आप को प्रणाम ।

गेन अर्थात् सुवर्णपुर, (जि० आदिलबाद)

२३-३-५१

सतरहवाँ दिन—

: २१ :

गाँव गोकुल बने

मुझे बहुत आनंद होता है कि आप इतनी बहनें और माई दूर दूर के गाँव से हम लोगों से मिलने के लिये आ गये हैं। अभी दो तीन साल के पहले आपका यह हैदराबाद का राज्य बड़ा दुखी था। रजाकार लोगों का जुल्म चल रहा था और आप सब लोग भयभीत थे। कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन रजाकारों की सल्तनत खतम हुई और आप लोग अब आजादी से इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो ऐसी सभाओं में कौन आ सकता था ?

आजादी का मतलब

लेकिन आजादी का यह मतलब नहीं है कि आप बिना काम किये सुखी हो जायेंगे। हम लोग हाथ पर हाथ दिये बैठे रहेंगे तो हम आजाद हो गये हैं इसलिये मुफ्त खाने या पहनने को थोड़े ही मिलनेवाला है !

अपने ही सूतका कपड़ा पहनें

आज मैंने देखा यहां पर बहुत खियां कात रही थीं, लेकिन वह देख कर भी मुझे आनंद नहीं हुआ। क्योंकि कातनेवाली बहनों के बदन पर तो मिल का ही कपड़ा था। कातने से मजदूरी मिलती है। इसलिये वे कातती हैं। लेकिन हमारे सूत का कामत

अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्यों करेंगे ? हमें हमारे सूतका ही कपड़ा पहनना चाहिये ।

सरकार के सिपाही हैं

लोग मानते हैं कि हमको सरकार अनाज दे, कपड़ा दे । लेकिन क्या सरकार के पास अनाज का और कपड़े का खजाना है ? हम सारे हमारी सरकार के सिपाही हैं । अगर हम सिपाही का काम नहीं करेंगे तो हमारी सरकार बेकार हो जायगी । हम काम करेंगे तभी सरकार मजबूत बनेगी ।

बाहर मत देखिए

इसलिये आप को मेरी सूचना है कि आप सब मिल कर एक समिति बनाइये । उस समिति द्वारा गाँव का सारा कारोबार चलाइये । गाँव में झगड़ा है तो बाहर की अदालत में नहीं जाना चाहिये । गाँव में कोई न कोई सज्जन होते ही हैं । उनके पास अपना झगड़ा रख कर उनका फैसला मानना चाहिये । सारे गाँव का हिसाब करके उसमें क्या बोना चाहिये वह तय करना चाहिये । आप के गाँव में सब तरह की शक्ति है । अनाज आप तैयार करते हैं, तरकारी आप ही करते हैं, दूध, घी भी आप के यहाँ होता है । इतना होते हुए भी आप भिखारी हैं, क्योंकि ये चीजें आप खा नहीं सकते, उनको बेचना चाहते हैं । और बेचने क्यों हैं ? पैसे के लिये । और पैसा क्यों चाहिये ? बाहर से सारा पक्का माल खरीदने के लिये । अपना कच्चा माल आप बेचते हैं और पक्का माल मोल लेते हैं । इस तरह से आप लोग स्वराज्य का अनुभव नहीं कर सकेंगे ।

सारा गाँव एक कुटुम्ब बने

और एक बात आप को कहनी है। हरेक गाँव में अलग अलग पार्टियाँ होती हैं। उससे गाँव में झगड़े होते हैं। लेकिन सारा गाँव एक कुटुम्ब के जैसा होना चाहिये। कोई आपसे पूछे कि क्या आप काँग्रेसवाले हैं या कम्युनिस्ट हैं या समाजवादी हैं, तो जवाब देना चाहिये कि हम हमारे गाँव के हैं और उस गाँव की सेवा यही हमारा धर्म है। भगवान श्रीकृष्ण के गोकुल में सारा गोकुल एक कुटुम्ब बन गया था उस तरह आप का गाँव गोकुल बनना चाहिये। इस तरह अपने गाँववालों पर प्रेम करना सीखेंगे तो सारा गाँव भगवान का निवास-स्थान बन जायगा।

झुके नहीं, नम्रता रखें

आखिर में एक बात। आप लोग नमस्कार करने के लिये आते हैं और पाव पर सिर झुकाते हैं। आप लोगों को खड़े रह कर ही नमस्कार करना चाहिये। हमको सीखना चाहिये कि हम किसी के आगे इस तरह अपना सिर झुकायेगे नहीं। हमारा आदर और प्रेम हमको प्रकट करना है तो दोनों हाथ जोड़ कर नम्रता से सिर झुका कर खड़े खड़े ही नमस्कार करना चाहिये। पैर तक सिर नहीं झुकाना चाहिए। मैं आप सब को प्रणाम करता हूँ।

बालकौडी, (जि० निजामाबाद)

२४-२-५१

अठारहवां दिन—

: २२ :

सच्चा स्वराज्य

आप मेरा भाषण सुनने के लिये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आये हैं। आप की उत्सुकता मैं समझ गया हूँ। आप शांति से बैठे हैं यह देख कर मुझे खुशी होती है।

स्वराज्य आने पर भी हालत क्यों नहीं सुधरी

आज घर पर बात हो रही थी तब कुछ लोगों ने कहा कि स्वराज्य आया है फिर भी कोई खास फरक हम नहीं देखते हैं। मुझे यह सुन कर आश्चर्य नहीं हुआ। देखिये आप के इस निजाम के मुल्क में करीब मात-आठ सौ साल से दूसरों की सत्ता चली आ रही है। और अब दो साल से आप की खुद की सत्ता आई ऐसा कहते हैं। अब यह स्वतंत्रता आप को किस तरह हासिल हुई है? तो बोले पुलिस अक्शन से। पहले के जमाने में भी इसी तरह राज्यों में फेर-बदल होते थे। एक राज्य जाता था और दूसरा आता था, लेकिन उस से प्रजा में कोई फरक नहीं होता था। तो प्रजा में कोई फरक हुए बौर जो राज्य आता है वह स्वराज्य हो ही नहीं सकता। वह परराज्य है, चाहे उसको चलानेवाले अपने लोग भी क्यों न हो।

जब यहाँ रजाकारों का जुल्म था तब आप लोग भयभीत थे। तो क्या अब आप लोगों ने भय छोड़कर के यह राज्य हाथ में लिया

है ? लोगों का भय तो जैसा का वैसा ही है । आज भी पुलिसें डंडा चलायेगी तो लोग डरेंगे । परकीय सत्ता इसलिये होती है कि लोगों में भय होता है । अगर वह भय कायम है तो स्वराज्य आया कैसे कह सकते हैं ? परकीय सत्ता इसलिये होती है कि लोगों में आपस आपस में एकता नहीं होती । अगर लोगों में आज भी एकता नहीं है तो स्वराज्य आया कैसे कह सकते हैं ? परकीय सत्ता इसलिए होती है कि लोग शराबी होते हैं, व्यसनी होते हैं, पराक्रमहीन होते हैं । अगर आज भी लोग शराबी हैं, व्यसनी हैं, और पराक्रमहीन हैं, तो स्वराज्य आया कैसे कह सकते हैं ? लोगों में परकीय सत्ता इसलिए होती है कि लोग आलसी हैं । अगर आज भी लोग आलसी हैं तो स्वराज्य आया कैसे कह सकते हैं ? इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता कि आप लोगों की स्थिति पहले थी वैसी ही आज है । अगर मुझे कोई कहेगा कि कल रात थी और आज दिन हो गया है फिर भी प्रकाश नहीं है, तो मैं कहूंगा कि दिन नहीं हुआ है बल्कि छोटी सी लालटेन लगी हुई है । तो यही समझो कि पुलिस अँकशन के पहले रात थी, और आज भी रात है, लेकिन जरासी लालटेन लग गयी । लेकिन उतने लालटेन से दिन नहीं होता है । दिन के लिये तो सूर्य का प्रकाश चाहिये जो हर घर में पहुँचता है ।

स्वराज्य का अर्थ

आप के इस गाँव में १२ हजार लोग रहते हैं, लेकिन यहां आपस आपस में सहकार्य से कौनसा काम चल रहा है ? क्या गाँव का शिक्षण आप लोग चलाते हैं ? आप कहेंगे हमारा रक्षण सरकार करती है और शिक्षण हमें सरकार देती है । इस तरह

अगर गाँव का सारा काम हुकूमत ही करती है तो फिर गाँव का स्वराज्य कहाँ रहा ? यहाँ कपड़ा बाहर से आता है, तेल बाहर से आता है तो गाँव में आप क्या करते हैं ? यहाँ बीड़ियाँ बना कर आप बर्बाई भेजते हैं और वहाँ से पैसा लाते हैं । उससे क्या हुआ ? शायद पहले से आप अधिक बीड़ियाँ पीने लगे होंगे । स्वराज्य का मतलब तो यह होता है कि हरेक गाँव अपनी-अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को गाँव में ही पूरी कर लेता है । और इस तरह जो गाँव स्वावलम्बी होते हैं वे एक दूसरे की पूर्ति कर सकें इसलिये सरकार निमित्तमात्र होती है । सरकार का काम यह नहीं है कि गाँव को हर चीज बाहर से ला दे । सब गाँवों का संबंध बना रखने के लिये सरकार है । सरकार का काम हरेक गाँव को स्वावलम्बी बनने में मदद देने का है । मेरी तो व्याख्या यह है कि जहाँ स्वराज्य नहीं होता है वहाँ दुर्गुण होते हैं । गोरी चमड़ी वाले लोग गये और काली चमड़ीवाले आये इससे स्वराज्य नहीं बनता । तो मुझे जब लोग कहते हैं कि स्वराज्य के बाद हमारी स्थिति सुधरी नहीं है तो मैं पूछता हू कि क्या आप के दुर्गुण कम हुए हैं ? अगर हमको यह अनुभव आता है कि पहले से हमारे दुर्गुण कम हुए हैं तो स्वराज्य आया ऐसा समझ सकते हैं । अगर वैसा अनुभव नहीं आता है और चार साल पहले जिन दुर्गुणों में हम थे वे अब भी कायम हैं तो स्वराज्य हमें नहीं मिला है ऐसा समझना चाहिये । इसलिये मुझे आप लोगों को यही कहना है कि अभी स्वराज्य हासिल करना बाकी है ऐसा समझ कर आप जोरों के साथ काम में लग जाइये ।

हरक को दो भाषाओं का ज्ञान हो

अब दूसरी बात जो आज मुझे सूझ रही है वह मैं कहता हूँ ॥ हमारी विधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया है। इसलिये अब हरक को राष्ट्रभाषा का उत्तम अभ्यास करना चाहिये। मैंने तो यह उपमा दी है कि जैसे मनुष्य को दो आंखें होती हैं वैसे हरक हिंदुस्तानी को दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये, एक अपनी मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा। मेरा तर्जुमा करने के लिये जो यहां खड़े हैं उन्होंने हिंदी भाषा का अच्छा अभ्यास नहीं किया है। तो हो यह रहा है कि आपके लिये जो विचार मैं भेजता हूँ उसमें से कुछ आपके पास पहुंचते हैं और कुछ बीच में खतम हो जाते हैं। यह आज का अनुभव ध्यान में लीजिये और जल्दी से जल्दी राष्ट्रभाषा का अध्ययन सब कर लीजिये।

बड़े राष्ट्र की जिम्मेवारी

इन दिनों छोटे-छोटे राष्ट्र टिकते नहीं हैं। हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश ही टिक सकता है। पुराने जमाने में छोटे छोटे राष्ट्र टिकते थे। लेकिन आज जमाना दूसरा आया है। आज बड़े राष्ट्र ही टिक सकते हैं। और आगे तो हम ऐसा स्वप्न देखते हैं कि सारी दुनिया मिल करके एक ही राज्य बन जाय।

तो यह सब ध्यान में लेकर हरक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की कोई भी एक भाषा और अपनी मातृभाषा अच्छी तरह सीखे ॥ सारे भारत को एक माना है तो यह जिम्मेवारी उठानी ही चाहिये ॥

आरमूर (जि० निबामावाद)

२५-३-५१

उन्नीसवां दिन—

: २३ :

हमारे पाप

आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हिंदुस्तानी में ही बोलूंगा और आप मेरे व्याख्यान को समझ लेंगे। नहीं तो अकसर मेरे वाक्यों का तर्जुमा करना पड़ता था तेलगु में, जिसमें भाषण का बहुतसा सार मैं खो बैठता था। लेकिन वह बात आज नहीं होगी और मेरी आवाज सीधी आपके कानों तक और मैं उम्मीद करता हूँ कि हृदय तक, पहुँचेगी।

अभी आप लोगों को सुनाया गया कि हम वर्षा से पैदल-यात्रा के लिये निकल पड़े हैं। शिवरामपल्ली में सर्वोदय संमेलन होने जा रहा है, वहाँ जा रहे हैं। वैसे रास्ते में तो आप का गाँव नहीं आता है, थोड़ा बाजू में है। इसलिये यहाँ आने का मैंने नहीं सोचा था। लेकिन आपके गाँववाले पहुँच गये। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो मैं पिघल गया। और आप लोगों के दर्शन करने के लिये आरमूर से आज १७ मील चल कर पहुँच गया हूँ।

छोटे देहात में क्यों जाता हूँ

अकसर मेरी इच्छा खास कर छोटे छोटे गावों में जाने की होती है। क्योंकि ऐसे छोटे गाँवों में लोग बहुत कम पहुँचते हैं। इसके अलावा पैदल-यात्रा का यह उद्देश्य था कि जिन

देहातो में अक्सर जाना नहीं होता है वहां जा कर वहां की स्थिति देखें। तो आप का गाँव वैसे छोटा भी नहीं था और रास्ते पर भी नहीं था। दोनों लिहाज से यहा आने का मुझे कोई आकर्षण नहीं था। फिर भी आप लोगो के प्रतिनिधियो ने आपका प्रेम मुझे पहुंचाया वह मुझे यहां खींच लाया है। छोटे देहात में जाना होता है तो घटा डेढ़ घटा उस गाँव में मैं घूम लेता हूँ। मेरे कार्यक्रम मे यह भी एक चीज है। बहुत सारे घरों मे जाता हू; वहां की बहनों से बातचात करने का मौका मिलता है। इस तरह काफी प्रेमभाव महसूस होता है। मेरे और गाँववालो के बीच कोई परदा नहीं रहता।

शहर की व्याख्या

अब यह बात शहरों मे तो नहीं होती। शहर मे यह अपेक्षा भी नहीं होती कि सब से परिचय हो। इतना ही नहीं बल्कि मैंने तो शहर की व्याख्या ही यह की है कि शहर वह है जहां मनुष्य अपने पड़ोसी को नहीं पहचानता। अगर आप से पूछा जाय कि आपके पड़ोसी कौन है और वे क्या करते है, और आप उसका जवाब मुझे दे सके तो मैं कहूंगा कि आप दर असल नागरिक हैं ही नहीं। आप देहात के रहनेवाले है। शहर तो वह है जहां एक दूसरे की पहचान नहीं, एक दूसरे की परवाह नहीं, और जहां प्रेम का कोई सवाल ही नहीं। हरेक अपने अपने में मग्न है। अगर दूसरे किसी से संबंध आया तो अपनी गरज से। टिकट घर पर लोग इकट्ठा होते हैं उनके बीच में कोई संबंध

नहीं होता सिवाय इसके कि हरेक को अपनी अपनी टिकट कटानी होती है। वैसे शहर में जो सजुदाय इकठा होता है वह सजुदाय की गरज से नहीं बल्कि अपनी गरज से होता है। तिसपर भी मानवता होती है इसलिये कुछ प्रेमभाव पैदा हो जाय तो लाचारी की बात है।

शहरों में नहीं रहते

एक पुरानी कहानी है। उपनिषदों में वह किस्सा आया है। एक राजा था और उसने किसी ज्ञानी का नाम सुना। राजा का दिल बड़ा था। जब वह किसी ज्ञानी का नाम सुनता तो उससे मिलने की उसको बहुत तीव्र इच्छा हो जाती थी। तो राजा ने अपने सारथी को बुला कर कहा कि “जाओ भाई, फलाने ज्ञानी का नाम मैंने सुना है उसका पता लगाओ। वह कहाँ रहता है। डूँड निकालो।” राजा के हुक्म से सारथी गया और उसने सारी राजधानी दूँटी। लेकिन जिस ज्ञानी को दूँटना था उसका कोई पता नहीं लगा। वह राजा के पास वापिस आया और कहा, “मैंने सब जगह दूँड लिया लेकिन “नाविद इति प्रत्येयाय” —मुझे वह ज्ञानी नहीं मिला।” तो राजा बोला, “अरे मूर्ख तू कैसा है, ज्ञानी जहाँ होते हैं वहाँ दूँटना चाहिये। ज्ञानी क्या कहीं शहर में होते हैं?” फिर वह सारथी जंगल में गया। वहाँ उसको वह ज्ञानी मिला। फिर राजा को आकर सारथी ने यह बात बतलाई। राजा ज्ञानी के पास पहुँचा और बहुत कुछ ज्ञान उस ज्ञानी से उसने हासिल किया। वह सारा उपनिषद में दिया

है। हम लोगों को आश्चर्य होगा कि वह उपनिषद का ऋषि ज्ञान की आशा ही शहर में नहीं करता है। और इधर देखो तो जो भी विद्यालय, हाईस्कूल या कॉलेज आदि खुले हैं सारे शहरोंमें है। मानों सरस्वतीदेवी ने अपने कमलासन को छोड़ कर नगर में ही आसन डाला है। लेकिन उस जमाने में यह बात जितनी सही थी उससे भी आज वह ज्यादा मही है कि शहर में कोई विद्या नहीं है।

शहरों में विद्या का लय

में तो बहुत दफा कह चुका हू कि शहरों में विद्यालय तो बहुत खुले हैं लेकिन वहां विद्या का लय होता है, विद्या का आलय वह नहीं है। आजकल के विद्यालयों में जो विद्या पढ़ाई जाती है वह बिल्कुल ही बेकार है। नागरिकों से जो कुछ आशा करनी है उसके लायक विद्या हाईस्कूल, कॉलेजों में होनी चाहिये, वह वहां मौजूद नहीं है तो वह विद्या किस काम की ? आज कल जो विद्या चलती है वह हमारे काम की नहीं है, उसमें फौरन परिवर्तन होना चाहिये; यू कहते कहते सरदार वल्लभभाई पटेल चले गये। और मैंने तो कई दफा कहा है कि भाई इस तरह की विद्या होने के बजाय न होना बेहतर है। अगर नये ढंग के विद्यालय शुरू करने में देरी लगती है तो कम से कम पुरानी विद्या तो बंद कर दो। चार-छः महीने बच्चों को छुट्टी दे दो, कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो आज जिस तरह स्कूल चलती है उसमें भी चार-छः महीनों की छुट्टी होती है। गरमी की मौसम में

लगातार दो-दो महीने छुट्टी होती है जब कि किसान धूप में अपने खेत पर काम करता है । लेकिन हम मकानों में बैठ कर विद्या का आदान-प्रदान नहीं कर सकते ! इस तरह साल भर में चार-छः महीने छुट्टी लेते हैं और बारह-बारह पंद्रह-पंद्रह साल सीखते रहते हैं । बच्चों पर उनके मां-बाप तालीम के लिये पैसा खर्च करते हैं । और बच्चे बिना काम किये जिंदगी कैसे बसर हो इसकी खोज में रहते हैं । इसमें उनका कोई दोष नहीं है । जो विद्या उन्हें मिली है वह निर्वीर्य है । तो बच्चों के शरीर भी नाजुक बनते हैं । कोई रुहानी याने आत्मिक ताकत मिलती नहीं है, काम की आदत पड़ती नहीं और कोई दस्तकारी सिखाई जाती नहीं । जो उठता है उपदेश देता है कि देश की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता है, और हरेक का काम है कि देश के लिये कुछ न कुछ पैदा करे । इस तरह प्रवचन देनेवाले देते हैं और सुननेवाले सुनते हैं । लेकिन दोनों मिलकर कोई चीज पैदा नहीं होती । चीज तो तब पैदा होती है जब कोई करे । लेकिन करने की तालीम स्कूल में नहीं है । इस हालत में देश का कोई भला यह शहर की तालीम नहीं कर रही है । उससे बेकारी में वृद्धि होती है, मनुष्य के दिल में एक तरह का असंतोष पैदा होता है । इसलिये यद्यपि शहरों में इतने विद्यालय हैं फिर भी देश का भला हो, मानवता ऊंची उठे, दीनों के दुःख मिटें परस्पर सहकार बढ़े, सारा देश वीर्यवान, बलवान हो ऐसा कोई काम हम कर नहीं पाते । और सारे शहर एक तरह से राष्ट्र के लिये भाररूप से हो गये हैं ।

युवानो में सर्वोदय का संदेश सुनने की उत्सुकता

ऐसी निकम्मी तालीम दी जाने के बावजूद मैं जब कभी शहरों में हाईस्कूल या कॉलेजों में गया हूँ और वहाँ बोला हूँ तो आश्चर्य चकित हुआ हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि वहाँ के लड़के सर्वोदय के विषय में मैं जो कहता हूँ वह सुनने के लिये अत्यंत उत्सुक रहते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। हाईस्कूल, कॉलेजों के नवयुवकों में एक ऐसी आकांक्षा काम कर रही है जिससे उनका जी छटपटा रहा है कि कुछ न कुछ करना चाहिये जिससे हमारा देश आगे बढ़े। मानव में रजोगुण और तमोगुण काम करते ही हैं, और इन दिनों इन दोनों का नाच बहुत जोरो से चल रहा है। शिखरखोरी बढ़ी है, आलस्य बढ़ा है शराबखोरी और दूसरे व्यसन बढ़े हैं, एक दूसरे को लूटने का विचार हो रहा है, यह सब हो रहा है। लेकिन इतना होते हुए भी युवानों में एक ऐसी सद्भावना और शक्ति काम कर रही है जो इस बिगड़ी हुई हवा से बिल्कुल अलिप्त है और जिसको अपनी ही कल्पना में विचरने की इच्छा हो रही है। युवानों को लग रहा है कि चाहे साम्यवाद आये, चाहे समाजवाद आये, चाहे सर्वोदय आये, किसी भी तरह से आज जो बुरी हालत है वह जाय। इस तरह की प्रेरणा तरुणों में मैंने देखी है। मैंने सोचा इसका कारण क्या होगा। तो कारण मुझे यही लगा कि इस देश पर भगवान की कृपा हो रही है।

वैसे यह देश एक पुण्यभूमि के तौर पर सारी दुनिया में मान्य है। हम तो कहते ही आये हैं कि “दुर्लभं भारते जन्म”

लेकिन सारी दुनिया कबूल करती है कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी विशेषता है जो दूसरे देशों के इतिहास में कम पाई जाती है। यहाँ हमने अनेक प्रकार की तपस्या की है। यहाँ अनेक खोजें हुई हैं। अनेक तरह के आध्यात्मिक शोध यहाँ हुए हैं। इन दिनों, पश्चिम में जिस तरह वैज्ञानिक और प्रापंचिक शोध हुये हैं वैसे हमारे यहाँ आध्यात्मिक शोध और प्रयोग हुये हैं। यह देश क्या है? यह तो सारी पृथ्वी का एक दर्शन है। “ नाना धर्माणं पृथिवीम् विवाचसम् ” अनेक धर्मवाले और अनेक भाषावाले लोग पृथ्वीभर में फैले हुये हैं और “ माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या .” यह सारी भूमि मेरी माता है और मैं उस भूमि का पुत्र हूँ, यह जो सारी पृथ्वी के लिये वैदिक ऋषि ने कहा था वह इस भरतभूमि के लिये भी उतना ही लागू है। यहाँ के विचारवान और ज्ञानी लोगों ने कभी आप पर भेद नहीं रखा। जिसे संकुचित देशभिमान कहते हैं वह इस भूमि में कभी जन्मा ही नहीं। इसलिये दुनियाभर के लोग यहाँ आये तो उनका बहुत प्रेम से यहाँ स्वागत हुआ है। इस तरह के कई पुण्य इस भूमि में हुए हैं तो परमेश्वर की कृपा उस पर होनी ही चाहिये।

हमारी भूमि के कुछ पाप

लेकिन जैसे इस भूमि में कुछ पुण्य हुए हैं वैसे कुछ पाप भी हुए हैं। और पापों को पुण्य के साथ भुगतना ही पड़ता है। यह नहीं होता कि पांच रुपयों का पुण्य किया और तीन रुपयों का पाप किया तो आखिर दो रुपयों का पुण्य बचा। पाप-पुण्य का हिसाब पैसे जैसा नहीं होता है। अगर पांच रुपयों का पुण्य

किया है तो वह भी अलग से भोगना है और तीन रूपों का पाप किया है वह भी अलग से भोगना है। दोनों को भोगना पड़ता है। एक में से दूसरा बाद नहीं होगा। बहुत लोगों को इस बात का खयाल नहीं होता। वे बहुत पाप करके पैसा कमाते हैं और फिर सोचते हैं कि कुछ दान देंगे, धर्मशाला बांध देंगे तो उस पुण्य से पाप खत्म हो जायगा। लेकिन पाप और पुण्य दोनो अलग से भोगने पड़ते हैं। तो इस पुण्यभूमि में यद्यपि पुण्य काफी हुआ था तो भी पाप भी हुआ था। वह पाप यह कि यहां के लोगो ने उच्च नीच भाव को बढ़ाया। हमारे समाज की रचना में श्रम के लिहाज के खयाल से वर्ण-व्यवस्था का उदय हुआ और इसमें मैं कोई दोष नहीं देखता हू। लेकिन उस वर्ण-व्यवस्था में आगे चल कर उच्च-नीच भाव दाखिल हुए और जितने-जितने परिश्रम के उपयोगी काम थे वे सारे नीच श्रेणी के गिने गये। और वे काम करने वाले मनुष्य भी नीच माने गये। यहां तक कि उनमें से कुछ लोगों को अछूत तक हमने माना। काम करना बेइज्जती समझा गया। ज्ञानी काम नहीं करेगा, भक्त माला जपेगा लेकिन काम नहीं करेगा। संन्यासी काम नहीं करेगा। ब्राह्मण काम नहीं करेगा। इस तरह काम न करने वालों की संख्या बढ़ गई और उनकी इज्जत भी बढ़ गई। जो काम करते थे उनकी संख्या घट गई और उनकी इज्जत भी घट गई। यह बड़ा पाप हमारे देश में हुआ। तो उस पर परमेश्वर की अब कृपा हुई और शताब्दियों से हम लोग गुलामी भुगत चुके।

पापों का प्रायश्चित्त हुआ

अब यह दीखता है कि इस देश ने जितना पाप किया था उसका प्रायश्चित्त उसको मिल चुका ऐसा परमेश्वर को लगा । आखिर परमेश्वर कृपालु तो होता ही है । उसने अपनी कृपा इस देश की तरफ फिर से दिखाई, जो पहले भी थी । इसके सिवाय मैं और कोई कारण नहीं देखता कि हमारे जैसे टूटे-फूटे लोग भी गाँधीजी जैसा नेता निमित्तमात्र बनने पर आजादी हासिल कर सके । मैं तो हमारे लोगो में ऐसी कोई शक्ति नहीं देखता हूँ कि जिसके बल पर हमको आजादी मिली ऐसा हम कह सकते हैं । अगर उस शक्ति का आत्मविश्वास हमें होता तो हिंदुस्तान की आज जो हालत है वह हम नहीं देखते । उसका रंग हमको दूसरा ही दीखता । यह कभी नहीं हो सकता कि स्वराज्य आता है । और लोगों का दुःख, विमनस्कता और मनोमालिन्य जो पहले था वैसा ही बना रहा । लेकिन ऐसा बना है तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छा से ही हम स्वराज्य में दाखिल हुए हैं । इसी कृपा के कारण मैं यह देख रहा कि आज के बिगड़े हुए वातावरण में भी हाईस्कूल और कॉलेजों के युवानों में उच्च आकांक्षा और सद्भावना कुछ अंश में सर्वत्र है ।

साम्ययोग से तरुणों को स्फूर्ति

हम लोग आश्रम में काम करते हैं वहाँ मेरे पास काफी तरुण लोग हैं । बहुत सारे तो हाईस्कूल-कॉलेजों को छोड़ कर आये हैं । और वहाँ आ कर वे क्या करते हैं ? कोई खेती में लग

गये हैं, कोई जमीन खोदते हैं, कोई पानी खींचते हैं, कोई रसोई करते हैं, कोई भंगी का काम करते हैं। हमको कुआं खोदने की जरूरत थी तो आखिर वह भी हमने शुरू कर दिया। जिन तरुणों को उस काम का कोई अनुभव नहीं था वे उस काम को बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। मैं बड़ा ताज्जुब में रह जाता हूँ कि यह प्रेरणा उन जवानों में कहाँ से आयी। तो सिवाय इसके कि यह परमेश्वर की इच्छा है, मुझे और कोई जवाब नहीं मिलता है। और क्योंकि इसमें मैं परमेश्वर की इच्छा देख रहा हूँ तो मेरा उत्साह परमावधि को पहुँचता है। जब मैं हिंदुस्तान की अभी की हालत के विषय में लोगों में निराशा देखता हूँ तो उस निराशा का जरा भी स्पर्श मुझे नहीं होता। क्योंकि मैं देखता हूँ कि यद्यपि काफी अंधकार फैला हुआ है, फिर भी उसको तोड़नेवाली शक्ति का जन्म हो रहा है, याने युवानों में बलवान प्रेरणा काम कर रही है। उनकी आत्मा उछल रही है। वे देख रहे हैं कि कौन ऐसा मिलता है जो हमें मार्ग बतायेगा जिससे कि सारे हिंदुस्तान में साम्ययोग दीख पड़ेगा। वस साम्ययोग का नाम लीजिये और तरुणों का उत्साह देखिये। इसीलिये जिन्होंने त्रिलकुल परिश्रम नहीं किया था वे परिश्रम के लिये तैयार हो रहे हैं। और इस तरह का काम जहाँ भी आप शुरू करेंगे वहाँ जवान लोग उत्साह से काम करने के लिये सामने आते हैं ऐसा दृश्य आप को दीख पड़ेगा।

मेरा खास दावा

इसलिये मैं बहुत दफा काँग्रेस वालों को सुनाता हूँ। उनको इसलिये सुनाता हूँ कि वह एक बड़ी जमात है। उसके पीछे तपस्या का भाव है। पचास-साठ साल के इतिहास में काँग्रेस ने बहुत भारी तपस्या की है। इस युग में कई महान् महान् पुरुष हमारे देश में पैदा हुये और उन सबका प्रयत्न काँग्रेस के द्वारा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि काँग्रेस ऐसी संस्था बनी कि जिसका सपर्क सारे देश से आ गया। इसलिये मैं काँग्रेसवालों को सुनाता हूँ। लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी सुनाता हूँ। समाजवादियों में मेरे कई मित्र हैं। वे जानते हैं कि यह एक ऐसा मनुष्य है जो भेद-भाव नहीं रखता है। मेरा ऐसा खास दावा है कि मैं अपने को किसी पक्ष का कभी समझता ही नहीं हूँ। मेरे सिर पर किसी तरह का लेबल कभी चिपका ही नहीं। मेरा दिमाग किसी वाद के पीछे पागल नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ सत्य का थोड़ा अंश भी दीख पड़ता है वह ग्रहण करने के लिये मैंने अपनी बुद्धि को हमेशा स्वतंत्र रखा है। इसलिये समाजवादियों में भी मेरे कई मित्र पड़े हैं। तो मैं उनको भी सुनाता हूँ और सबको सुनाता हूँ कि अभी वाद-बिवाद छोड़ दीजिये। वाद के लिये अभी मौका नहीं है। देश अभी ही स्वतंत्र हुआ है। जहाँ देश स्वतंत्र होता है वहाँ कई तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। उनमें कुछ शक्तियाँ प्रतिक्रियावादी भी होती हैं। उनका मुकाबला सबको मिल कर करना चाहिये। जब इनका मुकाबला होगा और देश का नैतिक

स्तर चाहिये वैसा बनेगा उसके बाद अपने अपने वादो के लिये अवकाश रहेगा । तब तक वादो को छोड़ो और सारे लोगों की सेवा में लग जाओ ।

लागों की सेवा कैसे होगी

और सेवा व्याख्यान श्रवणादि से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष शरीर-परिश्रम से होगी । आज हिंदुस्तान के हरेक नागरिक से, और ग्रामीण से, चाहे वह पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा कोई भी हो, यह आशा की जाती है कि उस से जो भी प्रयत्न बन सकेगा अपनी मातृभूमि के लिये उसे करना चाहिये । अगर यह नहीं होता है तो हमारे देश की समस्या हल नहीं होगी । लोग मुझे पूछते हैं कि सर्वोदय क्या है ? मैं कई तरह के अर्थ समझाता हूँ । एक अर्थ यह भी समझाता हूँ कि सर्वोदय याने सब का प्रयत्न । एक बच्चा भी ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जिसने देश के लिये कुछ न कुछ काम नहीं किया है । इसीलिये गांधीजी ने हरेक को दीक्षा दी कि सूत कातो । और भी दूसरे काम करो । लेकिन कोई इतना कमजोर है कि दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता तो वह भी थोड़ा सूत अगर कात लेता है तो देश की पैदावार में उतनी वृद्धि होती है । जैसे बूंद बूंद से नदी बनती है वैसे हरेक मनुष्य से इस वक्त परिश्रम होना अत्यंत जरूरी है ।

मैं तो समझता हूँ कि आप ऐसा कोई कार्यक्रम प्रत्यक्ष पैदावार का निकालो । गरीबों से एकरूप होने का कार्यक्रम

निकालो कि जिससे अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण यह सारा भेद मिट जाय, किसी प्रकार का उच्च-नीच भाव न रहे। इस तरह का कार्यक्रम शुरू करो तो कोई बाद का सवाल ही पैदा नहीं होगा और आप देखेंगे कि तरुणों को कितना उत्साह आता है और कितनी तीव्र प्रेरणा से वे उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं।

तो मैं सब से पहले कॉंग्रेसवालों को सुनाता हूँ फिर समाजवादियों को सुनाता हूँ और बाद में और भी जो बहुतसे वादी पड़े हैं उनको सुनाता हूँ कि भाइयो, तुम्हारे जो भी अलग विचार हैं वह सारे रखो तुम्हारे पास। मैं यह नहीं कहता कि उनको छोड़ दो क्योंकि जो विचार तुमको अच्छे लगते हैं और तुम्हारे दिल में बैठे हैं वे आप कैसे छोड़ेंगे ? और छोड़ना भी नहीं चाहिये। लेकिन उन विचारों को ध्यान में रखते हुए भी यह समझो कि फिलहाल देश को शरीर-परिश्रम की जरूरत है और भेदभाव मिटाने के कार्यक्रम हाथ में ले लो। तो देखेंगे कि कितनी महान् शक्ति पैदा होती है। हमने थोड़ा करके देखा है जिससे हमको अनुभव आया है कि कितनी स्फूर्ति उससे मिलती है। देखनेवालों और सुननेवालों को स्फूर्ति मिलती है तो प्रत्यक्ष करनेवालों को कितनी मिलती होगी इसका अंदाजा आप लगाइये।

आज आपके शहर में आया तो यह विचार सहज सूझा कि शहर और देहात में भेद क्यों होना चाहिये ? शहरों को देहात की सेवा में लग जाना चाहिये। देहातियों में शहरों को मदद

करने की प्रेरणा होनी चाहिये । इस तरह एक दूसरे को एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा क्यों नहीं होनी चाहिये ? ऐसी प्रेरणा यदि होती है तो यह सारा भेद मिट जायगा और सारे मिलकर हिंदुस्तान की सेवा में लग जायेंगे । भगवान ने हरेक को अलग अलग शक्ति दी है । इस तरह की विषमता दुनियाँ में है इसमें दोष नहीं बल्कि लाभ है । अगर संगीत में केवल 'सा' 'सा' 'सा' ऐसा एक ही स्वर होता, 'ग' 'म' आदि कुछ नहीं होते तो संगीत ही नहीं बनता । लेकिन भिन्न-भिन्न स्वर होते हुये भी हरेक में भिन्न भिन्न गुण है इसलिये मधुरता होती है और सब मिलकर सुंदर संगीत बनता है । वैसे शहरवालों में कुछ शक्तियाँ पड़ी हैं, लेकिन वे सारी एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं तो उन शक्तियों का जोड़ नहीं होता बल्कि घटती ही होती है । दस के विरोध में अगर आठ खड़े होते हैं तो दोनों मिल कर दो ही शक्ति रह जाती है । लेकिन दस के साथ अगर आठ लगते हैं तो शक्ति अठारह बनती है । यह सीधी गणित की बात है । तो हमारे देश में शक्ति काफी पड़ी है । लेकिन उस शक्ति का साक्षात्कार हमें तब होगा जब कि वह सारी एक दिशा में लग जाय । नदी का पानी जब कई जगहों से एक दिशा में आता है तो शक्तिशाली नदी बनती है । लेकिन पानी अगर इधर उधर दौड़ता चले और नदी न बने तो वह सारा का सारा पानी कहीं न कहीं गायब हो जायगा । उसमें से कोई विशेष महान प्रवाह बनता हुआ दीख नहीं पड़ेगा । वैसे हममें शक्ति कम नहीं है ।

लेकिन वह सारी अगर एक दिशा में लग जाती है तो उसका प्रकाश पड़ेगा, उसका स्वरूप दीख पड़ेगा, उसके परिणाम का अनुभव आयेगा ।

मेरे भाइयो, मैंने आपको काफी सुनाया । अगर आप के दिलों तक मेरी बात गई है तो कुछ न कुछ उत्पादक शरीर-परिश्रम मे लग जाइये और ऊंच-नीच भाव मन में से बिल्कुल निकाल दीजिये । यह मेरी आप से प्रार्थना है ।

निजामाबाद

२६-३-५१

बीसवाँ दिन—

: २४ :

सज्जनों का समाज

कुष्ठ-रोगियों की सेवा

आप के इस गांव मे कोई पंद्रह-बीस साल पहले मै एक ब्राह्मण आया था । लेकिन यहां गांव के भतिर नहीं आया । कुष्ठ-रोगियों का दवाखाना देखने के लिये आया था जो उन दिनों बहुत मशहूर था । हिंदुस्तान भर मे इस तरह के कुष्ठ-रोगियों के दवाखाने ईसाई भाइयों ने चलाये है । वैसे हिंदुस्तान मे ईसाइयों की संख्या बहुत कम है । और जो बीमार होते है उनमें ज्यादातर हिंदू-मुसलमान ही होते है, ईसाई कम होते है । उन दिनों हमारे मन मे विचार आता था कि हम ऐसी सेवा क्यों न करे ? वैसे हम लोग दूसरी सेवा तो करते थे, जैसे हरिजन सेवा, खादी आदि । लेकिन कुष्ठ-रोगियों की सेवा का काम हाथ मे नहीं लिया था । जब इस सेवा के क्षेत्र मे आने की इच्छा हुई तो हममे से एक इस काम के लिये तैयार हो गये । उनकी तीव्र इच्छा हुई कि यह काम करें । तब वर्षा में हमने यह काम शुरू कर दिया । उस दृष्टि से उस समय वह दवाखाना मैंने देखा था और देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी । हमारे मित्र श्री मनोहरजी ने यह काम शुरू किया । वे खुद डॉक्टर नहीं थे । लेकिन इस काम के लिये जरूरी डॉक्टरों का ज्ञान

उन्होंने प्राप्त किया। इतने दिन उन्होने अकेले ही काम किया। वैसे बर्धा के कुछ डॉक्टरों ने भी उनकी मदद की।

लेकिन अब वहाँ दो अच्छे कार्यकर्ता इस काम के लिये मिले हैं। बीमारों की व्यवस्था भी अच्छी है। गाधीनिधि वालों ने भी तय किया है कि उस निधि से इस काम को कुछ मदद पहुँचाई जाय। क्योंकि महात्मा गांधी ने जो रचानात्मक कार्य बताये हैं उनमें इस काम का भी समावेश है। हम आशा करते हैं कि वह काम अब ठीक चलेगा।

सेवकों की कमी

लेकिन भारत में सेवकों की बहुत कमी है। और यह सेवकों की कमी हमारे हर काम में बाधा डाल रही है। मानों फसल तो बहुत ज्यादा है और काटनेवालों की कमी है। हमारे देश में आज तरह-तरह के सेवकों की जरूरत है। आज तक स्वराज्य नहीं या तो वह प्राप्त करने में कार्यकर्ताओं की शक्ति लगी थी। लेकिन अब स्वराज्य मिलने पर कार्यकर्ताओं को सेवा के काम में लग जाना चाहिये।

सेवकों का काम

भारत देश में केवल यही एक रोग नहीं है। और भी बहुत रोग हैं। इन सब रोगों से लोगों को मुक्त करना सेवकों का काम है। लोगों को अच्छा खाने को भी नहीं मिलता। अच्छी खुराक के अभाव में रोगों की बन आती है। तो रोगों की भी एक समस्या है। और दरिद्रता की भी एक समस्या है। फिर दरिद्रता की समस्या के साथ व्यसनो की भी समस्या है। जिधर देखो उधर शराबखोरी

चल रही है। इधर इस मुल्क मे तो लोग शराब खूब पीते दीखते हैं। सब को शराबखोरी से मुक्त करना हमारा काम है। मतलब यह कि जिधर देखो उधर सेवा का काम पड़ा ही है। इसलिये सेवा में फौरन लग जाना चाहिये। काँग्रेसवालों को और दूसरे जो सेवक है उनको भी।

शराब के विरुद्ध प्रचार की आवश्यकता

पुराने जमाने में काँग्रेस पिकेटिंग द्वारा शराब के विरुद्ध प्रचार करती थी। अब तो काँग्रेस का ही राज्य है, लेकिन सरकार को लगता है कि शराबबंदी से सरकार की आमदनी बंद होगी और लोग तो छिप छिप कर चोरी से शराब पीते ही रहेंगे। इसलिये कार्यकर्ताओं का काम है कि चित्रों और व्याख्यानो के जरिये शराब की बुराइयो को लोगों के सामने रखें। जब ऐसे प्रचार से वातावरण तैयार हो जायगा तो गाँव गाँव मे प्रस्ताव पास करके सरकार को शराबबंदी के लिये कानून बनाने की बात हम कह सकते है। याने इधर ज्ञान-प्रचार द्वारा और उधर कानून द्वारा यह काम करना होगा।

जो व्यसन लोगों मे सालों से घुसा हुआ है उसे निकालने मे तकलीफ तो होगी; लेकिन यह बात भी सही है कि हमारे सोरे देश में वातावरण शराबखोरी के लिये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। यद्यपि सब लोग इसके विरोध मे हैं फिर भी कुछ जातियां, जैसे हरिजन आदि, शराब अधिक पीती हैं। इसलिये केवल कानून से यह काम हो, ऐसा नहीं मानना चाहिये। हम लोगों को प्रचार भी

काफी करना चाहिये । और ये जो प्रचारक होंगे वे केवल प्रचारक नहीं होंगे बल्कि गाँवों की विविध सेवा करनेवाले कुशल सेवक होंगे । अगर वे ऐसा करेंगे तो आप को यहां कम्युनिज्म का जे डर लगता है उसको भी वे रोक सकेंगे । क्योंकि आखिर कम्युनिस्टो का जो हिंसक तरीका है वह हमारे देश को कभी पसंद नहीं आ सकता । फिर भी क्योंकि देश में गरीबी है, लोग उनकी बात मान लेते हैं । अगर हम लोग देहातो में चले जायँ और उनकी सेवा में लग जायँ तो उन्हें महसूस होगा कि काँग्रेसवाले हमारी सेवा में लग गये हैं । इस दृष्टि से सेवा के बारे में यह डिचपल्ली का दवाखाना हमें गुरुरूप बना है । दूर दूर से अंग्रेज लोग आते हैं और हमारी सेवा करते हैं यह क्या हमारे लिये शर्म की बात नहीं है ? काँग्रेसवाले अगर आइंदा इस तरह सेवा के काम में नहीं जुट जायेंगे तो काँग्रेस खतम होगी । यह तो मैंने सेवकों के लिये कहा । किंतु गाँववालों को भी चाहिये कि वे भी खुद अपनी सेवा करें ।

सज्जनों का समाज

लोग यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां सेवक नहीं हैं । जंगल के जानवर भी शेर आदि हिंसक पशुओं से बचने के लिये आपस में झुंड बना कर रहते हैं, और एक दूसरे की मदद करते हैं । आप लोग तो आखिर मनुष्य हैं । अगर आप प्रेम से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो गाँव की रक्षा सहज कर सकते हैं । जैसे हम अपने परिवार की सोचते हैं वैसा सारे गाँव की भी सोचने की आदत डालनी चाहिये । लेकिन अपने परिवार के बाहर हम

सोचते ही नहीं। सालों से यही आदत पड़ी है। इसलिये आप लोगों को गाँव में सज्जनों का एक समाज बनाना चाहिये। जानबूझ कर मैंने इसे 'समाज' नाम दिया है। याने यह जो समाज बनेगा, वह किसी तरह का अधिकार नहीं चाहेगा। वह सिर्फ सेवा करना चाहेगा।

गाँव में दुर्जन भी होते हैं। आपम आपस में संघ करते हैं। लेकिन सज्जन लोग ऐसा संघ नहीं करते। हरेक सज्जन अकेला अकेला काम करता है इसलिये सज्जनों की शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। इसलिये हम लोगो ने सर्वोदय-समाज कायम किया है। ऐसा सज्जनो का समाज हर गाँव में बनना चाहिये फिर यह सोचेगा कि गाँव की बुराइयो का नुकाबला कैसे किया जाय ? इस समाज को चाहिये कि सारी समस्याओं पर सोचे। यही सज्जनसंघ का काम होगा। ऐसा संघ आप अपने गाँव में कायम करेंगे और गाँव की सेवा करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ।

डिचपल्ली

ता. २७ ३-५९

इक्कीमवाँ दिन—

: २५ :

गाँव स्वर्ग-भूमि है

हम भी देहात में रहते हैं

हम लोग वर्धा से पैदल यात्रा में आ रहे हैं। जैसे वर्धा तो एक बड़ा शहर है। लेकिन हम लोग वर्धा में नहीं रहते। वर्धा के नजदीक छोटे देहात में हम रहते हैं। आप का जैसा यह छोटा गाँव है वैसा हमारा भी एक छोटा गाँव है। महात्मा गांधी वर्धा में रहे यह सब जानते हैं। लेकिन वे वर्धा शहर में नहीं बल्कि वर्धा से नजदीक एक छोटे गाँव में रहे। जैसे पहले वे वर्धा आये। फिर उन्होंने कहा कि हमें शहर में नहीं रहना है, बल्कि गाँव में रहना है तो कोई गाँव ढूँढो। फिर वर्धा से चार-पाँच मील दूर एक छोटा गाँव ढूँढ लिया। और उस गाँव का नाम सेवासाम रखी। उस गाँव में वे दस-बारह साल रहे। उन्होंने सारे देश का काम उस छोटे गाँव में बैठ कर किया। वहाँ ही बड़ी बड़ी समस्याएँ खुल गईं जो सारे देश का काम करती हैं। आप जानते हैं कि बड़े लोग तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। कोई हैद्राबाद में रहेगा कोई बंबई रहेगा तो कोई दिल्ली रहेगा। हम सब महात्मा गांधी को बड़ा मनुष्य कहते हैं। लेकिन उन्होंने छोटे गाँव में रहना पसंद किया। उनको मिलने के लिये बड़े बड़े लोग

आते थे तो उनको भी वे देहात में घसीट लाते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हिंदुस्तान के गरीब लोग गाँवों में रहते हैं तो उनकी सेवा के लिये गाँवों में जाओ। उनकी आज्ञा और शिक्षण के मुताबिक हम लोग भी छोटे छोटे गाँवों में दस-दस पंद्रह-पंद्रह सालों से रहते हैं।

वैकुण्ठ की व्याख्या

छोटा गाँव याने स्वर्गभूमि है। लेकिन स्वर्ग को भी मनुष्य नरक बना सकता है। हम आज सुबह आपका गाँव देखने के लिये आये थे। यहाँ लोगों में प्रेम बहुत देखा। स्वर्ग और वैकुण्ठ तो प्रेम को ही कहते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ वैकुण्ठ है। मैंने देखा कि आप के इस गाँव में प्रेम बहुत है। तो यह एक स्वर्ग हो सकता है। लेकिन उस प्रेम के साथ ज्ञान भी चाहिये, और स्वच्छता भी चाहिये, तब स्वर्ग बनता है। तो जहाँ प्रेम है, ज्ञान है और स्वच्छता है वहाँ वैकुण्ठ आ गया। आपके घरों में तो कुछ स्वच्छता देखी लेकिन गाँव काफी गंदा था। तो सब लोगों को मिल कर रोज कुछ न कुछ गाँव की सफाई का काम करना चाहिये। हमारे यहाँ छोटे छोटे गाँवों में सफाई का काम चलता है। एक रोज पुरुष काम करते हैं, एक रोज स्त्रियाँ काम करती हैं और एक रोज बच्चे काम करते हैं, इस तरह सफाई का काम बाँट लिया गया है। इस तरह सारा गाँव साफ करने की तालीम उस गाँव को मिल रही है। यह नहीं हो सकता कि आप का गाँव साफ करने के लिये शहर से कोई मेहतर आ जाय। आप के घर की स्त्रियाँ जिस तरह घर का सफाई का काम करती हैं

वैसे सब गाँववालों को मिल कर अपने गाँव की सफाई करनी चाहिये । जब गाँव स्वच्छ होगा तो अपना हृदय भी स्वच्छ होगा । हमें अगर अमंगल जगह में बैठने की आदत पड़ जाय तो हमारा चित्त भी अमंगल बनता है । इसलिये हमारे पूर्वजों ने तालीम दी है कि ध्यान या पूजा करनी है तो पहले जगह साफ कर लो । सफाई के लिये पैसे की भी जरूरत नहीं होती । जरूरत है परिश्रम की । इस तरह आप गाँव के बड़े लोग, स्त्रियाँ और छोटे बच्चे सफाई के काम में लग जायेंगे तो अपना गाँव वैकुण्ठ बन जायगा ।

गाँव की रक्षा गाँव ही करे

मैंने सुना कि इस गाँव में एक साहूकार रहता था । वह डर के मारे गाँव छोड़ कर दूसरे गाँव में रहने गया है । बड़े दुख की बात है कि किसी को गाँव छोड़ कर जाना पड़े । हमारे गाँव का मनुष्य कैसा भी क्यों न हो अपना मनुष्य है । तो हम सबको उसकी रक्षा करनी चाहिये । अगर हमारा किसी से झगडा है तो हम उसके साथ प्रेम से झगड़ेंगे । लेकिन उसकी रक्षा तो गाँव में जरूर होगी । किसी के शरीर को जरा भी तकलीफ नहीं पहुँचने देंगे । इस तरह गाँव की रक्षा की जिम्मेवारी हमारी है । जरा कहीं भय माहूम हुआ तो लोग पुलिस को बुलाते हैं । अब पुलिस गाँव में आकर क्या करेगी ? वह भी दूसरों को छूटती है । छूटनेवालों ने गाँव को छूट लिया । उसके बचाव के लिये पुलिस आये तो उन्होंने भी गाँव को छूट लिया । तो आप को पुलिस की आशा नहीं रखनी चाहिये और अपने गाँव की रक्षा खुद करनी चाहिये । गरीब लोगों

से ही सरकार को पैसा मिलता है। वह पैसा अगर पुलिस पर ही खर्च होगा तो आपके हित के लिये सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। आपको सरकार से कहना चाहिये कि हमारे गाँव में पुलिस मत भेजो। हमारी रक्षा करने के लिये हम समर्थ हैं। हमने जवान लोगों की सेना बनाई है। गाँव में अगर कोई दुर्जन भी रहा तो उसका भय नहीं मालूम होना चाहिये। दुर्जन को भी हमे प्रेम से जीतना है। हमारे गाँव का भाई हमारे घर का मनुष्य है। अगर लड़का ठीक बर्ताव नहीं करता है तो क्या माता उसको घर से निकाल देती है? वह तो उसको प्रेम से जीतेगी। उसी तरह गाँव के सब लोगों को हमे प्रेम से सीधे गस्ते पर लाना है। लोग कहते हैं कि दुर्जन पर हम प्रेम करते हैं तो वह और भी दुर्जन बनता है। लेकिन यह खयाल गलत है। अगर कहीं अधिकार है और उसमें हम दीपक लाते हैं तो क्या अधिकार ज्यादा हो जाता है? इस बात का बहुत अनुभव आ चुका है कि सज्जनता के सामने दुर्जन की बुद्धि भी शुद्ध होती है।

शिक्षण का जिम्मा गाँववाले उठायें

आप के गाँव में एक बहुत अच्छी बात हमने देखा, जो हमारी तरफ उत्तर हिंदुस्तान में नहीं है। किसी देहात में अगर हम सभा करते हैं तो आप के यहाँ स्त्रियाँ भी बहुत आती हैं। लेकिन वहाँ तो पुरुष ही पुरुष आते हैं। बहुत सी स्त्रियाँ तो परदे में रहती हैं तो सूर्य का दर्शन भी बिचारी को नहीं होता। आप के यहाँ स्त्री, पुरुष दोनों प्रेम से एक जगह आते हैं और ज्ञान सुनते हैं,

यह अच्छा है। गाड़ी में दो पहिये होते हैं, जैसे संसार की गाड़ी के भी स्त्री और पुरुष ये दो पहिये हैं। दोनों को ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है, और समान आवश्यकता है। लेकिन मैंने सुना है कि आप के गाँव में जो स्कूल चलता है उसमें केवल लड़के ही जाते हैं, लड़कियाँ नहीं जाती। लेकिन लड़कियों को भी अच्छी तालीम मिलनी चाहिये। मैं जानता हूँ कि गरीब लोगों के लड़के और लड़कियाँ स्कूल में नहीं जा सकतीं, उनको घर में काम रहता है। तो मैं कहता हूँ कि गाँव में एक घंटे की स्कूल चलनी चाहिये। वह स्कूल सरकार नहीं बल्कि गाँव का पढ़ा-लिखा आदमी चलायेगा। उसके लिये पैसे भी नहीं लगेंगे। वह आदमी प्रेम से रात को एक घंटा सिखायेगा और दिन में भी एक घंटा सिखायेगा। अभी गोदावरी के तीर पर सोन नाम का गाँव है वहाँ, मैं गया था। वहाँ के लोगो से मैंने कहा कि प्रेम से एक घंटा सिखाने के लिये तैयार हो जाइये। वहाँ पर जैसे लोग तैयार हुए और मेरे जाने के बाद एक घंटे की पाठशाला वहाँ शुरू हो गई है। तो जैसे उस गाँव में हुआ है वैसे आप के गाँव में भी हो सकता है।

सहकारी दूकान गाँव में होनी चाहिये

मैंने पूछा इस गाँव में दूकाने कितनी हैं। तो कहा गया कि तीन-चार हैं। लेकिन ये दूकाने खानगी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप के गाँव में सब लोगो की एक दूकान होनी चाहिये। चार-चार पाँच-पाँच रुपयों का शेअर बनाइये। इस तरह सब के पैसे से दूकान करेंगे तो आप को अच्छा माल मिलेगा और कोई

किसी को ठगोना नहीं। अगर हरेक घर से चार-आठ या दस रुपये मिल जाते हैं तो तीन-चार हजार रुपयों की दूकान हो सकती है। इस तरह की बड़ी दूकान अगर गाँव में चले तो सब को ठीक भाव से माल मिलेगा। एक बच्चा भी उस दूकान पर माल खरीदने जायगा तो उसको ठीक भाव से ही माल मिलेगा। वह दूकान आपके गाँव की होगी। आप सब लोगों का उस पर हक होगा। उसमें अगर कोई लाभ हुआ तो वह भी आप सब लोगों को मिलेगा। मैं जानता हूँ कि देहात के लोगों के पास धन कम है। लेकिन जो थोड़ा सा है वह इकट्ठा करेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। देहात में धन कम है लेकिन शरीर-श्रम करने की शक्ति बहुत है। तो उसका उपयोग करो और सब मिल कर गाँव का काम करो इतना ही मुझे कहना है। मेरा आप लोगों को प्रणाम।

कलवरल, (जि० निजामाबाद)

२८-३-५१

बाईसवाँ दिन—

: २६ :

मूर्ति गुण चिन्तन का साधन

आज पैदल यात्रा में मैं आपके गाँव आ पहुँचा हूँ । हम सब जा रहे हैं शिवरामपल्ली में सर्वोदय संमेलन के लिये । यहाँ आपने मुझ से एक काम लेना चाहा । यहाँ पर गांधीजी की मूर्ति का उद्घाटन आप मेरे हाथ से करवाना चाहते हैं । तो इस काम को मैं कुछ संकोच के साथ करता हूँ ।

चित्र से प्रेरणा

यों गांधीजी का दर्शन आप लोगों के नेत्रों को होता रहेगा तो यह खुशी की बात होनी चाहिये । लेकिन संकोच भी मुझे इसमें हो रहा है । कारण उसका यह है कि हम चित्र को खड़ा कर देते हैं लेकिन उस चित्र का जो भी हमारे मन के सामने भाव होना चाहिये वह अति परिचय से मिट जाता है । मैंने बहुत बार यह अनुभव किया है कि लोग अपने घरों में अच्छे अच्छे चित्र तो ग्व देते हैं लेकिन चित्र का उपयोग मच्छ्रो को होता है वहाँ रहने के लिये । इस तरह अगर चित्रों का हमारे जीवन में ठीक उपयोग हम नहीं करते हैं तो उन चित्रों के होने के बजाय न होना बेहतर है । वास्तव में जिस भावना से चित्र खड़ा किया जाता है

वह भावना रोज द्विगुणित होनी चाहिये । आप देखते हैं कि नदी शुरू तो होती है छोटे आकार में लेकिन दिन ब दिन उसका पानी बढ़ता जाता है । इसी तरह हमारी भावना भी बढ़ती रहनी चाहिये ताकि रोज वह बढ़ती जाय । लेकिन शरीर तो जड़ रहता है इसलिये उसको बार बार प्रेरणा देनी पड़ती है । अगर हमने गेंद का एक दफा गति दे दी तो वह कायम नहीं रहती वह कम होती जाती है । इसलिये फुटबॉल खेलने वाले हमेशा उसको गति देते रहते हैं । तो आज यदि हम शुभ भावना के साथ गांधीजी के चित्र का उद्घाटन कर देते हैं, तो कल हमें अपनी भावना में और भी वृद्धि करनी चाहिये ।

चित्र का उपयोग

वैसे हिंदुस्तान में मूर्तियाँ और देवता कम नहीं है । लेकिन उन देवताओं का हमारे जीवन में कोई खास उपयोग नहीं होता । इस तरह सत्पुरुषों की मूर्तियों को बेकार नहीं बनाना चाहिये । अगर हमारे सामने हमने एक मूर्ति रखी है तो उसके गुणों का ध्यान और चिंतन हमें करना चाहिये । और हमें सोचना चाहिये कि वह भी हम जैसा ही एक सामान्य पुरुष था और अपने पराक्रम से महा-पुरुष बना था । अगर अपने मन में हम यह मान लेते हैं कि महापुरुष एक वर्ग के थे और हम दूसरे वर्ग के हैं तो ऐसे चित्रों का हमारे लिये उपयोग नहीं होगा । याने विचार यह होना चाहिये कि हम भी प्रयत्न करेंगे तो उनके गुणों का हमें भी अनुभव आ

सकता है। मैंने एक घर में गांधीजी का चित्र देखा। उसमें गांधीजी चरखा कात रहे थे। मैंने उस घरवाले भाई से पूछा कि क्या आपके घर में चरखा चलता है? तो उन्होंने कहा कि नियमित तो नहीं चलता, कभी कभी चलता है। फिर मैंने सोचा कि यह गांधीजी का चरखेवाला चित्र हम अपने घर में रखेंगे और चरखा नहीं चलायेंगे तो क्या दशा होगी? फिर तो ऐसी दशा होगी कि हमारे घर में चित्र तो रहेगा गरुड़वाहन वाले विष्णु का, लेकिन हम तो गरुड़ पर नहीं बैठते हैं। वैसे अगर सोचेंगे कि गांधीजी के लिये तो चरखा वाहन हो गया लेकिन हमारे लिये वह वाहन नहीं हो सकता। इस तरह सोचेंगे तो उस चित्र से जो लाभ हमें होना चाहिये, वह नहीं होगा।

अहिंसा का विकास

देखिये गांधीजी के प्रयत्नों से और उनके शिक्षण से हमको स्वराज्य तो मिल गया। लेकिन जहाँ स्वराज्य हाथ में आया वहाँ भगवान ने गांधीजी को हम में से उठा लिया। तो भगवान अब हमारी परीक्षा कर रहा है। वह देखता है कि इन लोगों ने गांधीजी का नाम लिया, उनके पीछे चलने का दावा किया, अब उनके बाद ये क्या करनेवाले हैं? वह देखता है कि गांधीजी की तालीम अगर ये लोग दर असल समझें हैं तो अब गांधीजी की इनको जरूरत नहीं है। और अगर उनकी तालीम हम लोगों के दिल में नहीं पड़ चुकी है तो गांधीजी को जिंदा रखने से कोई लाभ नहीं है। मैं

तो परमेश्वर की यह कृपा समझता हूँ कि वह मौके पर सत्पुरुषों को भेजता है और मौके पर उनको उठा लेता है। इसमें तो मैं भगवान की दया ही देख रहा हूँ। वह गांधीजी की जो तालीम थी उसको हमारे द्वारा प्रचलित करना चाहता है। अहिंसा और सर्व भूतों के लिये प्रेम, यह था गांधीजी का दिया हुआ शिक्षण। अहिंसा का यह सिद्धांत ही ऐसा है कि उसके विकास के लिये पूरी स्वतंत्रता चाहिये। मनुष्य के चित्त पर कोई दबाव नहीं होना चाहिये। अब जब कि गांधीजी को भगवान ले गया तो हम लोगो को पूरी आजादी है कि हम अपनी अक्ल से सोचें और अहिंसा का अपने जीवन में विकास करें। मेरे जैसे लोग जो कि उनके साथ रहे और उनके मार्ग पर चले वे अब क्या करते हैं। यह आप देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ इसके आप साक्षी हैं लेकिन जैसे गांधीजी के विचार के मुताबिक मुझे चलना है, वैसे आपको भी चलना है। तो आप मुझे देखिये, मेरे साक्षी बनिये और मैं आपको देखूंगा, मैं आपका साक्षी बनूंगा। इस तरह आप और मैं दोनों एक दूसरे के साक्षी बनेंगे, एक दूसरे को मदद देगे तो अहिंसा बढ़ेगी।

प्रजा ही राजा

आप देखते हैं कि प्रजा हमेशा सरकार की तरफ ताकती रहती है। पहले की सत्ता जुल्मी थी और आज की सत्ता अच्छी है, तो सत्ता का फरक हुआ। उसमें प्रजा के गुण में कोई फरक नहीं।

हुआ। अगर राजा अच्छा रहा तो वह प्रजा को सुख देता है और राजा बुरा रहा तो प्रजा को दुःख रहता है। सुख और दुःख का फरक वह करता है। लेकिन राजा पर ही जहां प्रजा का आधार है वहां प्रजा में स्वराज्य तो तब होगा जब हम में से हरेक यह महसूस करेगा कि मैं ही अपना राजा हूँ और मैं ही अपनी प्रजा हूँ। छः सौ साल हुए हैद्राबाद में प्रजा के हाथ में सत्ता नहीं रही। तो उसका कारण क्या था? कारण यही समझना चाहिये कि हम लोगों में कोई ऐसे दोष हैं जिनके कारण हम स्वतंत्र नहीं बन सके हैं।

स्वराज्य का अनुभव

देखिये जो डर जनता में पहले था वह आज भी मौजूद है और जनता निर्भय नहीं है। तो स्वराज्य क्या मिला? जो व्यसन और आलस पहले था वही अगर आज भी रहा तो स्वराज्य कहाँ आया? तो भावार्थ उसका यह हुआ कि हमारे हृदय में बल आना चाहिये और हमें स्वराज्य का अनुभव होना चाहिये। जिसने भोजन किया उसको तृप्ति का अनुभव आता है। वैसे अगर हमें स्वराज्य मिला है तो उसका अनुभव बच्चे बच्चे को होना चाहिये। हाँ, एक फरक जरूर हुआ है। यह गांधीजी का चित्र आपने आज खड़ा किया वैसे पुराने जमाने में खड़ा नहीं कर सकते थे। आपको लगता था कि अगर गांधी टोपी से या गांधीजी के नाम से संबंध रखेंगे तो रजाकार हमको पीटेंगे। लेकिन अब शायद यह लगेगा कि

गांधीजी का नाम लेते रहेंगे, उनके चित्र का उद्घाटन करेंगे तो हम पर बड़े लोगों की मेहरबानी होगी। इन दिनों हम देखते हैं न कि हमारे स्वागत के लिये बड़े अधिकारी आते हैं। पहले जब बड़े अधिकारी आते थे तो हम समझ लेते थे कि हमारी गिरफ्तारी का संबंध है। पर इस समय गांधीजी का चित्र घर में रखने में किसी को कोई तकलीफ होनेवाली नहीं है।

गांधीजी के काम से निर्भयता

तो, इस अवस्था में हमें यह करना चाहिये कि हम गांधीजी का काम करें। उनके चित्र से कोई निर्भयता हम में आती है ऐसी बात नहीं है। उनके काम से ही हममें निर्भयता आयेगी। पहले के जमाने में अकबर आदि बादशाहों के चित्र घरों में रहते थे और स्कूलों में रहते थे। अगर उनकी जगह हम गांधीजी को देंगे और उनके चित्र घर में, शालाओं में, और होटलों में रखेंगे तो वे क्या काम के होंगे? मेरे कहने का मतलब यह है कि गांधीजीने हमारे लिये कुछ काम दिया है। वह काम हमको करना चाहिये। हम अगर माता का नाम लेते हैं तो वह यहाँ कहेगी कि अगर तुम मेरा नाम लेते हो तो परस्पर में प्रेम क्यों नहीं करते हो? तो गांधीजी के लिये हमें आदर है या नहीं इसकी परीक्षा इसी पर से होनेवाली है कि हम आपस में कितना प्रेमभाव रखते हैं। क्या अभी भी हम हरिजनों को अपने से नीचा समझते हैं? क्या अभी भी हिंदू और मुसलमानों के दिलों में भेद

मौजूद है ? क्या अभी भी पुलिस का डर जैसे पहले या वैसा ही मौजूद है ? अगर यह सब है तो समझ लेना चाहिये कि गांधीजी के लिये वास्तव में हमें आदर नहीं है ।

स्थितप्रज्ञके लक्षण

मेरे भाइयो, मैं जानता हूँ कि मेरे व्याख्यान का कुछ हिस्सा आपके पास पहुँचता है और कुछ हिस्सा बाहर रहता है । इस हालत में मैं आपको अपेक्षा कृत ज्यादा देर रखना नहीं चाहूँगा । मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ काफी शांति रखी । आज प्रार्थना में मैं जो बोला वह भगवद्गीता का एक भाग है । उसका मैंने तेलगु में तर्जुमा भी पढ़ लिया । उसमें स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताये हैं । जैसे गांधीजी का यह चित्र आपके सामने है वैसे स्थितप्रज्ञ का शब्दों में लक्षण गीता से मिलता है । महात्मा गांधीजी प्रार्थना में हमेशा ये लक्षण बोलते थे और उनका सारा जीवन उन लक्षणों का अनुशीलन करने के कारण हुआ है । तो ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण हम अपने सामने रखें । हम रोज ऐसे पुरुष का चिंतन करें यह मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ । कुटुंबवाले अड़ोसी-पड़ोसी और मित्र दिन में शाम को एक दफा एकत्र हो जायें और स्थितप्रज्ञ के लक्षण बोलें, उस पर चिंतन करें तो बहुत अच्छा होगा । उनमें जो गुण बताये हैं वे हिंदुओं के लिये अच्छे हैं, मुसलमानों के लिये अच्छे हैं, क्रिस्तियों के लिये अच्छे हैं और सारे मनुष्यों के लिये अच्छे हैं । तो मैं चाहता हूँ कि ये लक्षण आप

हमेशा बोलते रहें, पढ़ते रहें, गाते रहें। मैं आज आप को गांव में आया। कल यहाँ से जाऊंगा। और परसों शायद इस दुनिया से भी चला जाऊंगा। लेकिन ये जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण हैं वे हमारी आँख के सामने कायम रहने वाले हैं, सदा टिकनेवाले हैं। मेरे जैसे लोग तो आयेंगे और जायेंगे। उनका इतना उपयोग नहीं है जितना इन लक्षणों का है। इसलिये हम इन लक्षणों का ही चिंतन करें और मनुष्यों को भूल जायं। आखिर में आप सबको मेरा प्रणाम।

कामारेड्डी

२९-३-५१

तेईसवाँ दिन—

: २७ :

परमेश्वर की देनें

हम लोग वर्धा से हैद्राबाद पैदलयात्रा करते जा रहे हैं। हैद्राबाद से पांच मील पर शिवरामपल्ली है। वहाँ सर्वोदय संमेलन होने जा रहा है। महात्मा गांधीजी के भक्तजन वहाँ इकट्ठे होनेवाले हैं। उनकी संगति का लाभ लेने के लिये हम लोग भी जा रहे हैं। रोज हम अक्सर दस बारह मील चलते हैं। लेकिन आज हम को कामारेड्डी से यहाँ पहुँचने के लिये सत्रह मील चलना पड़ा। आज एक बात और हुई। बात यह थी कि बीच में एक रोज बारिश आदि होने के कारण आज मुझे थोड़ा बुखार था। और सुबह मेरे मन में शंका थी कि सत्रह मील की मंजिल आज कैसे तय होगी। लेकिन भगवान का नाम लिया, चलना आरंभ किया और उसकी कृपा से आज हम यहाँ पहुँच गये। और मैं आप से कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई।

मानव-देह का प्रयोजन

परमेश्वर का नाम ले कर जो काम किया जाता है उस में जरा भी तकलीफ नहीं होती यह अनुभव मैंने कई बार किया। भगवान के स्मरण से शरीर की थकान दूर हो जाती है और मन की भी थकान दूर हो जाती है। मनुष्य ताजा बन जाता है। यह

एक ऐसी अपार शक्ति है कि जिस में से हम चाहे जितना ले सकते हैं। हम मांगें और वहां से न मिले यह बात आज तक हुई नहीं। लेकिन भगवान से कैसे मांगना, भगवान के साथ कैसे संबंध जोड़ना यह समझने की बात है। मानव-देह हमे इसीलिये मिला है कि इसके जरिए हम भगवान से संबंध जोड़ें। और खास कर किसानों के जीवन में तो भगवान से निरंतर संबंध आता है। कभी वर्षा नहीं पड़ती है तो किसान का चित्त जमीन से उठ कर आसमान की तरफ दौड़ता है। वह परमेश्वर की प्रार्थना करने लगता है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो उसकी बुद्धि कृतज्ञता से भर जाती है और वह परमेश्वर का स्मरण करता है। इसलिये किसान का जीवन में अत्यंत पवित्र समझता हूं। किसान कितना भी कष्ट कर के यह नहीं समझता कि जो फसल होती है वह उसके खुद के कष्ट से होती है। वह तो यही समझता है कि कदम कदम पर भगवान की कृपा होती है तभी फसल आती है।

परमेश्वर की देन

सब लोगों का यही हाल है। मनुष्य की एक सास भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग अपना संबंध परमेश्वर के साथ सीधा है यह कम महसूस करते हैं, किसान ज्यादा महसूस करता है। अब देखिये आप के इर्दगिर्द के गावों में ओले गिरे और फसलें काफी बरबाद हुईं। अब किसान क्या करता है? वह परमेश्वर का स्मरण करता है। इस तरह अपने जीवन में

हरेक काम का परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना हमें सीखना चाहिये । अगर इस तरह हम भगवान से संबंध जोड़ सके तो हमें पता चलेगा कि उसने हमें कितनी देने दी हैं, कितनी नियामतें बरूशी है । उसने हमें जो नियामतें दी है वे बेहिसाब है, उसकी कोई गिनती नहीं है । उसने हम पर क्या उपकार नहीं किया है ? लेकिन उसके उपकार का ठीक उपयोग करने का भी हमें ज्ञान नहीं है ।

परमेश्वर की देनों का दुरुपयोग

मैं इधर घूम रहा हूँ और चारों तरफ सिंदी के पेड़ देखता हूँ । यह परमेश्वर की हमारे लिये देन है । लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं । उस में से शराब बनाते हैं और अपनी जिंदगी को खराब करते हैं । लेकिन हम अगर उसका ठीक उपयोग करें तो हमारे लिये वह अमृत का वृक्ष बन जायगा । उसमें से उत्तम गुड़ बनेगा और हरेक गाँव गुड़ के विषय में स्वावलंबी बन जायगा । आज जो आप की जमीन का बहुतसा हिस्सा गन्ने में जाता है वह बच जायगा अगर सिंदी का गुड़ हम बनायेंगे । आज हमारे देश में अनाज की कमी है ; ऐसी हालत में जितनी जमीन बच जाय उतना अच्छा है । इससे आप की दो बातें बनती थी । सिंदी के पेड़ से गुड़ बनता और जमीन में अनाज ज्यादा पैदा होता । लेकिन परमेश्वर की इस देन का उपयोग करना हम नहीं जानते और सिंदी से शराब बना कर अपनी आत्मा और शरीर को हम बिगाड़ते हैं और जमीन गन्ने में खर्च होती है । इसमें परमेश्वर का क्या

दोष है ? उसने तो हमको एक भारी चीज दी थी, लेकिन उसका उपयोग हमने नहीं किया ।

हमारे पास जमीन पड़ी है । उसमें से हर चीज हमको मिलती है । लेकिन उसका उपयोग हम सिर्फ़ पैसे के लिये करते हैं । पैसे के लोभ से ही जमीन का उपयोग करने की दृष्टि रही तो जमीन में से तबाकू बनती है । परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया और हम ने उसकी देनों को कैसे बरबाद किया इसका मैं कहां तक वर्णन करूँ ?

कपास के लिये जमीन रखो

मैं सुनता हूँ कि यहां पहले लोग थोड़ा कपास भी अपने उपयोग के लिये बोते थे । लेकिन आज लोगो ने वह छोड़ दिया, पैसे के लोभ में पड़े और सारा कपड़ा बाहर से खरीदते हैं । नतीजा उसका यह हुआ कि आप परावलंबी बन गये और अपना भार आप ने व्यापारियों पर डाल दिया । मैं यह नहीं कहता कि इस जमीन में अगर गन्ना अच्छा होता है तो गन्ना मत बोओ । लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ तो जमीन अपने कपास के लिये रखो । इस तरह अगर देखते हैं तो कई चीजों का अच्छा उपयोग हमको सूझेगा ।

गोबर और मैले का ठीक उपयोग करो

देखिये हम लोगों की गायें और भैंसें हमको गोबर देती हैं । हम उस गोबर को जलाते हैं तो हमारा सारा खाद खतम होता है । इसी तरह मनुष्य का भी मैल और मूत्र इधर उधर गिरता है और हम अपनी सारी दुनिया अमंगल बनाते हैं । उस से हमारी सेहत

बिगड़ती है, हमारी सभ्यता बिगड़ती है। अगर इस मलमूत्र को जमीन के अंदर रखते हैं और उस पर मिट्टी डालते हैं तो परमेश्वर की कितनी अपार कृपा है उसका अनुभव आयेगा। भगवान ने हमें गाय बैल दे दिये। अगर हम उनका दूध बढ़ाते हैं और बैलों को मजबूत बनाते हैं, उनको पूरा खिलाते हैं तो उनसे बहुत सेवा होती है। यह तो परमेश्वर की देन का अच्छा उपयोग होगा। लेकिन अगर हम गायों को ठीक खिलाते नहीं और उनको कम-कम में बेच डालते हैं तो गायों की कतल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की देनों का हमने दुरुपयोग किया। परमेश्वर की देनों का हम ठीक उपयोग करे और उसका हम स्मरण करें तो इस दुनिया में कोई मनुष्य दुःखी नहीं रह सकता।

हम सर्वोदय सर्वोदय चिल्लाते हैं। कहते हैं कि सब का भला होना चाहिये। लेकिन परमेश्वर अपने मन में हंसता होगा और कहता होगा कि भाई यह काम इतना मुश्किल क्यों लगता है? कोई बाप अपनी संतान के लिये जीवन मुश्किल हो ऐसा नहीं चाहता। तो वह परम पिता, जिसने हमें निर्माण किया और हमारे लिये ये सारे उपकार पैदा किये, हम उनका उपयोग अच्छा नहीं करते। आपस में झगड़ते हैं और कहते हैं कि सर्वोदय कब होगा।

ईश्वर अल्ला एक ही नाम

गांधीजी अपनी प्रार्थना में ईश्वर का नाम लेते थे और उस के साथ अल्ला का नाम भी लेते थे। अब ईश्वर और अल्ला में कोई

भेद नहीं है। लेकिन कुछ पागल हिंदुओंने कहा कि हम अल्ला का नाम नहीं सहन करते। जैसे ही रघुपति रावव राजाराम कहते हैं तो कुछ मुसलमान कहते है कि यह राम काफिरों का शब्द है हम उसकी प्रार्थना में नहीं जायेंगे। इस तरह भगवान के नाम में भी हमने भेद निर्माण किये। यहां तक हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो हम सुखी कैसे बन सकते हैं? फिर तो आपस में लड़ना झगड़ना ही है। इस तरह सारे झगड़े अपने देश में पड़े है और बाहर के देशों में भी झगड़े ही झगड़े चल रहे है। आप कोई अखबार देखिये तो सौ में से नब्बे खबरें यही पायेंगे कि किसी का खून किया, कहीं लूटा, कहीं लड़ाई हुई। उधर कोरिया की लड़ाई चलती है, इधर कश्मीर का मामला चल रहा है। बोल रहे हैं कि तीसरी लड़ाई— तीसरा महायुद्ध कब होगा! कब होगा यूं कहते जायेंगे और उसी का ध्यान करेंगे तो वह जरूर होगा। क्योंकि जिस चीज का हम ध्यान करते है वह चीज हमारे सामने खड़ी होनी ही चाहिये ऐसा ध्यान करो कि हम सब परमेश्वर के पुत्र है। और अगर हम सब एक कुटुंब के हैं, तो हम में कोई झगड़ा होगा ही नहीं।

पृथ्वीपर संख्या का नहीं, दुर्युगों का भार होता है

लोग कहते है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ गई। मैं कहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान में इतनी शक्ति है कि हम अगर परमेश्वर की देनों का उपयोग करें तो हिंदुस्तान में प्रेम के साथ रह सकते हैं। यह भी बात सही है कि मनुष्य को विषयवासना-रोकनी चाहिये। लोग संतान कम ज्यादा गिनते हैं। मैं कहता हूं

कि विषयवासना कम करो । अगर हम विषयवासना को नहीं जीत सकते हैं तो हम एक दूसरे पर प्रेम नहीं कर सकते । अगर हम विषयवासना को जीतते हैं तो जो भी प्रजा होगी वह परमेश्वर की भक्त होगी, और उसका दुनिया पर भार नहीं होगा । इस दुनिया में मनुष्य ज्यादा है या कम हैं इसका पृथ्वी कोई भार महसूस नहीं करती है । लेकिन मनुष्य सज्जन हैं या दुर्जन हैं इसका भार अवश्य महसूस करती है । पृथ्वी को मनुष्य की संख्या का भार नहीं है, मनुष्य के दुर्गुणों का भार है । हम काम क्रोधादि को जीते, एक दूसरे पर प्यार करें, परमेश्वर की देनों का सदुपयोग करना सीखें, अपनी हरेक कृति का संबंध परमेश्वर से जोड़ें, सुख और दुःख में उसका स्मरण करें, तो सर्वोदय ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता ।

रामायण पेट

३०-३-५१

चौबीसवाँ दिन—

: २८ :

सत्पुरुष और धर्म

आज मैं इस गाँव में आया तो ठहरने के लिये यह जगह मिली है। मुझे इस बात की खुशी है कि ठहरने के लिये मुझे क्रिस्तियों का स्थान मिला।

सारे सत्पुरुषों की जाति एक

अपने इस बड़े देश में बहुत प्राचीन काल से अनेक सत्पुरुष पैदा हुए। क्रिस्ती लोगों के गुरु ईशु क्राइस्ट नाम के थे, और वे बड़े सत्पुरुष थे। वैसे ही मुसलमान धर्म के बड़े संस्थापक हो गये मुहंमद पैगंबर, वे भी एक बड़े सत्पुरुष थे। इस तरह के सत्पुरुष हर जाति में, हर कौम में और हर भाषा में पैदा हुए। परमेश्वर की मानवों पर यह कृपा है कि मानवों को बीच बीच में राह बताने के लिये अच्छे मनुष्यों को वह भेजता है। इन दिनों हमारे देश में महात्मा गांधी इस तरह के सत्पुरुष हो गये। ये सोर जो सत्पुरुष हुए उनमें कोई फरक नहीं था। सब के दिल एक थे। उन सब की एक ही जाति थी, उन सब का एक ही धर्म था। परमेश्वर की भक्ति करना, मानवों पर प्रेम करना यही उनका धर्म था। गुरु का नाम लेते हैं, काम नहीं करते

अभी आप लोगों ने क्रिस्ती प्रार्थना सुनी। उसमें यही कहा गया था कि परमेश्वर प्रेममय है और उसकी भक्ति से हमारे हृदय प्रेममय

और पवित्र हो जाँय । लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि मुहंमद के अनुयायी, क्रिस्त के अनुयायी और हिंदू धर्म के अनुयायी आपस में प्रेम से नहीं रहते । यह बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें कोई शक नहीं । अपने अपने गुरु का नाम लेना यह अच्छी बात है । लेकिन उस गुरु के नाम का भी एक अभिमान बना करके दूसरों में और हममें फरक पैदा करना यह बुरी बात है । गुरु ने जो शिक्षण दिया उसका पालन तो हमने किया नहीं, लेकिन अभिमान रखते हैं और दूसरो का द्वेष करते हैं । हम जानते हैं कि हिंदूधर्म ने यह शिक्षण दिया कि हरेक जीव में आत्मा मौजूद है, लेकिन उधर हजारों जानियां बना करके हम लोगो ने द्वेष बढ़ा दिया । क्रिस्त ने तो हमेशा प्रेम का संदेश दिया । लेकिन क्रिस्त के नाम का अभिमान रखनेवाले दुनिया भर में जहाँ देखो वहाँ लड़ाइया करते रहे । पिछले चालीस साल में दो महायुद्ध हुए । दोनों क्रिस्तियो के आपस में हुए । क्रिस्त गुरु ने तो यह कहा था कि हमको अहिंसा रखनी चाहिये । किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिये । याने जो गांधीजी की शिक्षा थी वही क्रिस्त की थी । लेकिन क्रिस्ती लोगो ने जितने शस्त्रास्त्र बढ़ाये उतने सारी दुनिया में किसी ने नहीं बढ़ाये । मुसलमान लोग अपने धर्म को इस्लाम कहते हैं । इस्लाम का अर्थ है शांति । अगर किसी को वे नमस्कार करने हैं तो कहते हैं "सलाम अलयकुम्" याने आपको शांति रहे । लेकिन उन लोगों का जो भी बर्ताव रही उसे देखते हुए लोगों को शंका होती है कि क्या इस्लाम में

भी शांति की शिक्षा हो सकती है। उस तरह उन उन गुरुओं का हमने अभिमान रखा, आचरण कुल नहीं किया, और अपना जीवन पहले जैसा बिगड़ा हुआ था, वैसा ही आज भी है।

हम लोग बिगड़े हुए थे तो हमको सुधारने के लिये ये गुरु हमारे पास आये। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना जीवन तो हम सुधारते नहीं और कहते हैं कि दूसरे हमारे धर्म में आ जाँय। जो उठा वह यही चाहता है कि मेरे धर्मवालों की सख्या बंद। कोई यह नहीं देखता कि धर्म तो एक आचरण का चीज होता है, सख्या से उसका क्या मतलब है। मैंने सुना कि यहाँ के इन्डि-गिर्द के देहातों में तीन हजार क्रिस्ती बन गये। अगर उनका जीवन सुधर गया है तो मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं सुधरा है तो हिंदू नाम के बदले क्रिस्ती नाम हो जाने से क्या फरक हुआ? जैसे पहले शराब-सिंदी पीते थे वैसे ही अगर अब भी शराब-सिंदी पीते रहे, जैसे पहले झूठ बोलते थे वैसे अब भी बोलते हैं तो सिर्फ धर्म का नाम बदलने से क्या हुआ? समझना चाहिये कि जो मनुष्य झूठ बोलनेवाला है, दूसरे से द्वेष करनेवाला है, वह न हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिस्ती है। वह तो धर्महीन मनुष्य है। लेकिन हमारी दशा अब यह है कि हिंदुओं में से अगर कोई बदमाशी करता है, गुंडा है, तो उस गुंडे का अभिमान हिंदू लोग रखते हैं। कोई अगर मुसलमान गुंडापन करता है तो मुसलमान उस गुंडे का अभिमान रखते हैं। ऐसे ही कोई क्रिस्ती अगर दुर्जनता करता है तो क्रिस्ती लोग उसको

दाँड़ते है । यह बुरी दशा देख कर अब जवान लोग यह कहने लगे है कि हमे यह धर्म चाहिये ही नहीं । लेकिन वह भी उन लोगों की गलती है । धर्मवाले लोग धर्म पर चलते नहीं हैं । यह उस धर्म का दोष नहीं है । यह तो हम लोगो का दोष है कि हम धर्म की दीक्षा तो लेते है लेकिन आचरण करते नहीं ।

हरेक जाति में सत्पुरुष हुए हैं

मै तो यही कहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान मे ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमे अच्छे गुरू पैदा नहीं हुए, और जिनको शिक्षण देने के लिये दूसरे किसी गुरू की जरूरत है । यह कोई जरूरी नहीं है कि तेलगु लोगो को ज्ञान देने के लिये मलबार के कोई सज्जन आ जायँ, या महाराष्ट्र के लोगो को ज्ञान सिखाने के लिये कोई पंजाबी गुरू आ जाय । हरेक जमात मे सत्पुरुष हुए है । मै तो इतना ही कहूंगा कि अपने अपने पढ़ास में जो सत्पुरुष हुए उनके कहने के मुताबिक चलो । और हरेक धर्मवाले और हरेक गुरू के शिष्य अगर अपना जीवन सुधारेगे तो उनके जीवन को देख करके सब लोगो के दिल खुश हो जायेंगे ।

धर्म से ज्यादा सज्जनता की फिकर रखो

इस तरह उस उस धर्मवाले अपने अपने धर्म के शिक्षण का आचरण करके एक दूसरे को मदद दे सकते हैं और सब मिल करके दुनिया का आनंद बढ़ा सकते है । हम लोगो को ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिये कि फलाना क्रिस्ती है या फलाना मुस्लिम है या फलाना हिंदू है । परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो वह हम

से यह नहीं पूछेगा कि तुम क्रिस्ती थे या हिंदू थे या मुसलमान थे, बल्कि यह पूछेगा कि क्या तुम सदाचार करने वाले थे या दुराचार करनेवाले थे । कोई ब्राह्मण भी अगर दुराचार करता है तो परमेश्वर को उसकी कोई कीमत नहीं है । और कोई चांडाल भी अगर भक्ति करता है तो परमेश्वर को वह मान्य है ।

सब धर्मों का रहस्य

तो इस तरह एक दूसरे पर प्यार करो, सच्ची राह पर चलो यही कहने के लिये सब गुरु आये और यही शिक्षण हमको उनसे लेना है । आज आप लोगो के सामने यही बात मैं कहूँगा और यह आशा करूँगा कि यहाँ पर मैं आया तो इतना भी लाभ आप उठा लें । मैं क्रिस्ती धर्म के रहस्य को अत्यंत प्रेम के साथ स्वीकार करता हूँ । सब धर्मों में जो अच्छी बात है उसको मैं कबूल करता हूँ । हिंदुओं में मैं अपने को हिंदू मानता हूँ । क्रिस्तियों में मैं अपने को क्रिस्ती मानूँगा, और मुसलमानों में मैं अपने को मुसलमान मानूँगा । यही मानो कि पापाण और पत्यर में जैसे कोई फरक नहीं है, पापाण याने पत्यर और पत्यर याने पापाण । वैसे ही हिंदू और मुसलमान और क्रिस्ती याने सज्जन सत्पुरुष इतना ही अर्थ है । तो यह सब धर्मों का रहस्य आप अपने दिल में रखिये और अपने जीवन को उन्नत बनाने की कोशिश कीजिये । आखिर में आप लोगो को मैं प्रणाम करता हूँ ।

बडियारम (जि० भेदक)

ता० ३१-३-५१

पच्चीसवां दिन—

: २९ :

गांव कुटुम्ब की तरह रहे

गांव और शहर की खूबियों का समन्वय हो

आप का गांव कुछ बड़ा है। छोटे गांव में कुछ खूबियां होती हैं तो बड़े गांव में भी कुछ खूबियां होती हैं। इन दोनों खूबियों का अगर गांव में समन्वय हुआ तो गांव को बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन जैसे छोटे गांव में कुछ बुराइयां होती हैं वैसे बड़े गांव में भी होती हैं। दोनों बुराइयों को अगर गांव में इकट्ठा करेंगे तो गांव खतम हो जायगा। और अक्सर मैंने देखा है कि जो गांव आप के जैसे बीचवाले होते हैं वहां छोटे और बड़े गांवों की बुराइयां इकट्ठी होती हैं। इस तरह अगर हुआ तो वह गांव अधिक से अधिक दुखी होगा।

गांव की समिति होनी चाहिये

आज प्रार्थना के पहले आप के गांव के लोगों के साथ चर्चा चल रही थी। मैंने पूछा कि भाई इस गांव में क्या हो रहा है? उसमें क्या सुधार कर सकते हैं? यह सब सोचने के लिये गांव में कोई समिति या मंडली है पूछने पर तो कहा गया कि ऐसी कोई मंडली नहीं है। फिर मैं सोचने लगा कि हर कुटुंब में कुटुंब के मले के लिये कुछ न कुछ विचार होता है वैसे गांव के मले के लिये विचार

करनेवाला समाज अगर गांव में न होगा तो गांव कैसे आगे बढ़ेगा ? हमारे लोगों में घर से बाहर की सोचने की आदत ही नहीं है । लेकिन गांव में जो होता है उसका परिणाम घर पर होता है, और घर में जो कुछ होता है उसका परिणाम गांव पर होता है । इस तरह गांव और घर अलग नहीं है यह ध्यान में आयेगा । इसलिये हरेक गांव में गांव के बारे में सोचने की आदत होनी चाहिये । अगर ऐसा कोई समाज, जिसे मैं 'सर्वोदय समाज' कहता हूँ, आप के गांव में बन जाय तो गांव की सेवा का आरंभ होगा । तब तक गांव में सेवा का आरंभ ही नहीं होता ।

गांव में दूसरे धंधे नहीं हैं

आप के गांव में कोई चार हजार जनसंख्या है । तीन हजार एकड़ जमीन है । याने हर मनुष्य के पीछे पौन एकड़ जमीन हुई । इस गांव में पानी की कुछ सुव्यवस्था जरूर है । लेकिन इतनी कम जमीन जहाँ है वहाँ लोगों को पूरा काम नहीं है यह बात जाहिर है । और अगर गांव को पूरा काम नहीं मिलता है तो फिर गांव को पूरा खाने को भी कैसे मिल सकता है ? मैंने देखा कि यहाँ के नजदीक के कुछ गांवों में कहीं रेशम का काम चलता है । तो वैसे कोई काम यहाँ चलाया है क्या ? ऐसा मैंने पूछा तो जवाब मिला कि ऐसा कोई काम नहीं है । मैंने यह भी पूछा कि गांव में जो मुसलमान लोगों के घर हैं उनके घर वाले क्या काम करते हैं । क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुसलमानों के यहाँ गोशा होता है और उनके घर की स्त्रियाँ बाहर कोई खास काम नहीं कर सकतीं ?

लेकिन घर में उनको कोई काम नहीं है ऐसा मुझे कहा गया। इस तरह जहाँ गांव में पूरा काम-धाम नहीं है वहाँ लोगों में अगर आपस में झगड़े न हुये तो उमें परमेश्वर की कृपा ही समझनी चाहिये।

सिंदी के बदले नीरा या गुड़ बनाओ

मैं इस तरफ सिंदी के कई पेड़ देखता हूँ। उनमें से जो सिंदी निकलती है वह पी पी कर लोग अपनी जिंदगी को बरबाद करते हैं। मैं तो यहाँ तक सुनता हूँ कि इस गांव की चार हजार की जन संख्या में से करीब तीन हजार लोग सिंदी पीते होंगे। अगर इतनी बड़ी संख्या रोज सिंदी पी कर अपनी जिंदगी बरबाद करती है तो गांव के लिये यह बहुत खतरनाक बात है। गांव के लोगों का यह बड़ा भारी काम है कि लोगों को समझायें और सिंदी पीने से उनको मुक्त करे। ये जो सारे सिंदी के पेड़ हैं उनके रस का अच्छा गुड़ बन सकता है। और उसका ताजा रस अगर लोगों को पिलाने की व्यवस्था की जाय तो सिंदी के बदले अच्छी नीरा लोगों को मिल सकती है। लेकिन यह सब तब बनेगा जब गांव में गांव के बारे में सोचनेवाली मंडली होगी।

गांव की पंचायत कैसी हो

यह मंडली हर हफ्ता इकट्ठा होगी और गांव के हरेक काम के बारे में सोचेगी। ये लोग केवल सेवा के लिये इकट्ठे होंगे। किसी पार्टी के बने नहीं होंगे या किसी राजकीय पक्ष से उनका

संबंध नहीं रहेगा। मैंने पूछा—गांव में कोई भजन मंडली भी है ? तो लोगो ने कहा कि भजन मंडली है और हर शुक्रवार को भजन करते हैं। मैंने कहा यह अच्छा है। गांव के दूसरे लोग भी उम भजन मंडली के साथ इकट्ठा हो जायें। आधा घंटा सब मिलकर भगवान का भजन करें और बाकी के समय में गांव के बारे में सोचें। परमेश्वर के भजन के साथ गांव की सेवा का अगर कुछ आयोजन करते हैं तो वह परमेश्वर का सच्चा भजन होगा। परमेश्वर हरेक के हृदय में मौजूद है। तो अगर हम अपने बंधुओं की सेवा नहीं करते हैं और परमेश्वर का नाम लेने का दावा करते हैं तो वह नाम लेना सच्चे अर्थ में भजन नहीं है। आप के यहां भजन चलता है यह भी मेहरबानी है। क्योंकि उसके निमित्त से गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। तो जहां भजन होता है वहां सेवा का भी आयोजन हो सकता है। मैंने कभी यह भी देखा है कि जहां ग्राम पंचायत होती है वहां गाँव के काम की चर्चा तो करते हैं लेकिन साथ साथ झगड़े भी चलते हैं। लेकिन परमेश्वर के भजन के साथ अगर गाँव की सेवा की चर्चा करेंगे तो वहां किसी तरह के झगड़े नहीं होंगे और परमेश्वर की दी हुई सदबुद्धि से हमारा काम भी अच्छा चलेगा।

गाँव एक कुटुंब बने

गाँव में कितनी तरह की सेवा हो सकती है उसका वर्णन तो मैं यहां नहीं करूंगा। जो लोग मेरे साथ चर्चा करने के लिये इकट्ठा हुए थे उनके सामने कुछ बातें मैंने बता दी हैं। आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगा कि आप के गाँव के बारे में अगर आप

नहीं सोचेंगे तो बाहर का दूसरा कोई सोच कर आप का भला करेगा यह आशा करना बेकार है। तो आप को अपने कुटुम्ब के बाहर दृष्टि फैला कर गाँव के बारे में सोचने का अभ्यास करना चाहिये। गाँव की खूबी ही ममझनी चाहिये कि गाँव के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और कुल प्रेम कर सकते हैं। अगर कुटुम्ब के बाहर जाकर सेवा करने का अभ्यास हुआ तो सारा गाँव मिलकर एक कुटुम्ब ही बन जायगा। फिर जैसे घर की माँ पूछती है कि घर के सब लोगों को खाना मिला है या नहीं, और जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई भूखा नहीं है तभी वह खाती है। वैसे गाँव में किसी को भूखा तो नहीं रहना पड़ा है यह गाँव की पंचायत देखेगी और सब को खाना मिला है यह देख कर ही खुद खायेगी। इस तरह गाँव की जिम्मेवारी उठानेवाली मंडली गाँव में बन सकती है और अगर वैसी बनी तो गाँव में गाँव का राज्य बन जायगा।

मेरा स्वराज्य मुझे ही हासिल करना होगा

स्वराज्य का सच्चा अर्थ यही है कि हरेक गाँव अपने अपने पाँवों पर खड़ा हो जाय और बलवान बन जाय। जिस राज्य में और देश में बलवान् प्राम होंगे वह राज्य और वह देश बलवान होगा। लेकिन जहाँ के गाँव कमजोर होंगे वह राष्ट्र और राज्य भी कमजोर होगा। हम लोगों के हाथ में स्वराज्य आया इसका मतलब यही समझो कि हरेक गाँव का फिर से संघटन करने का मौका हमें मिला है। अभी तो इतना ही समझो कि सारे देश को स्वराज्य मिल गया है लेकिन उसके अन्दर के प्रामों को अभी स्वराज्य हासिल करना बाकी है।

स्वराज्य भी एक ऐसी अजीब चीज है कि मेरा स्वराज्य आप नहीं दे सकते। मेरा स्वराज्य मुझे ही हासिल करना होता है। मौके पर यह बन सकता है कि दूसरा मनुष्य मेरे लिये खाना लाकर मुझे खिलादे। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि दूसरा मनुष्य मुझे स्वराज्य दे। जैसे हरेक मनुष्य स्वर्ग और नरक अपने ही पुण्य और पाप से पाता है, वैसे ही गाँव का पुण्य और गाँव का पाप गाँव को खुद को भुगतना होगा और उसी में गाँव की उन्नति या अवनति होगी।

गाँव की ही वनस्पतियों से गाँव की बीमारी का इलाज

आज चर्चा हो रही थी तब लोग सारे जिले की बात करने लगे। मैंने कहा जिले की बात मत करो इस गाँव की बात करो। वे लोग कहते थे कि इस जिले में एक दवाखाना खोलने का विचार हो रहा है और उसके लिये पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा है। मैंने कहा ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उतने में इस गाँव की बीमारी दूर होनेवाली नहीं है। क्योंकि जिले के किसी बड़े शहर में वह दवाखाना खुल जायगा और जो लोग वहाँ तक पहुँच सकेंगे उनकी सेवा वह दवाखाना करेगा। लेकिन अगर हम गाँव के बारे में सोचना है तो यही करना पड़ेगा कि गाँव में ही कुछ वनस्पतियाँ और दवाइयाँ बनी होंगी। और ताजी वनस्पतियाँ लेकर गाँव के बीमारों को देना होगा। अगर कोई यह कहे कि हम हरेक गाँव में दवाखाना खोलेंगे और वहाँ बाहर से डॉक्टर लायेंगे जो गाँव की सेवा करेगा, तो मैं कहूँगा कि भाई यह नई बीमारी गाँव में मत

लाइये । मैं तो यही कहूँगा कि गाँव की बीमारी का इलाज गाँव की वनस्पति से ही होना चाहिये । परमेश्वर की यह कृपा है कि उसने मनुष्य को जहा पैदा किया वहीं उसको सारी सङ्कल्पिते दी है । मनुष्य को भूख है तो उसको खाना मिलने की योजना भगवान ने की है । जहाँ मनुष्य को उसने भूख दी वहाँ भूख निवारण की अकल भी उसने मनुष्य को दी । वैसे ही जहाँ बीमारियाँ हैं वहाँ दूर उन्हें करने का इलाज भी जम्बर होना चाहिये । अगर यह आशा करोगे कि गाँव की बीमारी का इलाज हैद्राबाद या मेदक के डॉक्टर करोगे तो उन डॉक्टरों का बोझ इस गाँव पर पड़ेगा । इसके सिवाय और कुछ होनेवाला नहीं है ।

माइयो, मैंने एक चीज आप के सामने विस्तार से रखी है । उस पर आप सोचे और ऐसा सर्वोदय समाज अपने गाँव में बनाइये ।

नूपरान (जि० मेदक)

१-४-५१

हम अपना कर्तव्य करें

परमेश्वर कसौटी करता है

दो चार दिन पहले आप के इस नुलक में आसमान से ओले पड़े। कई जगह फसल को हानि हुई है, कई जगह मकान के कलेछ टूट गये हैं। मैं सोचता था कि भगवान की कृपा से ही बारिश होती है और उसकी कृपा से ही फसल होती है। यह तो जाहिर है कि परमेश्वर दयालु है और सब पर उसकी कृपा है। लेकिन इस तरह बीच बीच में वह ओले गिराता है तो उसकी क्या मर्जा होगी इसका मेरे मन में बिचार आता रहा। मैं मानता हूँ कि इसमें भी उसकी दया काम कर रही है।

वह देखना चाहता है कि हम लोग ऐसे मौके पर एक दूसरे को किस तरह मदद करते हैं। याने उसमें वह हमारी परीक्षा ले रहा है। वह देखना चाहता है कि जो दया वह हम पर बरसाता है उसका कुछ अंश हममें है या नहीं। अगर ऐसे मौके पर हम एक दूसरे को मदद न करे तो परमेश्वर की कृपा के लायक हम साबित नहीं होते हैं। होना यह चाहिये कि हम लोगों को जहाँ आपत्ति है वहाँ फौरन दौड़ जाना चाहिये और जो भी लोगों को मदद पहुँचा सकते हैं पहुँचानी चाहिये। लेकिन हम लोग वह तो नहीं करते हैं। सरकार की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि सरकार क्या

मदद करेगी ? यह तो अपने धर्म को भूल जाना है । सरकार तो अपना काम जरूर करेगी, उसको करना भी चाहिये । लेकिन सरकार की शक्ति की एक मर्यादा होती है, लोकशक्ति अमर्याद है । अगर हमारे घर में हमारा लड़का बीमार पड़ा तो हम यह राह नहीं देखते कि सरकार उसके लिये क्या करेगी । बल्कि हम फौरन हमसे जो बन सकता है करने की कोशिश में लग जाते हैं । वैसे ही कौटुम्बिक भावना हमारी समाज में होनी चाहिये । जैसे नदी में प्रवाह रहता है और पानी सतत बहता रहता है, वैसे हमारा प्रेम जिनको हमारी मदद की जरूरत है उनकी तरफ बहना चाहिये । समझना चाहिये कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है और उस परीक्षा में हम अगर पास नहीं होते हैं तो एक बड़ा मौका खोते हैं । इस तरह नहीं सोचना चाहिये कि मैं नहीं मदद करूंगा तो उससे क्या हानि होगी, दूसरे तो करेंगे । सोचना यह चाहिये कि दूसरे तो मदद करेंगे लेकिन ऐसे मौके पर मैं अगर मदद न करूं तो मैंने अपना मौका खोया । हमारे जीवन में दूसरों को मदद करने के लिये जो भी मौके मिलेंगे वे बड़े भाग्य के अवसर हैं ऐसा समझना चाहिये । तो हरेक को यही सोचना चाहिये कि इस मौके पर मैंने क्या मदद की । यह नहीं सोचना चाहिये कि दूसरों ने क्या की या सरकार ने क्या की । दूसरे को जो करना होगा वह करेंगे या नहीं करेंगे, वह उनका नसीब है । लेकिन नुस्खे तो मेरा काम करना ही है । ऐसी जागृति हमारे मन में होनी चाहिये ।

स्वराज्य में हरेक की जिम्मेवारी

स्वराज्य का लक्षण ही यह है कि स्वराज्य में हरेक मनुष्य यही सोचता है कि मैंने इस देश के लिये क्या किया, मैं इस देश के लिये क्या करता हूँ ? क्या मैं अपने देश के लिये अपने पड़ोसियों के लिये, गरीबों के लिये, आज कुछ करता हूँ ? इस तरह जिस देश के सारे लोग सोचते हैं उस देश में स्वराज्य है। जिस देश के लोग अपने कर्तव्य का विचार नहीं करते बल्कि दूसरे क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, यही सोचते हैं वे लोग परतंत्र है, पगधीन है, गुलाम है। स्वराज्य याने हरेक की जिम्मेवारी हरेक महसूस करे। हमारे शरीर में आंख अपना काम करती है, कान अपना काम करते हैं। आंख यह नहीं सोचती है कि कान क्या करते हैं, वह तो अपना कर्तव्य करती है। इस तरह हरेक अवयव अपने अपने कर्तव्य में जागरूक है इसलिये अपने देह में अपना राज्य चल रहा है। मान लीजिये कि किसी के कान बहरे हैं और उसकी आंख अच्छी है, लेकिन आंख यह सोचने लगे कि कान अपना काम नहीं करते हैं तो मैं भी अपना काम क्यों करूँ, तो शरीर की क्या हालत होगी ? तो जैसे हरेक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों की तरफ नहीं देखती बल्कि अपनी जिम्मेवारी समझ करके उस को पूरा करती है तो यह शरीर अच्छा चलता है। लेकिन इस देश में लोगों की जबान से अक्सर मैं यह सुनता हूँ कि फलाना काम नहीं करता है, दूसरा काम नहीं करता है, वह खुद क्या काम करता है इसके

वारे में वह बोलता ही नहीं। मुझे यह देखकर लगता है कि स्वराज्य अभी बहुत दूर है।

सच्चा स्वराज्य अभी हासिल करना है

एक तरह का स्वराज्य तो मिल गया लेकिन वह स्वराज्य नहीं है। वह तो इतना ही हुआ कि दूसरे देश के पजे से हमारा देश छूट गया। हमारे घर में शेर घुस गया था उसको बाहर निकाल दिया उतने से हमारा काम नहीं पूरा होता है। यह कोई नहीं कहेगा कि भाई शेर तो चला गया अब रमोई करने की क्या जरूरत है। बल्कि यही कहेगे कि अब शेर बाहर चला गया है तो शुरू करो अपना घर का काम। तो हरेक गांव, हरेक घर और हरेक मनुष्य को यह मोचना चाहिये कि स्वराज्य आया है उमका मतलब मेरे पर जिम्मेवारी आई है। गांव में सैकड़ों काम ऐसे होते हैं जो गांव वाले अगर एक दूसरी को मदद दे तो खुशी से हो सकते हैं। अगर हरेक गांव यही कहेगा कि हम को बाहर से मदद मिलनी चाहिये तो हरेक गांव को कहा से मदद आयेगी। समझना चाहिये कि हम लोग गरीब हैं तो हमारी सरकार श्रीमान् कैसे हो सकती है, वह भी गरीब ही होगी। देखिये मनुष्यों के हिसाब से अपने देश की सरकार की संपत्ति कितनी है, और अमेरिका की सरकार की संपत्ति कितनी है। तो हमारे सरकार को बलवान हमें बनाना है। यह दृष्टि हमारी प्रजा में जब आयेगी तब वह खुद अपना काम करने लगेगी और स्वराज्य का अनुभव हम लोगों को होगा।

कलात्मक शिक्षण के लिये सरकार मदद देगी

हां यह हो सकता है कि आप के गांव में आप कोई उद्योग खड़ा करना चाहें, और कोई जवान लोग उसके लिये तैयार हो जाँय, और उन को कहीं से तालीम दे कर लाना है तो उस काम के लिये सरकार से आप मदद माँग सकते हैं। याने सरकार की तरफ से तालीम की एक छोटी सी मदद हम को मिल सकती है, और वह मागनी चाहिये। लेकिन तालीम याने उद्योग की तालीम। पढ़ना लिखना तो गांववालों को अपने गांव में खुद कर लेना है। जो धेंदे या उद्योग गांव में मौजूद नहीं हैं उसके लिये सरकार कुछ स्कॉलरशिप दे सकती है, और व्यवस्था कर सकती है। हर गांव में जो खेती होगी उस में परिश्रम करना गांववालों का ही काम रहेगा। लेकिन खेती में अगर कोई जंतु बढ़ गये है और उससे खेती नष्ट होती है तो उस के लिये क्या इलाज करना, यह सरकार को पूछ सकते है और सरकार से ऐसी सलाह मिल भी सकती है। यही समझो कि जैसे अपने कुटुंब का सारा कारोबार हम खुद करते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों से कहीं थोड़ी मदद चाहते हैं तो मिल जाती है। उसी तरह एक गांव को दूसरे गांव की कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन मुख्य जो काम करना होगा वह गांववालों को अपने पांव पर खड़े हो कर ही करना होगा। यही समझो कि मुझे अपने ही पांव पर खड़ा होना होता है, अपने हाथ से काम करना होता है अपने आंख से देखना होता है, अपने कानों से सुनना होता है। वैसे दूसरों को भी इन्हीं इंद्रियों से काम लेना होता है।

फिर भी हम एक दूसरे को कुछ मदद देते हैं। याने हम पंगु बनकर एक दूसरों की मदद नहीं करते हैं बल्कि हम अपने अपने शरीर का पूरा उपयोग करके समर्थ बनते हैं और समर्थ बन कर दूसरों की मदद लेते हैं, दूसरों को मदद देते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप की आंख से मुझे देखना है, आप के कान से मुझे सुनना है। मैं तो अपनी आंख से देखने की जिम्मेवारी मानता हूँ और आप की मदद लेता हूँ। इसी तरह एक दूसरे का एक दूसरे पर थोड़ा-थोड़ा उपकार हो सकता है।

इस तरह स्वावलंबन और परस्पर सहकार ये दो चीजें स्वराज्य में हरेक को सीखनी चाहिये। इन दोनों की अपनी मर्यादा क्या है ? यह हरेक को पहचानना चाहिये। एक मनुष्य को भी यह चीज लागू है, गांव को भी लागू है।

कोचारम् (जि भेदक)

२-४-५१

सत्ताइसवाँ दिन—

: ३१ :

“इन्शाल्लाह” भगवान चाहे तो

भक्त की कसौटी :

८ मार्च से मैं बर्खा से हैद्राबाद के लिये पैदलयात्रा में निकल पड़ा हूँ। कुछ रोज तो हमारा काम ठीक चला। लेकिन चार दिन पहले मुझे बुखार आ गया, जो लगातार चार दिन रहा। हमारे साथी सोचने लगे कि कुछ रोज विश्रांति लेनी चाहिये। मैंने कहा कि नहीं हम रोज के नियम के मुताबिक चलते ही रहेंगे। क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान बीच में थोड़ी कसौटी लेना चाहता है इसके सिवाय और कुछ नहीं है। परमेश्वर हमेशा भक्त की बीच बीच में सत्त्वपरीक्षा लिया करता है। लेकिन जैसे वह परीक्षा करता है वैसे वह शक्ति भी देता है। आखिर श्रद्धा रख कर हम चलते रहे। और आज मैं देखता हूँ कि बुखार चला गया। अब लगता है कि जैसा हमने पहले तय किया था वैसे दो तीन रोज के अंदर शिवरामपल्ली के सर्वोदय संमेलन में पहुंच जायेंगे। लेकिन यह भी मनुष्य की कल्पना मात्र है। भगवान ने जो वाह! होगा वही होगा। मैं बर्खा से निकला तब मन में भगवान का नाम ले कर ही निकला। और आज भी उसी के बल पर मेरा

सब काम चलता है। मैं देखता हूँ कि मनुष्य में अपना निज का कोई बल नहीं है। अगर वह भगवान पर श्रद्धा रख कर चलाता है तो भगवान कुछ बल देता ही है।

“इन्शाअल्लाह”

मैंने कुरान में एक जगह एक किस्सा पढ़ा था। वह इस समय मसूदा याद आ रहा है। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक रोज़ कोई बात मुहम्मद पैगंबर से पूछी गई तो उसने कहा कि “हाँ मैं उसे करूँगा” लेकिन उन्होंने जैसा वचन दिया था वैसा वे कर नहीं पाये। तब उनसे पूछा गया कि “आपने वादा किया था वेसः आप क्यों नहीं कर पाये।” तो मुहम्मद पैगंबर ने जवाब दिया कि “अगर भगवान चाहेगा तो” इतना कहना मैं भूल गया और “मैं करूँगा” ऐसा अपने नाम से मैंने कहा इसलिये वह काम नहीं हो पाया। इसीलिये मुसलमानों में “इन्शाअल्लाह” याने अगर भगवान चाहे तो, ऐसा बोलने का रिवाज पड़ा है। लेकिन सिर्फ बोलने की यह बात नहीं है, मन में वैसी भावना होनी चाहिये। अपने जीवन की कोई भी कृति हम भगवान की इच्छा के बगैर नहीं कर सकते। वह चाहता है तभी वह बनती है।

हरिनाम ही एकमात्र बल

अपने निज के काम में अगर हम इतने असमर्थ हैं कि जहाँ हम देश का काम करने जाते हैं वहाँ भगवान की इच्छा के बिना कैसे होगा? इसलिये जब कभी मैं देश के काम के बारे में सोचता हूँ

हूँ तो मुझे परमेश्वर के स्मरण का महत्त्व उत्तरोत्तर अधिक ध्यान में आता है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएँ खड़ी हो गईं। उनमें से कुछ समस्याओं का हल तो मिल गया लेकिन बहुत सारी वैसी की वैसी मौजूद है। और मेरा तो विश्वास हो गया है कि बिना परमेश्वर की मदद मांगे और लिये इन गतिन कामों को हम अपनी शक्ति से हल नहीं कर सकेंगे। मुझे एक भाई ने पूछा—“आपको जो कहना है वह आप कोई स्वतंत्र व्याख्यान में क्यों नहीं कहते? प्रार्थना के साथ उसको क्यों जोड़ देते हैं।” मैंने कहा, “प्रार्थना ही एक मुख्य शक्ति मेरे पास है। इसलिये सब के साथ मैं उस प्रार्थना को करना चाहता हूँ। और जब मैं प्रार्थना के बाद थोड़ा बोलता हूँ तो उसमें प्रार्थना की शक्ति का ही जो परिणाम होता है सो होता है। बाकी मेरे निज के शब्दों में कोई खास शक्ति है ऐसा मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है। यह एक बात जो इन दिनों बहुत दफा मेरे मन में आई वह आपके सामने रख दी।

अध्ययन की आवश्यकता

एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। कल कार्यकर्ताओं के साथ बात हो रही थी तब मैंने पूछा कि पोतना का भागबन आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है। वहाँ जो भाई इकट्ठा हुये थे उनमें से सिर्फ एक ने कहा कि मैंने पढ़ा है। बाकी सबने नहीं पढ़ा था। जो लोग वहाँ थे वे सब पढ़े-लिखे थे और कुछ न कुछ

काँग्रेस का काम करनेवाले थे । तो मुझे आश्चर्य लगा कि तेलगु में जो किताब सब के दिलों पर असर करती है याने जो जनता की किताब है इसको इन लोगों ने कैसे नहीं पढ़ा ! फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि हर रोज आपको उस किताब का कुछ न कुछ अभ्यास जरूर करना चाहिये । हमारे शरीर को जैसे रोज साफ करने की जरूरत होती है वैसे हमारे मन को भी रोज शुद्ध करने की आवश्यकता होती है । इसलिये सतों के वचनो का कुछ परिचय गेज रखना और उसका चिंतन मनन करना बहुत लाभदायी होता है । इस तरह अपने मनकी शुद्धि का काम कार्यकर्ता नहीं करते हैं तो उनकी कर्तृत्वशक्ति दिन ब दिन बढ़ने के बजाय क्षीण होती जायगी । इसके अलावा जिस किताब ने जनता में काम किया है और जनता के दिलों पर जिसका असर है उस किताब से हमारे कार्यकर्ताओं का अगर परिचय न हो तो वे ग्रामो में क्या सेवा कर सकेगे । ग्रामों की सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो ग्रामवासियो की पवित्र भावनाओं के साथ हमारे दिल का संबध जुड़ जाना चाहिये । मुझे लगा कि यह चीज मैं आप लोगों के सामने भी रखूँ ।

‘पतिव्रता धर्म का अर्थ

आखिर जहाँ जो बहनें इकट्ठी हुई हैं उनको एक दो बातें कहना चाहता हूँ । हैद्राबाद राज्य में जब से मैंने प्रवेश किया है तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शराबखोरी बहुत है । इसमें से हम

कैसे छूट सकते हैं इसका जब मैं विचार करता हूँ तो उसमें स्त्रियों का मुझे बहुत काम दीखता है। माताओं के हाथ में भारी शक्ति है। सत्याग्रह की शक्ति स्त्रियों में जितनी होती है उतनी शायद पुरुषों में भी नहीं हो सकती। इसलिये आप बहनों से मुझे कहना है कि आप अगर निश्चय करे तो पुरुषों को व्यसनों से छुड़ा सकती हैं। लेकिन हम लोगो में ऐसा एक खयाल हो गया है कि पति-चाहे दुराचार भी करता हो तो स्त्री को कुछ बोलना नहीं चाहिये और उसको चुपचाप सहन करना चाहिये। इस तरह सहन करने में ही पातिव्रत धर्म है यह स्त्रियां समझती हैं। यह बात सही है कि पति दुराचारी भी हो तो भी उसकी सेवा करना पत्नी का काम है और पति की सेवा करके ही वह पति को जीत सकती है। लेकिन सेवा करने का यह मतलब नहीं है कि उसको उसके व्यसन में से छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। पति को दुराचरण से परावृत्त करने की जिम्मेवारी पत्नी पर है ऐसा पत्नी समझे तभी वह धर्म समझती है।

सूत कताई क्यों नहीं करते ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप बहनों कातनीं क्यों नहीं ? गांधीजी आखिर तक कातने का धर्म लोगों को समझाते रहे। अब हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद तीन साल बीत चुके लेकिन मिल का कपड़ा सब लोगों के लिये काफी मात्रा में पैदा ही नहीं होता है। मिल वाले पहले जितना कपड़ा पैदा करते

ये उतना भी अब नहीं कर पाते हैं, इसलिये लोगों में कपड़े की तंगी है। ऐसी दशा में हम लोग अगर मिल के कपड़े के भरोसे रहेंगे तो हमारे लिये वह अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं आप लोगों से निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर में बैठे बैठे अगर सूत कातेगी तो उससे देश की और गाँव की बहुत सेवा होगी।

मेडचल (जि० हैद्राबाद)

३-४-५१

अट्ठाइसवाँ दिन—

: ३२ :

प्राकृतिक चिकित्सा

मामूली बीमारी में दवा की जरूरत नहीं

हम लोग वर्धा से हैद्राबाद पैदल यात्रा में जा रहे थे, और आपके गाँव का मुकाम हमने नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पर एक भाई प्राकृतिक चिकित्सा का काम कर रहे हैं। उनका आग्रह रहा कि उनके स्थान में हम एक दिन बितावें। उनके काम का अभी आरंभ हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन जो थोड़ा समय बचता है उस में प्राकृतिक चिकित्सा का काम वे कर लेते हैं। मैंने उनकी बात मान ली। क्योंकि सर्वोदय की जो जीवन-योजना है उस में कुदरती इलाज के लिये एक विशेष स्थान है। और इस मुसाफिरी में भी हम लोगों को उसका अनुभव आया है। चार दिनों से मुझे बुखार आता था, और अक्सर ऐसे मामूली बुखार में बिना दवाई के केवल आहार के फरक से जो हो सकता है वह करने का हमेशा मेरा प्रयत्न रहता है। हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर का नाम लेना ही सब से बड़ी दवा है, जिसको अनेक महापुरुषों ने आजमाया है। तो हम भी उस पर श्रद्धा रखते हैं। हमने मुसाफिरी जारी रखी। चलना जैसे रोज होता था

वैसा होता रहा। कुछ आहार में फरक कर लिया। बाकी सारा कार्यक्रम जैसा का तैसा जारी रहा। चार दिन बुखार सतत आया। मैं तीन दिन की कल्पना करता था, लेकिन एक दिन वह और आगे बढ़ा। चार दिन के बाद वह गया। इस तरह भगवान कसौटी करता है और अनुभव देता है, कि साधारण बीमारी में कोई दवा वगैरह की जरूरत रहती नहीं। जीवन में थोड़ा परिवर्तन कर लिया आहार में फरक किया, कुछ विश्रान्ति पचनेद्रिय आदि को दे दी तो काम निभ जाता है।

गुलामी का अंश

मामूली बीमारियों में इस तरह काम हो जाता है। जो विशेष बीमारी होती है उस पर कोई खास इलाज अभी किसी को मूज्ञा नहीं है। तो उसके लिये केवल परमेश्वर के नाम का ही आधार रहता है। इस तरह से दवाइयों के लिये बहुत कम अवकाश है। लेकिन आज कल हम देखते हैं कि जिधर जाओ उधर डॉक्टर भी बढ़े हैं और रोग भी बढ़े हैं। और दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं दीखते हैं बल्कि मित्र ही दीखते हैं। क्योंकि दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बढ़ता और दूसरा घटता तो हम कह सकते थे कि वे एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन जहां डॉक्टर मजे में बढ़ते जाते हैं और रोग भी मजे में बढ़ते जाते हैं वहां यही अनुमान होता है कि दोनों मित्र हैं और दोनों हाथ में हाथ मिलाये चलते हैं। यह हिंदुस्तान के लिये बड़ा खतरा है कि हिंदुस्तान की जनता को परदेशी औषधियों का आधार लेना पड़े। भगवान ने अन्न हमारी

भूमि में पैदा किया तो हमारे रोगों का इलाज भी यहीं से होना चाहिये। लेकिन हर शहर में आप देखेंगे कि कोई छोटा सा भी रोग हुआ तो फौरन दवाई देते हैं और वह दवा परदेशी होती है। मानो यहाँ ऐसी कोई वनस्पति भगवान ने नहीं रखी, या यहाँ की कुदरत में ऐसी कोई शक्ति नहीं रखी, कि जिससे वह छोटा रोग भी दूर हो। लेकिन एक गुलामी जहाँ आती है वह अपने साथ दूसरी कई गुलामियों को लाती है। तो राजकीय गुलामी, अंग्रेजों की सत्ता, हम लोगों पर चली, वह तो चली गई। लेकिन उस के साथ-साथ दूसरी कई गुलामियाँ वह लाई थी वह अभी गई नहीं।

हिंदुस्तान की विशेषता

वास्तव में हमारे देश में वैद्यशास्त्र का काफी अच्छा विकास हुआ था। हमारे एक मित्रहमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान की भूमि में विद्यार्थे तो बहुत प्रकट हुईं, लेकिन दो विद्याएँ अद्वितीय हैं। एक वेदांतविद्या और दूसरी वैद्यविद्या। मैं इस चीज को वैसा कबूल नहीं करता हूँ। यह मैं कबूल करता हूँ कि यहाँ की वेदांत विद्या की बराबरी करनेवाली विद्या दुनिया भर में कहीं नहीं हुई। लेकिन यहाँ की वैद्यविद्या अद्वितीय है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। दूसरे देशों में भी काफी अच्छी वैद्यविद्या चली है। यूनान में चली है, अरबस्तान में चली है। आजकल पाश्चात्य देशों ने दवाइयों में और शरीर के संशोधन में बहुत तरक्की की है यह मानना पड़ेगा। तो हमारे देश में जो वैद्यशास्त्र निकला वह कोई अद्वितीय था या परिपूर्ण था ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता।

लेकिन फिर भी हमारे देश के लिये जो दवाइयाँ चाहिये वे यहीं की वनस्पतियों से मिलनी चाहिये । और यहां का वैद्यशास्त्र यहीं की वनस्पतियों के बारे में सोचता है इतनी विशेष बात हमारे लिये है । अर्थात् वैद्यशास्त्र के लिये यह कोई आश्चर्यकारक बात तो थी नहीं । क्योंकि जो हमारा वैद्यशास्त्र यहां पैदा हुआ वह यहां की वनस्पतियों के बारे में न सोचे तो और कौनसी वनस्पतियों के बारे में सोचेगा ? इसलिये यहां की वनस्पतियों का संशोधन उन्होंने किया । और वही हमारे काम का है । लेकिन वह कच्चा है, पूरा नहीं है । हमारी बहुत सारी पुरानी वनस्पतिया ऐसी हैं जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं । जिनका नाम भी हम नहीं जानते । तो वह सारा संशोधन हमें करना है ।

रोग-निवारण का मसाला हर गाँव में मौजूद है

इस संशोधन में हमें जितना समय लगेगा उतना हम दें । लेकिन साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि परमेश्वर की लीला और उसकी योजना ऐसी है कि वह हर किसी को पूरी तरह से स्वावलंबी बना देता है । ज्ञान के साधन हरेक को दिये हैं, अन्न-पाचन की शक्ति हरेक को दी है, शरीर परिपूर्ण हरेक को दिया है, हवा पानी हरेक के लिये मौजूद है । तो ज्वर का इलाज किस तरह करें यह तरीका भी हरेक को दिया हुआ ही होना चाहिये और वनस्पतियों का बहुत आधार भी लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । मिट्टी का उपचार हो सकता है, पानी का उपचार हो सकता है, उत्तम हवा का उपचार हो सकता है, प्रकाश का उपचार हो सकता है । इस तरह वेदों में सृष्टिदेवता की उपासना

अनेक प्रकार से बताई गई है। और कहा है कि रोगों के इलाज में पानी का कितना उपयोग है, सूर्यकिरणों का कितना उपयोग है। यह सब वेदों में भरा पड़ा है। और हम अगर जरा भी सोचें तो ध्यान में आ जायगा कि हमारा सारा शरीर इस ब्रह्मांड का बना है। शरीर में जो भी चीज भरी है वह सारी ब्रह्मांड में भी मौजूद है। बाहर पानी है तो शरीर में भी रक्त आदि भरा है। बाहर सूर्यनारायण है तो शरीर में आँख है, और प्रकाश है, बाहर वायु है तो शरीर में सांस है। इस तरह जो चीज बाहर है वह शरीर में भी मौजूद है। यहां तक कि बाहर जो सोने की और लोहे की खानें हैं वह भी हमारे शरीर में मौजूद है। याने हमारे रक्त आदि में जो धातु पड़े हैं उनमें लोहा भी है, तांबा भी है और सुवर्ण भी है। यह सारी चीजे जो ब्रह्मांड में हैं वे पिंड में भी पड़ी हैं। शरीर ही जब ब्रह्मांड का बना हुआ है तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इन चीजों का खूबी के साथ निर्भयतापूर्वक प्रेम से अगर उपयोग करे तो बहुत सारे रोगों का हल हो सकता है।

गांव में दवाखाना मत लाइये

इस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा की विद्या गांव गांव में पढ़ाई जानी चाहिये। अगर गाँवों के बारे में हम यह सोचें कि हर गांव में दवाखाना बने तो एक तो बनाना अशक्य है और दूसरे अगर बना भी लिया और बाहर की सारी वनस्पतियां वहां आने लगीं, तो गांव छूटने का एक नया रास्ता खुल जायगा। दूसरे रास्ते पहले ही बहुत बन चुके हैं, उन में यह और एक इजाफा अगर

हुआ तो गांव के रोग कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे ही। क्योंकि लोगों का आहार ही क्षीण हो जायगा। तो यह गांव का इलाज नहीं हो सकता कि बाहर की वनस्पतियां यहां आये और बाहर का डॉक्टर यहां काम करे। हो यही सकता है कि गांव में जो वनस्पतियां पैदा होती हैं उनका उपयोग सिखाये। और बिना वनस्पति के भी कहीं एकाध फाका कर लिया, या कहीं कुछ पानी का उपचार किया, कहीं एनीमा ले लिया। इस तरह अपना रोग किस तरह दूर हो सकता है यह तरीका लोगों को सिखाया जाय। अगर यह सिखाया जायगा तो आप देखेंगे कि कम से कम खर्च में लोगो की अच्छी से अच्छी सेहत बन जायगी। क्योंकि कुदरत में ऐसी शक्ति है कि वह शरीर को सुधारने के साथ साथ कोई दूसरा बिगाड़ उसमें पैदा नहीं करती। औषधियों से यह होता है कि एक रोग दूर हुआ ऐसा आभास जहां होता है वहां फौरन दूसरा रोग हो जाता है। इस तरह रोगो का सिलसिला लगा रहता है। और जहां एक दफा घर में बेतल का प्रवेश हुआ वहां वह बेतल उस घर से निकलती ही नहीं। वह, उस मनुष्य को खतम करती है। लेकिन स्वयं बची रहती है। यह हालत दवाइयो के कारण होती है।

शहरों में रोग क्यों बढ़े ?

तो देहातो का इन दवाइयो पर निर्भर रहना खतरनाक है। और शहरों के लिये भी वही चीज है। आखिर शहरों में रोग क्यों बढ़े ? इसीलिये बढ़ते हैं कि शहर के लोग ठीक ध्यायम नहीं करते, अपने घरों में बैठे रहते हैं तो अच्छी हवा उनको नहीं।

मिलती। खूब कपड़े पहनंत है तो सूर्य की किरणों से वंचित रहते हैं इस तरह परमेश्वर की दी हुई देनो से लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। घर भी ऐसे बने कि कुदरत से दूर रहना पड़ता है। काम भी ऐसा कि कुदरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर रात को जागेंगे, सिनेमा देखेंगे, खराब किताबें पढ़ेंगे, इस तरह अपने शरीर को और मन को भिगाड़ लेते है तो रोग बढ़ते है, और उनके उपचार के लिये फिर दवाइया लेते है। डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कई तरह के इजेक्शन चाहिये, निषिद्ध वस्तु का सेवन चाहिये, जो चीजें साधारणतया कोई खाता नहीं है वे खानी चाहिये, दूर दूर से महीनी चीजे खरीदनी चाहिये। यह सारा उसके पीछे आता है। और वह शहरवाला सब तरफ से क्षण हो जाता है। तो शहरों के लिये भी प्राकृतिक चिकित्सा ही उत्तम आधार है।

कुदरती उपचार सीख लो

अब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अगर मैं यहा विचार करूं तो वह बहुत समय का काम है। विचार बहुत है और अनुभव भी कुछ लिया है। एक बात सिर्फ कहना चाहुंगा। यहां जो भाई काम कर रहे है उनको आप मौका दीजिये। वे अपना धंधा करते हैं और बचे समय में यह काम करते हैं। लेकिन आप अगर उनको पूरा काम देंगे तो वे अपना धंधा भी छोड़ देंगे और इसी काम में लग जायेंगे। उनका उपयोग करो और उस विद्या को खुद सीखो। ताकि उन पर भी आधार रखने का मौका न

आये । और आप में से हरेक मनुष्य कुदरती उपचार में प्रवीण बन जाय । उसका ज्ञान हासिल करने के लिये बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है । हम क्या खाते हैं ? किस चीज से क्या पारिणाम होता है ? इस तरह का आत्मपरीक्षण करना अगर मनुष्य सीख जाय और थोड़ा संयम सीख ले तो यह विद्या हासिल हो सकती है । तो आप इस भाँड़े से वह विद्या हासिल करें यह आप को मैं सूचित करना चाहता हूँ ।

कुदाली फावड़ा चरखा कुदरती उपचार के औजार

अब एक दूसरी बात है । जहाँ प्राकृतिक उपचार का स्थान होता है वहाँ हॉट वॉटर बॅग रखते हैं, एनीमा रखते हैं, और भी कई तरह के ऐसे औजार रखते हैं । अब ये छोटे छोटे औजार बड़े काम के होते हैं और वे मनुष्य को जो राहत मौके पर देते हैं, वैसी राहत वनस्पतियों से भी कभी कभी नहीं मिलती । जरा एनीमा लेते हैं तो जो पेट दुखता था उसमें बहुत फरक पड़ा, और दूसरे बहुत से उपचार किये गये लेकिन पेट पर कोई असर नहीं हुआ यह घटना तो हमने कई बार देखी है और उसका अनुभव किया है । तो ये छोटे औजार काम के हैं । लेकिन मेरा मानना है कि इनके साथ साथ कुदरती उपचार की संस्था के पास एक खेत भी होना चाहिये । और मरीजों को उनकी सेहत को देख कर कुछ काम भी खेत में देना चाहिये । कुदाली फावड़ा चरखा आदि 'जो औजार हैं वे भी कुदरती उपचार के औजार हैं । ऐसा मेरा दावा है ।

कुदाली फावड़ा चरखा सार्वभौम औजार

कोई कहेगा कि यह तो एक पागल मनुष्य आया है। जहाँ भी कोई बात निकलती है तो कुदाली फावड़ा चरखा लाता है। उसको पूछते हैं कि भाई हिंदुस्तान की पैदावार कैसे बढ़ेगी, हिंदुस्तान लक्ष्मीवान कैसे बनेगा तो कहता है कि कुदाली लो, फावड़ा लो, चरखा लो। उसको पूछते हैं कि तालीम किस तरह दी जाय तो कहता है कि तालीम का जरिया कुदाली, फावड़ा और चरखा है। अब आज तो यह बोलने लगा कि कुदरती उपचार के औजार कुदाली फावड़ा और चरखा हैं। तो हर चीज के बारे में यह ऐसा ही कहता है तो यह पागल है ऐसा लोग कह सकते हैं। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा कि मेरा पागलपन इतने में खतम नहीं हुआ है। मैं और आगे बढ़ा हुआ हूँ। मैं यह भी कहता हूँ और कई मर्तबा कह भी दिया है कि हम को ये जो लड़ाइयाँ लड़नी हैं उन के औजार भी कुदाली फावड़ा और चरखा हैं। सामाजिक क्रांति हमें करनी है, राजकीय क्रांति भी करनी हमें बाकी है। कोई यह न समझे कि हिंदुस्तान में आज जो राज्यतंत्र चल रहा है वह आदर्श है। सर्वोदय की पद्धति में जो राज्यतंत्र आयेगा उसमें और आज के तंत्र में बहुत फरक होगा। तो हमें राज्यतंत्र भी बदलना है। उसके लिये जो लड़ाइयाँ लड़नी हैं उन लड़ाइयों के औजार भी मेरे मन में तो कुदाली, फावड़ा, चरखा और चक्की ये सारे हैं। और मेरा अपना विश्वास हो गया है कि मनुष्य बीमार पड़े ऐसी भगवान की हरगिज इच्छा हो ही नहीं सकती। उसने मनुष्य को

हर चीज दी है उसके साथ भूख दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि भूख के लिये परिश्रम करना परमेश्वर की आज्ञा है। मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाहता, और खाना चाहता है। और भूख से ज्यादा भी खाना चाहता है। इधर परिश्रम न करे और उधर भूख से ज्यादा खाए, यह चलता है तो परमेश्वर को क्रोध आता है और अपने क्रोध से वह हमें बीमारियाँ देता है। अगर हम ठीक कुदरती तौर पर जीवन बिताये और शरीर परिश्रम से ही रोटी कमाने का निश्चय करे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियाँ खत्म हो जायेंगी।

शरीर परिश्रमी भी बीमार क्यों पड़ते हैं ?

आप यह पूछ सकते हैं कि अपने देश में कई लोग शरीर परिश्रम से ही अपना गुजारा करते हैं फिर उन्हें क्यों बीमारियाँ हैं ? इसका कारण यह है कि उन पर परिश्रम का ज्यादा बोझ पड़ता है और उतने प्रमाण में उनको खानेको नहीं मिलता। दूसरे जो लोग परिश्रम नहीं करते वे उनका खाना खा लेते हैं। इस तरह ब्रे लूटे जाते हैं इस कारण उनको बीमारियाँ होती हैं। य काम नहीं करते हैं इसलिए इनको बीमारियाँ होती हैं, और इनको खाना नहीं मिलता है इसलिये इनको बीमारियाँ होती हैं। इस तरह दोनों बीमार ही पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर शरीर परिश्रम में लग जायें और माफक श्रम करे, नियमितता से जीवन बितायें और आहार की मात्रा देख कर अन्न सेवन करें, स्वाद के बश न हों तो ईश्वरीय योजना में मनुष्य को बीमार पड़ने का कोई कारण नहीं है। हममें जरूर भी संदेह नहीं है।

४।४।५१ बोलारम (जि. हैद्राबाद)

उनतीसवाँ दिन

: २९ :

शिक्षा प्रणाली कैसी हो

पैदल यात्रा का लाभ

दो साल पहले हैद्राबाद के राज्य में कुछ दिन घूमने का अवसर मिला था। और तब सिकंदराबाद भी आना हुआ था। उस वक्त की मुसाफिरी एक दूसरे उद्देश्य से हुई थी। और कुछ जिलों में घूम चुके थे। इस मर्तबा हम सर्वोदय की यात्रा के लिए निकल पड़े। सर्वोदय सम्मेलन शिवरामपल्ली में था इसलिए रास्ता भी वहाँ से हैद्राबाद राज्य में होकर ही जाता था। इससे चार पाँच जिलों का परिचय हुआ। पैदल यात्रा में जिस तरह कुदरत का और मनुष्य का समीप और स्वच्छ दर्शन होता है वैसा और दूसरे किसी तरीके से नहीं होता। और इसी अनुभव के लिये हमने पैदल निकलने का सोचा। कुल मिलाकर जो अनुभव मिला वह ब्रह्म ही लाभदायी रहा। और हम तो मानते हैं कि हमारे देश का दर्शन जो उसमें देखने को मिला है वह यद्यपि कल्पना के बाहर नहीं था तथापि हम अगर पैदल नहीं निकले होते तो वह दर्शन नहीं होता। यात्रा में छोटे छोटे गाँवों से भी जाना पड़ा, बड़े बड़े गाँव भी बीच में आये।

छोटे गाँवों की खूबी

छोटे छोटे गाँव जहाँ आये वहाँ उन गाँवों की अपनी अपनी खूबियाँ दीख पड़ें। यद्यपि गाँव में कुछ चीजें समान होती हैं फिर भी हरेक गाँव एक तरह से जिंदा होता है, मानों उसमें एक स्वतंत्र आत्मा होती है। हर गाँव की अपनी खुसूसियत होती है। जैसे हम एक ही सूर्योदय हर रोज देखते हैं फिर भी उसे देखने से कभी किसी का जी उबा नहीं। एक दिन सूर्योदय के मौके पर जो दृश्य दिखाई देता है वह दूसरे दिन कभी दिखाई नहीं देता। हर रोज नया नया ही दृश्य दीख पड़ता है। वैसी ही कुछ हालत देहातों की है। हर देहात में कुछ कुछ विशेषतायें होती हैं। वे सब हमें देखने को मिलीं। लेकिन जहाँ बड़े बड़े शहर आते हैं वहाँ अगरे एक शहर देख लिया तो दूसरा शहर देखने की जरूरत नहीं रही ऐसा लगता है। परदेशी वस्तुओं से भरी हुई वही दुकानें हर जगह नजर आनी हैं, वही मोटरो की दौड़धूप और चिल्ला की चञ्चलता हर जगह दख पड़ती है, सिनेमा खेल आदि वही हर जगह होते हैं। हर जगह वही आनंद की खोज और हर जगह वही आनंद का अभाव। किसी भी शहर में आप जाइयें उसका यही रूप दीख पड़ता है और शहर में जाने पर फौरन वही विचार फिर से मन में आते हैं। और मैं अकसर जहाँ किसी शहर में प्रवेश करता हूँ वहाँ मुझे वैसा ही लगता है जैसा ज्ञानदेव ने कहा था। एक जंगल का जानवर था जिसे कोई पकड़कर राज महल में ले गया। उसने राज महल

का सारा दृश्य देखा कि जिवर देखो उबर कई चीजे भरी पडी है और कई मनुष्य दौड धूप कर रहे है । तो वह बिचारा जगली जामवर एक कोने मे जा बैठा और उस गज्व में उसको सारा सुनसान लगने लगा । वैसे ही जब कभी मैं शहर में पहुचता हूँ तो मुझे लगता है । फिर भी शहर की जनता से भी सपर्क रखने की इच्छा रहती है, शहरो मे से काफी काम हो सकता है, शक्ति भी शहरों में भरी पडी है उसका हमें उपयोग करना है । इसलिये जह्र में आने की इच्छा होती है । लेकिन आने पर वही सवाल मन में लटते है ।

जहम सवाल

उन सब सवालों मे सब से महत्व का सवाल जो मेरे मन में आता है वह यही कि शहर की तार्किक का क्या करे । आज यहाँ आने पर हमारे मित्र का एक लडका हम मे मिलने आया । वह कॉलेज में पढ रहा है । हम जानते है कॉलेजों का हाल । फिर भी उससे पूछ लिया । उसने कहा कि पिता का आग्रह है और पढने की उम्र है तो पढता तो हू, परीक्षा भी पास करता हू, गिनता होशियर लडकों मे है, लेकिन पढने मे कोई टिलचस्पी नहीं है । जग भी रस नहीं आता । ऐसा लगता है कि व्यर्थ ही पढ रहा हू । बेकार सा शिक्षण मिल रहा है ऐसा आभास होता है । और अब तो बडी छुट्टी मिल गई है । याने २२ मार्च को परीक्षा खतम हो गई तब से छुट्टी शुरू हुई । जून के आखिर तक छुट्टी है । याने लगातार सवा तीन महीने की छुट्टी है । इन छुट्टियों में

क्या करना यह सवाल निकला ? जब यह सब मैं सुनता हूँ, और हर जगह यही सुनता हूँ, तो लगता है कि हम शिक्षण के बारे में अभी भी कुछ सोचते नहीं हैं। देश में जो उठता है वह यही कहता है कि इस समय देश में काम करने की, अधिक अन्न उपजाने की जरूरत है। सब तरह से हमारी कर्म की मात्रा में वृद्धि की जरूरत है। किसान धूप के दिनों में ही काम में लगा रहता है। वर्षा के पहले जमीन की जो कुछ तैयारी करनी होती है वह इन दिनों ही करनी होती है। तब यहाँ कॉलेज के शिक्षकों को और विद्यार्थियों को तीन तीन महीने लगातार छुट्टी दी जाती है। इससे मन को लगता है कि क्या ये हाईस्कूल-कॉलेज आदि जो चलते हैं वे आसमान में चलते हैं या जमीन पर चलते हैं ? और अगर जमीन पर चलते हैं तो किस जमीन पर चल रहे हैं ? हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक रखते हैं या नहीं ? यह सवाल हमेशा उठता है। और जो अच्छे लड़के होते हैं उनके मन में यही चीज खटकती रहती है कि हम जो सीख रहे हैं उसका आखिर हमारे देश के साथ कोई संबंध है या नहीं ? आज देशकी जो आवश्यकताएँ हैं वे हमारे नेता हमको बताते तो रहते हैं और हम सुना भी करते हैं। लेकिन यहाँ वही अपना गणित, वही अंग्रेजी जिसका कोई उपयोग देश के जीवन में अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो क्या हमारा समय बरबाद नहीं हो रहा है ? उस तरह हमारे अच्छे अच्छे लड़कों को जब वे कॉलेज में सीखा करते हैं तब बहुत मानसिक तकलीफ हुआ करती है। और ठीक

भी है। क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है जब कि उनके मन में अनेक आकांक्षायें उठती हैं। अनेक कल्पनायें मनमें वे करते हैं, भविष्य के अनेक चित्र उनके मन के सामने उठ खड़े होते हैं। मैं फलाने के जैसा बनूंगा, जीवन में फलाना काम करूंगा, इतिहास की कई मिसालें उनके सामने होती हैं। उन मिसालों में से एकाध मिसाल मेरी भी होगी ऐसी वे उम्मीद करते हैं। इस तरह मन में वे कई तरह के मोदक चखा करते हैं। उनका वह मानसिक विहार, उनकी वह तस्वदृष्टि, चाहे उसमें से कुछ भी फलित न होना हो, मैं बहुत पवित्र मानता हूँ।

मानव की विशेषता

इस तरह की मनोमय सृष्टि, ऐसी दिव्य कल्पना, आप चाहे इसे व्यर्थ कल्पना भी कह सकते हैं, जिसके जीवन में यह नहीं उठी उसमें और जानवर में कोई फरक नहीं है। मनुष्य का सिर भगवान ने आसमान में पैदा किया उसके पांव ही पृथ्वी पर होते हैं। कोई मनुष्य अगर दो हाथों और दो पाँवों पर चलना शुरू कर दे तो हमको वह जानवर की मूर्ति दिखेगी। हम कहेंगे कि मानवता इसमें से भिट गई! मानव की विशेषता यह है कि पाँव उसके चाहे सृष्टि पर रहें उसका सिर आसमान में होना चाहिये। उसकी कल्पनाशक्ति जमीन के साथ नहीं होनी चाहिये। बल्कि वह निरंतर कुछ न कुछ विशाल कल्पनायें करता रहता है, दिल की उड़ान, ऊँचे बिन्दु, और उस व्यय के लिये जितनी भी कोशिश हो सके, मैं करूँगा। ऐसा मनुष्य विचार करता है। इस तरह अगर इतने मनुष्य नहीं

करता है तो वह उसका कमनसीव है। जो विद्यार्थी कॉलेज आदि में पढा करते हैं उनके मन में ऐसे विचार उठा करते हैं। उनमें से दस पांच विद्यार्थी ऐसे होते भी हैं कि जिनकी कल्पना सत्यसृष्टि में प्रकट होती है, आविर्भूत होती है।

विद्यार्थियों की सहजस्फूर्ति

जीवन का हमेशा ऐसा ही स्वरूप होता है। कोई भी चाज सबसे पहले मन में होती है। मनोमय सकल्प होता है। सकल्प से फिर आगे वाणी को प्रेरणा मिलती है। जो विचार मन में आता है वह मनुष्य बोलने लगता है, दूसरे से कहने लगता है। लोग पूछेंगे कि अरे भाई, तू मन्त्र में विचार करता है और वाणी से भी बोलता है लेकिन तू काम क्या करता है? तो वह जवाब देगा कि भाई, इसके बाद ही काम होनेवाला है। पहले मन में स्वरूप, उसके बाद वाक्स्फूर्ति, उसके बाद हाथ-पाव को प्रेरणा। यह सारी प्रेरणा की विधि है। इसी तरह से दुनिया में कार्य होता है। तो विद्यार्थियों के जीवन में भी कई सकल्प उठते हैं। वाणी भी उनकी चलती है। वे आपस में चर्चा किया करते हैं। बड़े बड़े नेताओं पर भी वे टीका करते हैं। वे जानते हैं कि हम कौन हैं और नेता कहां हैं? नेताओं की बुद्धि थोड़े ही हम में है? फिर भी वे निरपेक्ष विचार करते हैं। और जैसा मन में आता है वैसा बोल भी देने हैं। तो यह उनकी काव्यशक्ति है, यह उनकी सहजस्फूर्ति है, यह उनकी निरंकुश वृत्ति है। वह उनकी

सहज प्रतिभा है, यह उन्हें परमेश्वर की प्रेरणा होती है ऐसा ही मैं कहूंगा। यह उनकी तरुणता की स्फूर्ति है। उस स्फूर्ति में वे कुछ दिन बिताते हैं और उसके बाद कुछ कृति का आरंभ करते हैं। कृति का मार्ग नकशा इसी तरह होता है। विद्यार्थियों का और दूसरो का भी नकशा यही है। तो ये सारे विद्यार्थी अपने मन में सोचा करते हैं कि हम जो मीग्व रहे हैं उसका परिस्थिति से कोई संबन्ध नहीं है।

शिक्षण से अपेक्षा

खैर शिक्षण में तो दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो यह कि जो भी शिक्षण दिया जायगा वह आज जनता के स्वर्च से दिया जाता है तो उसका प्रत्यक्ष व्यवहार में कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिये। जो तालीम ले रहे हैं वे तालीम लेने के बाद ऐसे काबिल बनने चाहिये कि वे दुनिया की सेवा करने में आगे बढ़ेंगे। और जितना उन्होंने पाया था उससे दस गुना वापिस दिया ऐसा कह सकेंगे, यह हालत होनी चाहिये। जैसे कोई बीज खेत में एक सेर बोया जाता है तो उसमें से पच्चीस सेर उपजता है। वैसे ही विद्यार्थियों के चित्त में जो विचार बीज बोया गया है वह दस गुना बीस गुना बढ़ कर पैदा हो ऐसी उम्मीद की जाती है। शिक्षण में जो सिखाया जाता है उसका व्यवहार पर अनेक गुण परिणाम होना चाहिये। जितना खर्च किया होगा उससे बहुत अधिक फलित उसमें में निकलना चाहिये। यह एक आशा रखी जायगी।

शिक्षण से दूसरी आशा यह रही जायगी कि जिनको शिक्षण दिया जाता है उनको उनकी उम्र के लिये, उनके निजी विकास के लिये जो भी जरूरी खुराक है वह उससे मिलनी चाहिये। वह तो हम वर्तमान शिक्षण में देखते ही नहीं हैं। वहा तो सिर्फ स्मरणशक्ति का प्रयोग होता है, कुछ थोडा तर्क का उपयोग होता है। इसके सिवाय बुद्धि की दूसरी कोई शक्तिया है और उनका भी विकास करना होता है, उनके विकाम के कई तरीके होते हैं. उसका भी एक शाख बना हुआ है, उस शाख का शिक्षण के साथ संबंध है। इन सब चीजों का आज की शिक्षा पद्धति में कोई संबंध नहीं आता। वास्तव में मन की जितनी शक्तिया हैं वे ऋषियों ने हमको समझायी है। और अनुभव से देखेंगे तो हमको भी माझूम होगा कि जितनी शक्तिया इस दुनिया में हैं वे सारी मन में होती हैं। “अनंतं हि मनः अनंता विश्वेदेवाः” विश्वदेव अनंत हैं। उसकी एक एक मनोवृत्ति और मानसिक शक्ति का विश्लेषण करते है तो उसके कई गुणों का हमको आभास आता है। आत्मा सच्चिदानंद है और उसके सान्निध्य से मन में अनंत गुणों की छाया प्रतिबिंबित होती है। अनंत गुण मन में प्रकाशित होते हैं। हमने कई महापुरुष ऐसे देखे हैं कि उनके गुणों की अगर गिनती करें तो कोई पार नहीं आता। सैकड़ों गुणों का नाम लेना पड़ता है और कहना पड़ता है कि इस महापुरुष में इतने गुण थे।

शिक्षण की आरम्भ

‘इस तरह के गुणों के विकास के लिये बहुत अवकाश है। और मन में ऐसी अनेक शक्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन उन शक्तियों के विकास का कोई कार्यक्रम हमारे शिक्षण में है ही नहीं। हम लोगों को अनुभवी पुरुषों ने सिखाया कि मुख्य शिक्षण तो यहाँ लेना है कि हम को अपने आप को अपने शरीर से भिन्न, अपने मन और बुद्धि से भी भिन्न पहचानना चाहिये। यह अपनी निज की पहचान सब गुणों का राजा है। यह पहचान जहाँ हुई जहाँ अपना अस्तित्व, सब उद्विग्न और बुद्धि, मन आदि से भिन्न अपने को महसूस हुआ वहाँ हमने ऐसा महान अनुभव हासिल किया कि जिसके द्वारा बाकी सारे गुणों का विकास हम कर सकते हैं। तो उसका तो हमारे शिक्षण में कोई पता ही नहीं है। शरीर से अलग को भिन्न पहचानना, मानसिक विकारों में अपने को भिन्न पहचानना, मन में अगर कोई कल्पना आई तो उसको एकदम सा प्रकट न करना, उसका सही विकास होना देना, उसकी सही परीक्षा करना, कुछ बीरज रखना, उसका विश्लेषण करना, उसमें अगर ऐसा कोई दीखा कि जो काम का नहीं है तो उस अंश को निकाल देना, और इस तरह अपनी मनोवृत्ति का विश्लेषण करके जो अच्छा अंग उसमें से मिलेगा वही दुनिया के सामने रखना, यह सारा मानसिक विश्लेषण का और व्यक्ति के विकास का एक महान कार्य है। यह कार्य अगर शिक्षण में नहीं होता है तो शिक्षण का

कोई अर्थ ही नहीं है। शिक्षण में मुख्य वस्तु यह देखनी चाहिये कि जो बड़ा शिक्षण ले रहा है उसको गुणों का विकास किस तरह हो रहा है और वह अपने निज को अपनी प्रतिस्थिति से और दहादिक साधनों से भिन्न पहचानता है या नहीं, उसका कानू उन सब पर है या नहीं। प्राचीन काल से उपनिषदों में हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता था कि गुरु के पास जा कर अगर विद्यार्थी विद्या हासिल कर लेता है लेकिन व्रत में संपन्न नहीं होता विद्यास्नातक भले ही कहलाये लेकिन वह पूर्ण स्नातक नहीं हो सकता। उसको विद्यास्नातक होने के साथ साथ व्रतस्नातक भी होना चाहिये। अर्थात् कुछ व्रतों के पालन में उसको कामयाब होना चाहिये। उसे अपने निज पर काबू पाना चाहिये। जिस धाड़े पर हम सवार हैं उम्र घोड़े को किस तरह चलाना, उसे घोड़े के कानू में न जाना बल्कि उसको अपने कानू में रखना, और उस घोड़े से अच्छी तरह काम किस तरह लेना यह सारी जो कला है, आत्मदमन की कला, आ मनियमन की, आश्रम के उपयोग की, वह कला सीखना यही शिक्षण का एक महत्त्व का उद्देश्य होना चाहिये। इसी को व्रतस्नातक कहते हैं।

व्रतस्नातक की वीर वृत्ति

ऐसे कई व्रत हैं जिनको हमें ठीक तरह समझ लेना चाहिये, जिनका पालन करने की शक्ति हमें हासिल कर लेनी चाहिये और उस कुत्सीटी पर अपने को कसू लेना चाहिये। इस तरह विद्यार्थी

जब कसा हुआ तैयार होता है तब वह आगामी सेवा के लिये काग
 गर सम्बन्धित होता है, उत्तम नागरिक बनता है। वह जहा दुनिया में
 प्रवेश करता है वहा वीरवृत्ति से, आत्म विश्वास से प्रवेश करता है।
 आज विद्यार्थी जब कॉलेज के बाहर पड़ता है तो उसकी आख के
 सामने अधेरा होता है। किमी तरह कही प्रवेश पा लेता है। लेकिन
 वहा उसको जाना है वही वह जाना है और अपने मन की इच्छा
 के मुताबिक ही जाता है ऐसी बात नहीं होती। जहा वह फँका
 है वहा वह जाता है। इस तरह सारा नसीब का खेल होता है।
 लेकिन जो विद्यार्थी उत्तम प्रकार में ब्रतमपन्न हो गया और जिसने
 अपनी आमा का दमन कि उम पर विजय प्राप्त कीया और
 जिसका विकास अच्छा हुआ जिमने व्यवहारोपयोगी विद्या सपादन
 की एसा जो विद्यार्थी होगा वह जब दुनिया में प्रवेश करेगा तब
 सिर झुका करके नहीं बल्कि सब के सामने छाती करके पूर्ण आत्म-
 विश्वास से चलेगा। और " नमयतीव गति धरिणीन " उसकी गति
 से यह धरती टब जायगी। ऐसे वीरावेश में वह दुनिया में प्रवेश
 करेगा।

विनय संपन्नता ज्ञान का परिणाम

इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उद्धत बनेगा। उसमें नम्रता भी
 रहेगी। क्योंकि जो मनुष्य ज्ञान हासिल कर चुका वह यह महसूस
 करता है कि ज्ञान कितना अनंत है और उसमें से मुझे कितना
 और-सा हिस्सा मिला है। इसलिये सच्चा ज्ञानी और सच्ची विद्या
 पाया हुआ मनुष्य जितना विनयसंपन्न होगा उतना विनयसंपन्न वह

नहीं होगा जिसने विद्या नहीं पाई है। क्योंकि विद्या का दर्शन उसको नहीं हुआ है। जिसने विद्या के सागर का दर्शन किया उसके ध्यान में आता है कि ज्ञान का न कोई पार है न अंत है और मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ है वह एक अशमात्र है। इसलिये सारी जिंदगी भर मुझे ज्ञान का खोज जारी रखनी चाहिये। मैंने जो विद्या पाई वह तो केवल आरम्भ मात्र है, सरस्वती के स्थानमें वह थोडासा प्रवेश मात्र है। इसलिये मुझे जिंदगी के आखिर तक अपनी विद्या बढ़ाते ही जाना चाहिये। फिर भी दुनिया की विद्या इतनी अपार बची रहेगी कि मैं केवल एक अंग ही हासिल कर सकूंगा। इस चीज का उमको पूरा भान होगा इसलिये वह हमेशा नम्र रहेगा। इसीलिये हम लोगो ने विद्वान मनुष्य के लिये विनीत शब्द बनाया और "प्रजाना विनयाधानात्" प्रजा को विनयमपन्न बनाना चाहिये ऐसा कहा गया है। याने शिक्षण के लिये विनय शब्द का प्रयोग हुआ। यो विनयमपन्न तो वह होगा ही। अगर वैसा वह नहीं है तो वह विद्या प्राप्त ही नहीं है। इसलिये नम्रता का होना अत्यन्त आवश्यक है।

धृति का आवश्यकता

लेकिन नम्रता के साथ साथ दृढ़निश्चय, आत्मविश्वास, वैर्य, निर्भयता इत्यादि सब उसमें होगा। याने धृति उसमें होगी। बुद्धि के साथ धृति भी होनी चाहिये वह उसमें होगी और जहां वह ससार में प्रवेश करेगा वहां जैसे कोई विजयी वीर प्रवेश करता है उस वृत्ति में

फिर जहाँ वह नागरिक बनता है वहाँ कई तरह के अभ्यास भी वह करता है ।

अध्ययन की हमारी परंपरा

लेकिन आज हम देखने हैं कि अध्ययन का तो हमारे देश में अभाव-सा हो गया है । यद्यपि यह देश प्राचीन है और यहाँ अध्ययन पुराने जमाने से निरंतर चला आ रहा है, अध्ययन की एक अखंड परंपरा परसों तक यहाँ चल रही थी, और जिस जमाने में बाकी दुनिया के सारे लोग घोर अंधकार में पड़े थे और विद्या से परिचित नहीं थे, उस जमाने में यहाँ विद्या थी । और यहाँ के लोग बड़ी फजर उठते थे । “अनुब्रुवाणः अध्येति न स्वप्ने” बड़ी फजर में सोते नहीं रहते थे, और अध्ययन करते थे । इस तरह से अध्ययन की परंपरा अनिप्राचीन काल से यहाँ चली आई है । फिर भी अब हम देख रहे हैं कि किसी न किसी विषय का अच्छा अध्ययन किया हुआ मनुष्य मुश्किल से यहाँ मिलता है ।

हमारी समस्याओं का हल शिक्षा प्रणाली में

हमने स्वराज्य हासिल कर लिया है । स्वराज्य में कई तरह की जिम्मेदारियाँ हम पर आ पड़ी हैं । उन सारी जिम्मेदारियों को तभी अच्छी तरह निभा सकते हैं जब कि हरेक विद्या में, हरेक तरह की शाखा में प्रवीण लोग हममें हों, और निरंतर कुछ न कुछ अध्ययन करते रहें । तभी हमारे देश का काम भी आगे बढ़नेवाला है । लेकिन अध्ययन करनेवाले लोग में बहुत कम देखता हूँ, उसका सारा

कारण इस शिक्षा पद्धति में है। क्योंकि वहाँ जब मनुष्य दाखिल होता है तो दस पाँच साल सीखने के बाद उसका सारा रस शुष्क हो जाता है। उसकी प्राणशक्ति क्षीण होती है। और मानसिक शक्ति भी बढ़नी नहीं है। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है। आप देखते हैं कि स्कूल में जाने के कारण आँख की शक्ति क्षीण हो गई शरीर शक्ति क्षीण हो गई, मानसिक शक्ति भी जीर्ण हो गई, बुद्धि की कई शक्तियों का विकास ही नहीं हुआ और सब से बड़ी बात यह कि प्राणहीनता आ गई है। आत्मा का भान नहीं, देह से हम भिन्न हैं इसका पता नहीं, अपने माधनों पर काबू नहीं तो क्या शिक्षण मिलता है ?

हमारा प्राचीन वैभव

मैं जब यह वर्णन करता हूँ तो मुझे खुशी नहीं हो रही है। मुझे बहुत दुःख होता है कि हमारे इस देश में इतनी सारी विद्या बड़ी हुई थी वहाँ आज क्या है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि “प्रथम साम्प्रत तत्र तपोवने, प्रथम प्रचारित तत्र वन गहने, ज्ञान धर्म कत काव्य काहिनी, अर्था मुवन मनमोहिनी”। ऐ. भुवन के मन को मोहन करनेवाली माता, यहाँ सूर्योदय पहले हुआ था और यहाँ मन्मथान्न पहले हुआ था, और यहाँ की विद्या की किरणें सारी दुनिया में फैली हुई थीं। ऐसा स्मरण जहाँ हम अपनी मातृभूमि के लिये करते हैं वहाँ जो कुछ चल रहा है उसका वर्णन करने में मुझे सुख नहीं होता है बल्कि अत्यंत दुःख होता है।

स्वराज्य के बाद शिक्षा पद्धति फौरन बदलनी चाहिये

स्वराज्य के बाद पुरानी शिक्षण पद्धति वैसी ही कैसे जारी है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। स्वराज्य आने के बाद, जो चीजें पहले चलती थीं उनमें से बहुत सी बाद भी चलती रहेंगी यह मैं जानता हूँ। लेकिन शिक्षण भी चलता रहेगा यह मेरी कल्पना में भी नहीं था। मैं यहाँ मानता था कि जहाँ स्वराज्य आयेगा वहाँ शिक्षण फौरन बदल जायगा। शिक्षण अगर स्वराज्य आने के बाद भी नहीं बदलता है तो उस स्वराज्य का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस शिक्षा प्रणाली को हम बरसों तक कोसते रहे और जिसने हमारा नुकसान किया ऐसा सब लोग बोलते हैं, और जो शिक्षा पद्धति हमें गुलामी में रखने के उद्देश्य से न भाँ हो लेकिन जिसका परिणाम यही निकला कि हम अच्छे गुलाम बने, इस तरह से तैयार की गई उस शिक्षा पद्धति को हम जारी रख सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ होता है कि हम इस विषय में सोचते नहीं हैं। हमारे सामने दूसरी कई समस्याएँ हैं। उन समस्याओं ने हमारा सारा दिमाग व्यस्त कर दिया है। और उन समस्याओं के हल में हम मशगूल हैं। हमको कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारी कठिन समस्याएँ हैं वे भी तभी हल होंगी जब हमारी शिक्षा में हम फरक करेंगे।

तो आप नागरिकों से मैं कहता हूँ कि आप सब को एक आवाज से कहना चाहिये कि यह शिक्षा हमें नहीं चाहिये, इसमें जरूर परिवर्तन होना चाहिये। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता था।

मिफदराबाद

५-४-५१

तीसवां दिन

: ३४ :

हैद्राबाद हिंदुस्तान की समस्याओं का प्रतिनिधि

आज पैदल यात्रा करते हुये करीब एक महीना हो रहा है। अभी मैं आप के गांव आ पहुंचा हूं और कुछ परमेश्वर की कृपा से शिव-रामपल्ली जाना होगा। आप लोग जानते हैं कि वहां सर्वोदय सम्मेलन हो रहा है। उसके लिये हम पैदल निकल पड़े। आप लोगों में से भी बहुत सारे वहां पहुंच जायेंगे और जो कुछ वहां पर प्रार्थना आदि में सुनने का अवसर मिलेगा उसमें शरीक होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

आज सुबह हम पांच बजे सिकंदराबाद से निकले और यहाँ पहुँच आये तो बीच में लोगों ने काफी प्रेम हम पर बरसाया। हम नहीं जानते कि उस प्रेम के फायदे हम क्या बनेंगे। उसके लिये अभी तो हम इतना ही कर सकते हैं कि आप लोगों का शुक्रिया मानें।

हरिजनों के छात्रालय मलग न हो

लेकिन उस में एक घटना हुई जिसका मुझे कुछ रंज रहा। वह मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ। और वहाँ से मुझे जो कुछ कहना है उसका आरंभ भी हो जाता है। हुआ यह कि

बीच में हम को रोक लिया गया और हम एक हरिजन छात्रालय में ले जाए गये। वहाँ पर कोई बीस पच्चीस हरिजन छात्र खड़े थे उनकी मुलाकात हुई। हम ने पूछा कि क्या यहाँ हरिजनों के अलावा और भी कोई दूसरे लड़के रहते हैं ? तो जवाब मिला कि नहीं सिर्फ हरिजन ही यहाँ रहते हैं। वह सुन कर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वहाँ भी बनाया और वही बातें यहाँ रखना चाहता हूँ कि इस तरह हरिजनों के अलग छात्रालय चलाना, यह कोई अस्पृश्यता निकालने का तरीका नहीं हो सकता, बल्कि वह तो अस्पृश्यता टिकाने का तरीका हो सकता है। जब पहले ये छात्रालय शुरू हुये तब इनकी जरूरत भी रही होगी उस हालत में, उसकी ब्रह्म में मैं नहीं पड़ता। लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति में मेरा मानना है कि हरिजनों के अलग में छात्रालय नहीं चलने चाहिये। बल्कि सब छात्रालयों में उनको जगह देनी चाहिये। उनकी तालीम के लिये जो भी सहुलियत दी जा सकती है वे जरूर दी जानी चाहिये। लेकिन किसी तरह से उनको अलग जाति के प्राणी समझ करके रखना उचित नहीं है। इन दिनों अगर यह तरीका हम अख्तियार करेंगे तो उससे हमारा मकसद नहीं हासिल होगा बल्कि उलटी दिशा में हम जायेंगे ऐसा मुझे लगता है। मैंने तो सुना कि यह हालत इस एक ही छात्रालय की नहीं है बल्कि सारे राज्य में ऐसा ही कुछ चला है और इस तरह अलग अलग छात्रालय रखने से हरिजनों की सेवा होती है, ऐसा कुछ ख्याल है। यह मैं जरूर समझ सकता हूँ कि जिन्होंने यह शुरू किया होगा उन्होंने हरिजन छात्रों

की सेवा के ही खयाल से ऐसा किया है, और छूत अछूतभाव मिटाने की उनकी मंशा भी है यह मैं मानता हूँ। लेकिन बावजूद उनकी मंशा के और उनके सद्भाव के यह तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे हमारा सारा समाज एक रस बन जायगा।

केवल इन्सान बनें

हमको जो काम करना है वह यही करना है कि हिंदुस्तान का सारा समाज एक रस बन जाय। इनके बड़े समाज में भिन्न भिन्न विभाग हो ही सकते हैं, इस में कोई बात नहीं है। कई ध्ये रहते हैं। उनके करनेवालों के मानसिक संस्कार अलग अलग होते हैं। यह सारी विविधता समाज में रहेगी। लेकिन विविधता के रहते हुए भी अंदर से एकता महसूस होनी चाहिये जिससे सारा समाज एक रस प्रतीत हो। आज कल तो यहाँ तक हालत है कि राज्यों के चुनावों में जहाँ कोई जाति और धर्म का सवाल होना नहीं चाहिये वहाँ भी चुनाव में जब लोग खड़े किये जाते हैं तब उनकी जाति और धर्म देखे जाते हैं। और जाति और धर्म का खयाल करके चुनाव के लिये आदमियों को खड़ा करना पड़ता है। यह सारी दुर्दशा है। इसमें से हमें मुक्त होना है यह ध्यान में रहना चाहिये। और यह तभी बन सकता है जब हम हरेक हिंदुस्तानी को सिर्फ हिंदुस्तानी के नाते से देखेंगे। इतना ही नहीं बल्कि वह एक इन्सान है इस खयाल से देखेंगे तभी यहाँ का समाज एक रस होगा और हिंदुस्तान.

के जरिये दुनिया में जो बड़ा काम होनेवाला है उसकी पात्रता हमें हस्तिल होगी ।

परमेश्वर की मंशा

जहाँ मैंने हिंदुस्तान के हाथ से होनेवाले बड़े काम का जिकर किया वहाँ आप लोग सुनना चाहेंगे कि वह बड़ा काम कौनसा है । मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लिये परमेश्वर ने एक बहुत ही भारी काम सौंप रखा है । अगर ऐसा उसका विचार नहीं होता तो हम जैसे टूटे फूटे लोगो को अहिंसा के तरीके से आगे बढ़ाना और उनको एक बड़ी भारी इकूमत के पंजे से छुड़ाना और उनके हाथ में हिंदुस्तान की सत्ता देना यह सारा नाटक परमेश्वरने किस लिये किया ? यह उसने इसलिये किया है कि उसकी मंशा है कि हिंदुस्तान के जरिये एक विचार जिस की सारी दुनिया को आज भूख है, फैले ।

सर्वोदय से स्फूर्ति

आप लोगों को इतना तो मालूम है कि यहाँ हम लोगों ने गांधीजी का एक शब्द मृत्यु के पीछे ले लिया है । उनका वह शब्द है सर्वोदय । अब वह शब्द हिंदुस्तान भर में चल पड़ा है । हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी उस समाज में दाखिल होना चाहते हैं । और यहाँ तक कहते हैं कि हमें कोई ऐसा चिह्न बताओ कि उसके रखने से हम सर्वोदय के सेवक के तौर पर जाहिर होंगे । हम-अहिंसा के प्रेमी हैं इसका इजहार होगा । इस तरह हिंदुस्तान

के बाहर के लोग पूछते हैं। याने सारी दुनिया में एक छोटीसी जमात भी क्यों न हो ऐसी तैयार हो गई है जो कि अपने को एक ही कौम एक ही हुकूमत एक ही जमात मानती है और जो अहिंसा में ही दुनिया का भद्र और छुटकारा देखती है। यह जमात आज जरूर छोटी है। लेकिन आगे वह बढ़नेवाली है। इसलिये बढ़नेवाली है कि दिन ब दिन विज्ञान की प्रगति होनेवाली है।

विज्ञान चाहते हो या अहिंसा

जब कोई मुझे पूछते हैं कि क्या दुनिया में अहिंसा फैलेगी ? अहिंसा के लिये दुनिया में मौका है ? तो मैं कहता हूँ कि अहिंसा के लिये ही दुनिया में मौका है। और इसका सबूत ही यह है कि दुनिया पुराने जमाने की हालत में रहना नहीं चाहती, बल्कि विज्ञान की प्रगति करना चाहती है। जहाँ विज्ञान की प्रगति होती है वहाँ सारी दुनिया, सारा समाज, एक बन जाता है। और ऐसी एक शक्ति हाथ में आती है कि जिसका जोड़ हम अहिंसा के साथ अगर न करें तो मनुष्य की हस्ती ही खतरे में आ जाती है। तो अब मनुष्य के सामने हिंसा को पसंद करना या अहिंसा को पसंद करना यह सवाल नहीं है। बल्कि आप विज्ञान को पसंद करते हैं या नहीं सवाल यह है। अगर आप विज्ञान को पसंद करते हैं तो आपको हिंसा छोड़नी ही होगी। और अगर आप हिंसा को पसंद करते हैं तो आपको विज्ञान को छोड़ना

होगा। दोनों एक साथ नहीं चलेगे। अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो दोनों मिल कर मानव जाति का खातमा करेंगे। इसलिये अगर हिंसा को चाहते हैं तो विज्ञान की प्रगति रोकें, फिर हिंसा कुछ न कुछ चलेगी। और अगर विज्ञान की प्रगति को रोकना नहीं चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो तो हिंसा को छोड़ो। याने हिंसा या अहिंसा यह सवाल नहीं है बल्कि विज्ञान चाहते हो या नहीं यह सवाल है।

विज्ञान अनिवार्य है

मैं तो विज्ञान को चाहता हूँ, उसमें विश्वास रखता हूँ। विज्ञान ने ही मानव का जीवन प्रेममय, परस्पर सहकारमय हो सकता है, ज्ञानमय बन सकता है, उसके विचार का लेखल भी ऊंचा हो सकता है। यह सारा विज्ञान से होता है। इसलिये विज्ञान की प्रगति को मैं रोकना नहीं चाहता बल्कि उसको बढ़ाना चाहता हूँ। इसीलिये जानता हूँ कि उसकी तरक्की के साथ हिंसा चलेवाली नहीं है। नो हिंसा को छोड़ना ही होगा। ऐसा संकल्प विज्ञान को बढ़ाने के लिये अवश्य है। अगर ऐसा संकल्प मैं नहीं करता हूँ तो विज्ञान का ही शत्रु बन जाता हूँ। आज दुनियां सायन्स को छोड़ना नहीं चाहती इससे जो लाभ हैं वह जाहिर हैं।

विज्ञानवालों की राय

इसलिये सारे समाज में अभी एक ऐसा विचार फैला है, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, कि अगर मानवों के मसलों

को हल करने का कोई अद्वितीय तरीका सूझे तो जरूर उसको खोजना चाहिये और हांसिल कर लेना चाहिये। तो विज्ञान के लोगों को लगता है कि यह तरीका शायद गांधीजी ने जो प्रयोग हिंदुस्तान में किया उसमें से दुनियां को भी मिले। तो दुनियां इस आशा से हिंदुस्तान की तरफ देखती है।

हैद्राबाद हिंदुस्तान की प्रतिमा

और आज जब कि मैं हैद्राबाद में आया हूँ तो मुझे यह भी कहने की इच्छा होती है कि यह आपका छोटासा हैद्राबाद सारे हिंदुस्तान का एक नमूना है। क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी विविधताये हैं वे सारी यहाँ मौजूद हैं। यहीं हिंदू और मुसलमान काफी तादाद में हैं, अनेक धर्मवाले भी यहाँ इकट्ठे हो गये हैं। यहाँ विविध भाषायें विकसित हो रही हैं। इसलिये यह छोटा सा राज्य और यह छोटा सा शहर हिंदुस्तान की एक प्रतिमा या हिंदुस्तान का एक छोटा सा रूप है। तो जो सवाल हम यहाँ हल करेंगे उससे सारे हिंदुस्तान का सवाल हल करने की कुंजी मिल जायगी और सारी दुनिया के सबालों को भी हल करने की कुंजी मिलेगी। तो हैद्राबाद वालों की जिम्मेवारी समझाने के लिये मैंने प्रास्ताविक तौर पर ये कुछ शब्द कहे हैं। आप लोगों को मैं जागृत कर देना चाहता हूँ। आप यह मत समझिये कि हम एक छोटे शहर के रहने वाले हैं। बल्कि आप यह ध्यान में रखिये कि आप ऐसे शहर के नागरिक हैं कि जो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ अगर आप एक अच्छाई या बलाई का

नमूना बता सकें जिससे कि यहाँ की समस्यायें हल हुईं तो आप समझ लीजिये कि वह सारे हिंदुस्तान की एक बड़ी भारी खिदमत जैसी होगी। यह एक उत्तम मौका आप लोगों को मिला है। यहाँ आप की दृक्कमत कायम हुई है।

पुराने अनुभव का लाभ

कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में अनुभव की कमी है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो उल्टा मानता हूँ। याने हिंदुस्तान में काँग्रेस ने साठ साल तक अनुभव लिया वह तो यहाँ के लोगों को मुफ्त में मिला है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने अपना अनुभव हासिल किया होगा वह और। इस तरह से यहाँ के लोगों को ज्यादा अनुभव है ऐसा समझना चाहिये। जो लड़का एक विद्वान पिता के घर में पैदा होता है उसको पिता की विद्या तो पहले से ही प्राप्त होती है और उसके साथ साथ वह अपनी विद्या भी बढ़ाता है तो वह पिता से भी बढ़कर विद्वान होता है। यही हालत हैद्राबाद की है। हैद्राबाद वाले हिंदुस्तान को राह दिखा सकते हैं।

हैद्राबाद की विशेषताएँ

हैद्राबाद राज्य में मैं अभी पैदल चलता हुआ आया तो रास्ते में ऐसे कई गाँव मिले कि जिनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। तो यहाँ की मानवता किसी भी दूसरी जगह की मानवता से कम नहीं थी और यहाँ प्रेमभाव भरा हुआ मैंने पाया।

अब वह एक ऐसा वातावरण था, वह एक ऐसी हवा थी कि जहाँ अगर सेवकगण रह जायें तो एक स्वावलम्बी स्वराज्य जैसी वस्तु हम दिखा सकते हैं। आपका यह मुल्क पिछड़ा हुआ है ऐसा कहते हैं। अच्छी सड़के यहाँ नहीं हैं ऐसा कहते हैं, बात तो ठीक है। लेकिन यह जो पिछड़ी हुई बात है उसी का अगर हम लाभ उठायें तो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जहाँ ये सड़के बगैर आती हैं वहाँ दूसरी सड़कलियें तो हो जाती हैं पर उनके साथ साथ दुनियाँ की कई बुराइयाँ भी वहाँ आ पहुँचती हैं। तो वह बुराइयाँ अभी तक कई गाँवों में नहीं पहुँची हैं। ऐसे गाँवों में अगर हमारे कार्यकर्ता रह जायें और उस उस गाँव के लिये मोचने लों तो एक एक गाँव में एक एक रामराज्य स्थापित कर सकते हैं। यह स्थिति कई हिस्से में मैंने देखी।

फिर मैंने सोचा यहाँ अनेक जमाते इकट्ठी होती हैं और अनेक भाषाएँ इकट्ठी होती हैं। तो ये लोग जरा अगर कोशिश करेंगे तो मारे हिंदुस्तान के अगुआ बन सकते हैं। और ऐसी कोशिश यहाँ क्यों नहीं होगी? अगर यह ठीक तरह से अनुभव होगा और ध्यान में आ जाय कि हम इस तरह अगर करते हैं तथा सारे हिंदुस्तान को एक उत्तम मार्ग बताते हैं और यहाँ बैठे बैठे हिंदुस्तान की सेवा करते हैं, तो यहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को छोटे नहीं मानेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि हम तो परमेश्वर का कार्य करनेवाले उसके भक्तगण हैं। फिर वे अपने सारे भेद भूल

जायेंगे। और जनता की सेवा में लग जायेंगे। तो उससे उनके-
चित्त का समाधान होगा, हैद्राबाद राज्य को लाभ होगा और उसके-
साथ साथ सारे देश को लाभ होगा।

नव भाषाओं के लिये एक लिपि बनाइये

देखिये यहां पर कितनी भाषायें हैं। मराठी भाषा है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उर्दू है, हिंदी है, ये पाच भाषाये यहां चलती हैं। अगर आप एक दूसरे की भाषा सीखने की जरा कोशिश करें और उसके लिये लिपि एक बना दे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का मसला आप हल कर सकते हैं। नागरी लिपि में उर्दू लिखी जाय। हिंदी और मराठी नागरी में लिखी ही जाती हैं। कन्नड़ और तेलुगु भी नागरी में लिखी जाय। यह अगर आप आरंभ करें तो हिंदुस्तान का एक बड़ा भारी मसला हल हो जाता है। हिंदुस्तान में जो दूसरी जवान हैं वे एक दूसरी से बहुत अलग नहीं हैं। लेकिन उनकी लिपियां अलग हैं। और ये टीवाल की तरह गूड़ी होती है और भाषाओं का अध्ययन करने की हिम्मत नहीं होती है। मैं तो हिंदुस्तान की बहुत सारी लिपियां सीख चुका और भाषाएं भी सीख चुका। तो अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि एक एक भाषा सीखने में मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आख को तकलीफ हुई है। तो अगर आप नागरी लिपि में ये सारी जवानें लिखते हैं और कुछ किताने भी तैयार करते हैं और आप की स्टेट अगर इस का जिम्मा उठाती है या कोई परोपकारी मंडली ऐसी पुस्तकें

के प्रकाशन का जिम्मा उठाती है, तो समझ लीजिये कि एक लिपि का एक बड़ा भारी विचार आप हिंदुस्तान को देते हैं।

इससे यह होगा कि उर्दू अगर नागरी में लिखी जाने लगी तो हिंदी पर उर्दू का बहुत असर होगा और हिंदी ठीक रास्ते पर रहेगी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि कन्नड या उर्दू या तेलुगु लिपि न चले, इन लिपियों में भी न्यूत्रिया है। इसलिये ये भी चलें। लेकिन इनके साथ साथ अगर ये सारी भाषाएं नागरी में लिखी जानी हैं तो अच्छी हिंदुस्तानी कैसी हो सकती है इसका नमूना आपने पेश कर ही दिया। सारे हिंदुस्तान को एक कौमी जवान चाहिये यह सब लोग मानते हैं। लेकिन उस कौमी जवान का रूप क्या होना चाहिये इस विषय में काफी बहस हुआ करती है। यह सारी बहस खतम हो जायगी और यहां आप ऐसी न्यूत्रमूरत हिंदुस्तानी सारे राष्ट्र के लिये देंगे कि जिसको बाकी के सारे लोग सहज ही उठा लेंगे। यहां उर्दू तो पहले से ही चलती है और उसकी काफी प्रगति भी हुई है। वही उर्दू अगर थोड़ी आसान करके नागरी लिपि में लिखी जाय तो राष्ट्रभाषा के लिये बड़ा भारी कारण आप देंगे और हिंदुस्तान का मसला हल कर सकेंगे।

ऐसा आप करेंगे तो यहां की जमातें एक दूसरे की भाषा प्रेमभाव से जल्दी सीख लेगी। यह तो सहज होने आप के सामन विचार रख दिया। इस पर से आप के ध्यान में आ जायगा कि

हिंदुस्तान के मसले आप किस तरह आसानी से हल कर सकते हैं।

खादी के लिये अच्छा क्षेत्र

आप देखेंगे कि इस हैद्राबाद राज्य में खादी के लिये जितनी सहूलियतें हैं, जनता में उसके लिये जो शक्यताओं हैं, उतनी हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में नहीं है। तो अगर आप रचनात्मक काम करनेवाले इस काम में लग जायं और हरेक को कातना धुना सिखा दे ती जो परंपरा यहां मौजूद है उसका पूरा लाभ मिलेगा और आप देखेंगे कि यहां खादी पनपेगी, यहां ग्रामोद्योग पनपेगे।

अस्पृश्यता यहां कम है

आप यह भी देखेंगे कि यहां की जनता में छूत-अछूत का भाव इतना नहीं है जितना हिंदुस्तान की दूसरी जगहों में है। उसके कई कारण हैं। मुख्य कारण तो यही है कि यहां की अनेक जमातें और कौमों, किसी भी कारण से कहिये लेकिन एक दूसरे से मिलती जुलती रही हैं। नतीजा उसका यह हुआ कि जो कठोरता व्यवहार में दूसरी जगह दीख पड़ती है जमातों के बीच, वह कट्टर-पन और कठोरता यहां इतनी नहीं है। तो यहां छूत अछूत का सवाल भी आप बहुत शीघ्रता से मिटा सकते हैं। मैंने आप के देहातों में कई जगह पूछा कि हरिजनों के बारे में क्या स्थिति है तो लोग यही कहते हैं कि हां हरिजन हमारे ही हैं। उनके लिये अलग स्कूल चाहिये ऐसा कहीं भी नहीं सुना। यह हालत

हिंदुस्तान के दूसरे भागों में नहीं है। तो यह भारी लाभ आप को मिल सकता है।

सर्वोदय की ज्योति प्रकटाने का अच्छा मौका

मेरा कहना यह है कि आप लोग अपना दिल बड़ा बनाइये। आप समझिये कि आप को एक बड़ा भारी मौका मिला है। जब तक यह हैदराबाद स्टेट आज के जैसा कायम है तब तक आप को यह एक मौका मिला है। हाँ मैं यह नहीं सुझाना चाहता कि यहाँ के भाषा वार विभाग उन उन भाषावाले प्रांत में न मिटें। यह सब मैं कहना नहीं चाहता। वह तो जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब तक यह स्टेट एक है तब तक एक बड़ी भारी चीज करने का आप को मौका मिला है इसका लाभ उठाइये। और यहाँ की सारी कौमि मिल कर सारी एक जमात है सब भाई भाई है यह आप सिद्ध करके बताइये यह आप लोगों में मेरी अर्ज है। तो कहा जायगा कि शिवरामपल्ली में जो सर्वोदय संमेलन हुआ वह मार्गक हुआ और सर्वोदय की ज्योति सारी दुनियाँ के सामने हैदराबाद ने प्रकट की।

(द० हैदराबाद)

६-४-५१

इकतीसवाँ दिन—

: ३५ :

ग्राम संजीवनी

[आज शाम को छः बजे सर्वोदय संमेलन की ओर से जो प्रदर्शनी रखी गई उसका उद्घाटन पू. विनोबाजी के द्वारा हुआ उद्घाटन का भाषण और प्रार्थना प्रवचन एक साथ ही हुए ।]

मेरी तेलगु का उपयोग

मेरे अत्यंत प्रिय भाइयो और बहनो,

पैदल यात्रा का यह मेरा आखिर का दिन है। हैद्राबाद मे यहाँ तक का एक छोटासा पांच मील का प्रवास आज हुआ। रास्ते में परमेश्वर की कृपा से सब तरह से कुशल रहा और बहुत ही लुभाघने अनुभव आये। देहात के लोगों में उत्साह देखा। शहरों में भी उत्साह कम नहीं था। लेकिन देहात मे एक विशेष ही भावना देखी जिससे हमारा वहाँ पहुँचना कितना जरूरी था और है इसका प्रत्यक्ष अनुभव आया। रोज हम वैसे ज्यादा तो नहीं चलते थे, लेकिन कोशिश यह होती थी कि छोटे छोटे गाँव में मुकाम करें। कई छोटे गाँव देखने में आये। जहाँ बन सका वहाँ गाँव के घरों में भी घूम आया। और यद्यपि मैं तेलगु तो जानता

हूँ तथापि तेलगु मे बात तो नहीं कर सकता। फिर भी जितना कुछ ज्ञान था उसका प्रेमभाव बढ़ाने में बहुत उपयोग हुआ। मैंने इन भाषाओं का अभ्यास प्रेमभाव के विकास की दृष्टि से शुरू किया था। प्रार्थना में मैं स्थितप्रज्ञ के लक्षण तेलगु में बोलता था। मैंने देखा कि वे लक्षण उनके हृदय तक सीधे पहुँच जाते थे। और उनको महसूस होता था कि, अपना ही एक भाई बोल रहा है। बहुत प्रेम से लोगों ने हमारा स्वागत किया।

गाँवों में कतार्ई का काम

गाँवों की जो हालत हम ने देखी वह जैसी हम कल्पना करते थे वैसी ही थी; इतना ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर थी। इतनी कल्पना हम घर बैठे नहीं कर सकते थे। सिवाय खेती के, जो एक ही धंधा उनके हाथ में रहा है, और कोई धंधा कई देहातों में नहीं देखा। कुछ देहात ऐसे जरूर थे कि जहाँ दूसरे दो-चार धंधे चलते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी देहात देखे जहाँ वे भी छोटे छोटे धंधे मौजूद नहीं हैं। कुछ बिर्यां कातती थीं, कुछ पुरुष भी कातनेवाले देखे। और अपने सूत का कपड़ा पहननेवाले भी कुछ देखे। इस पर से यह जाहिर है कि यह एक धंधा ऐसा था, और है, जो हर हालत में देहात में चल सकता है। लेकिन अभी इस मुल्क में आमद रफ्त के साधन बहुत नहीं हैं और सड़कें बन रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये साधन बढ़ेंगे, बाहर का माल गाँवों में जोरों से आयेगा। आज भी काफी तादाद में आता है, और यह थोड़ा

सा बचा हुआ काम है वह भी नष्ट हो सकता है। यह सारा दृश्य हमने देखा।

हरिक के नाम पर एक देहात चाहिये

कई देहात ऐसे मिले कि अगर हमें यहाँ शिल्पमण्डली में जाने की आवश्यकता न होती तो वहीं चंद रोज रह जाने की इच्छा थी। क्योंकि एक जगह देखना, वहाँ की कमियाँ महसूस करना, उनका हल हम कर सकते हैं ऐसा विश्वास करना और फिर भी उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ना, यह अच्छा नहीं लगता था। फिर भी वह करना पड़ा। जहाँ जहाँ हो सका वहाँ लोगों में स्थानिक ही काम करनेवाले निकलें ऐसी कोशिश भी की। अनुभव का सार यही है कि हम जो अक्सर शहरों में काम करते हैं और शहरों से संबंध रखते हैं वे अपना शहर का संबंध कायम रख कर भी अगर निवासस्थान अपना देहात करें और हममें से हरिक के नाम पर अगर एक देहात रहा तो बहुत भारी काम होगा।

गांवों की पुकार

बहुत बार सोचता हूँ तो लगता है कि यह क्यों नहीं हो सकता कि जो भी काम हम करते हैं, फिर चाहे कोई कॉमर्स कमेटी का ऑफिस ही चलता हो, तो वह किसी देहात में क्यों न खोले ? जहाँ पोस्ट ऑफिस आदि की कुछ सुविधा हो ऐसे देहात में वह बैठ सकता है। और अगर हममें से कोई शहर के नजदीक ही रहना चाहते हैं तो वे शहर के नजदीक का गाँव लेकर बैठ सकते

हैं। वहाँ निवास करने से ही कुछ न कुछ संबंध आयेगा। और देहात में जाना चाहिये यह जो पुकार उठाई थी उसको कुछ अंश में हम पूरी कर सकते हैं। देहात के लोग बहुत आशा रखते हैं कि गांधीजी के पीछे उनके सेवकाण कुछ न कुछ काम करेंगे, उनकी सेवा में लग जायेंगे। दूसरे बहुत सारे लोग कुछ सेवा करते भी हैं, फिर भी वह नाम मात्र की होती है, स्फूर्तिदायी नहीं होती, और निष्काम तो होती ही नहीं है। इस वक्त आवश्यकता है निष्काम सेवा की। याने ऐसी सेवा की, कि जिसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य न हो सिवाय इसके कि जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी सेवा करके उनको हिंमत देना, मदद पहुँचाना। आज कल जो सेवा की जाती है वह अपने मनोबलित कार्य के खयाल से ही की जाती है, और वह भी बहुत कम। देहात के पीछे देहात देखे गये जहाँ बहुत लोग पहुँचे भी नहीं हैं। वहाँ अगर कोई सभा हुई तो इलेक्शन की हुई, और कोई सभा नहीं हुई। जहाँ ज्ञान का प्रचार केवल गून्थ है, जहाँ किसी तरह की रोशनी नहीं पहुँची है, जहाँ स्कूल भी नहीं है, जहाँ बच्चों के विकास का कोई विचार नहीं है ऐसे अनेक गाँव देखे। हमको वे सारे गाँव के लोग बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाइयो, स्वराज्य मिल गया है। जिनके नाम से और जिनके काम के लिये आपने स्वराज्य हासिल किया, उनकी सेवा के लिये फुरसत पाइये और आइये। ऐसी पुकार हो रही है।

खादी पर श्रद्धा बढ़ी

खास करके इस हैद्राबाद स्टेट में जो देखा उसने खादी के प्रति मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ बनाई। और बहुत लोगों का यह जो ख्याल होता था कि यद्यपि खादी की आवश्यकता आज भी कम तो नहीं है फिर भी कोई दूसरे पहलुओं पर जोर देना आज शायद अधिक जरूरी हो गया है और खादी का काम संभव है आगे न भी चले, यह ख्याल मैंने गलत पाया। वहाँ लोगों को पूछा, जो माथ आये थे उनसे भी पूछा, कि क्या इन देहातों को सिवाय खद्दर के कोई ऐसा जरिया है जिससे उनको कोई राहत पहुंचा सकते हैं, इमदाद दे सकते हैं, टाढस बंधा सकते हैं? मैंने तो कोई जरिया नहीं पाया। जाहिर बात है कि जो चीज हर मनुष्य इस्तेमाल करता है और चौबीस घंटे इस्तेमाल करता है, और चाहे फाका भी कर ले लेकिन बिना कपड़े के नहीं चला सकता क्योंकि वह सभ्यता की निशानी समझी गयी है ऐसी जो चीज और जिसका कच्चा माल गांवों में पड़ा है वह धंधा गांव का रिजर्व धंधा होना चाहिये। वह वहाँ से छीना गया है और दूसरे भी कई धंधे जिनके लिये कच्चा माल गांवों में पड़ा है, उनके हाथ से छीन लिये गये हैं और छीने जा रहे हैं। उस हालत में सिवा ग्रामोद्योगों के और उसमें भी सिवा खादी के और कौन सा उद्योग हम उनको दे सकते हैं, कौन सा ऐसा जरिया है जिससे उनको राहत पहुंचा सकते हैं। इस पर बहुत सोचा। लेकिन गांवों को मदद करने का इससे विशेष

उत्तम साधन नहीं देखा। हाँ, सफाई का काम है। मनुष्य का झेला व्यर्थ जा रहा है उसका उपयोग करने की योजना बना सकते हैं, और भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन उन सब कामों को करते हुए भी उनको खादी के काम से जितनी राहत हम पहुंचा सकते हैं उतनी और किसी काम से नहीं पहुंचा सकते। यह बात बिल्कुल स्वयंसिद्ध सी मुझे लगी और मैं मानता हूँ कि हम में से जो भी गाँवों में पहुंचेगा उसको वैसी ही लगेगी।

खादी के बगैर चारा नहीं

लेकिन केवल इस दर्शन से काम होने वाला नहीं है। अपने मन में यह संकल्प कर लीजिये कि यह जो खादी का मंत्र है वह हम हिंदुस्तान के हरेक किसान के पास पहुंचायेंगे और इस विषय में हार नहीं खायेंगे। ऐसी शंका नहीं करेंगे कि दूसरे बहुत सारे काम पड़े हैं तो इसका ही आग्रह क्यों। अगर ऐसी शंका होती है तो इन गाँवों का दर्शन करें और दुबारा सोच करके अपना निर्णय करें। मैं मानता हूँ कि इसके सिवाय कोई साधन मिलनेवाला नहीं है। मैंने सोशलिस्टों से भी बात की है जब कभी वे मुझे मिले, दूसरे जवानों से भी बात की। और पूछ लिया कि जमीन की तकसीम, जो कि जरूर करनी चाहिये, कर लें तिस पर भी क्या धांप समझते हैं कि इन किसानों की हालत उतने से सुधर जायगी और उतने से उनको सालभर का काम मिल जायगा और उसमें से उनकी जीवन की जरूरतें पूरी हो सकेंगीं ! क्यों ?

आप यह समझते हैं कि खहर आदि के बगैर कोई यांत्रिक योजना दस पांच सांठ में ऐसी हो सकेगी जिससे लाखों करोड़ों को काम दिया जा सकेगा ? तो उसका उत्तर उनको नहीं में देना पड़ता है । उनको मानना पड़ता है कि और कोई मदद हम नहीं देखते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि इसका अर्थ यह होता है कि सरकार को हम अपने हाथ में ले और अपना समाजवाद का और दूसरा प्रोग्राम चलायें । तो हिंदुस्तान की अभी की हालत को देखते हुए जो प्रत्यक्ष काम हम कर सकते हैं उसे करने से वे इन्कार करते हैं और दस पंद्रह साल के बाद कुछ बात होगी उसकी आशा में अपना जीवन निष्क्रिय बनाने जैसी बात हो जाती है ।

दूसरी योजना भी बनायें

इसलिये आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गांधीजी ने जो खहर का मंत्र हमें दिया है वह अभी की परिस्थिति में कमजोर नहीं हुआ है बल्कि बलवान हुआ है । पहले जब कि मिलें १७ गज कपड़ा पैदा करती थीं वह तब आज १२ गज पैदा करेंगी । और जाहिर कर रही हैं कि इस साल आधा गज और पैदावार कम होगी क्योंकि काफी हड़तालें हो चुकी हैं । तो मिलों पर आधार रखने के लिये कोई संभव नहीं है । और गांधीजी के जाने के बाद कोई ऐसी दूसरी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिससे खादी को अलग करके भी हम अपनी समस्या हल कर सकें । अगर किसी के मन में कोई योजना है, और बिना खहर के हमारा काम

निम जायगा ऐसा किमी को लगा है तो मैं उसके साथ चर्चा करना चाहूंगा और कोई दलीले उसके पास है, कोई सबूत हैं तो मैं जानना चाहूंगा। लेकिन ऐसा अगर सबूत मिलता नहीं है तो हम सब लोग खादी के काम में अपनी निष्ठा ताजी करें, दृढ़ करें और खादी का शास्त्र जितना परिपूर्ण बना सकते हैं उतना बनाने में अपना सहयोग दें। इतना कह कर मैं जाहीर करता हूँ कि यह प्रदर्शन अब खुल गया है।

शिवरामपल्ली (है०)

७/४/५१

पैदल-यात्रा का इतिवृत्त

विनोबाजीने ८ तारीख को सुबह प्रार्थना करके ठीक ४।।। बजे परंधाम आश्रम से बिदा ली और हैद्राबाद के सर्वोदय समेलन में शामिल होने के लिये पैदल-यात्रा शुरू की ।

परंधाम आश्रम से विनोबाजी, महादेवीताई, मदालमाबाई, और रामोदरदास मूंदड़ा तथा गोपुरी से भाऊ पानसे, दत्तोबा और पांडुरंग गाडीवाला; इस तरह कुल सात लोगो की टुकड़ी रवाना हुई । बैलगाडी में टुकड़ी का सारा सामान रख लिया । यह गाडी हैद्राबाद तक साथ रही । आगे चल कर व्यवस्था आदि करने के लिये दो साथकले भी साथ थीं ।

वर्धा के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में विनोबाजी ठीक ६ बजे पहुंचे । नारायण भगवान का दर्शन करना और वर्धा निवासियो तथा वर्धा की संस्थावालो से बिदा लेना यह छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया था । विनोबाजी मूर्ति के सामने खड़े हो गये और ऊंचे स्वर से श्री शंकराचार्य का " अच्युत केशवं रामनारायणं " यह विष्णुस्तोत्र गाने लगे । अंत में गद्गद् हो कर भगवान को नमन किया और आशीर्वाद के लिये मनोमय प्रार्थना की । यह दृश्य देखकर कइयो को बह दिन याद आया जब श्री जमनालालजी ने यह मंदिर हरिजन आदि सब के दर्शन के लिये खोल दिया था । विनोबाजी उस दिन

भगवान विष्णु के चरणोंपर दृष्टि लाये मावावस्था में लीन हो गये और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु की अजस्र धार बहने लगी। निर्गुण-सगुण एक हो गये। आधा घंटा ठहर कर विनोबाजी ने अपनी यात्रा शुरू की।

तारीख ८ से २३ तक की उनकी यात्रा का वृत्त नीचे दिया गया है।

यात्रा का दिन	तारीख	मुकाम का गाँव	जिला	कितने मील चले
(१)	८ मार्च	वायगाँव	वर्धा	१३
(२)	९	रालेगाँव	यवतमाल	१७
(३)	१०	मखी-कृष्णपुर	"	१४
(४)	११	रुझा	"	१०
(५)	१२	पाँढरकबडा	"	१२
(६)	१३	पाठण बोरी	"	११
(७)	१४	आदिलाबाद निजामस्टेट, आदिलाबाद		१६
*(८)	१५	कौसल्यापुर	आदिलाबाद	१३
*(९)	१६	मांडवी	"	११
*(१०)	१७	तळमडगु	"	१५
(११)	१८	गुडीहतनूर	"	११
(१२)	१९	इच्छोडा	"	८
(१३)	२०	निरडगोडी	"	११

(१४)	२१	गोपाल पेठ	आदिलाबाद	१३
(१५)	२२	निर्मल	"	५
(१६)	२३	सुवर्णपुर	"	८

चिन्हकित गाँव हैद्राबाद के रास्ते पर नहीं थे। लेकिन मांडवी के कस्तूरबा ग्राम सेविका केंद्रवालों के आप्रह के कारण करीब ४२ मी० का प्रवास अधिक हो गया।

विशेष बातें

बायगोंव के पहले मुकाम पर ही विनोबाजी ने गाँववालों से बात छेड़ी कि मजदूरों को हर रोज की मजदूरी में पैसे के अलावा कुछ अनाज निश्चित प्रमाण में देना चाहिये। सालदारों को ऐसा दिया जाता है। कुछ चर्चा के बाद गाँववालों ने विनोबाजी की बात मान ली। विनोबाजी ने दस छटाक ज्वार का प्रमाण खी-पुरुष सब मजदूरों को एकसा ही रखने का सुझाव रखा। ऊपर से जो पैसे देंगे उसमें कमी बेशी कर सकते हैं लेकिन ज्वार हमेशा के लिये दस छटाक देनी चाहिये। गाँववालों ने ज्वार देने का प्रस्ताव किया और शाम की प्रार्थना के बाद लोगों को वह सुनाया भी गया।

रालेगाँव पहुँचने के पहले पोटी गाँव में हम लोगों ने वर्षा नदी पार की, और साथ ही वर्षा जिला। नदी में पानी बहुत ही कम था। रालेगाँव से हम यवतमाळ जिले में दाखिल हो गये।

रालेगाँव में विनोबाजी ने यही बात दोहराई। वहाँ तीन

लोगों ने दस्तखत कर के वचन दिया कि वे मजदूरी में दस छटाक ख़ार देंगे ।

सखी-कृष्णपुर जगल मे बसे हुये गाँव हैं । सखी और कृष्णपुर अब्बोस-पडोस में हैं । विनोबाजी का मुकाम सखी गाँव मे रखा गया था । इस जगह पर पहुँचते समय जंगल में रास्ता भूलने के कारण कुछ घूम कर हम लोग पहुँचे । चार साढ़े चार मील तक बीच मे कोई आदमी भी नहीं मिलता था । पथरीला और ऊँचा नीचा रास्ता था । लेकिन जब गाँव में पहुँचे तो श्रमपरिहार हो गया । बीस-पच्चीस घास के झोंपड़े थे । लेकिन आम्र-वृक्षों की घनी छाया के नीचे तंबू में हमारा पडाव रहा इसलिये चित्त प्रसन्न हो गया । गाँव के लोगों ने बड़े प्रेम से खिलाया-पिलाया ।

शाम की प्रार्थना में बहनें अधिक से अधिक आयें इस दृष्टि से मदालसाबाई हर घर मे गई और बहनों को प्रार्थना सभा में ले आई । आसपास के गावों से भी काफी लोग गाड़ियाँ ले कर पहुँच गये थे । इतना छोटा और जगल के बस्ती का गाँव होते हुए भी यहाँ की सभा अच्छी हुई । बहनें कुछ देर से पहुँचीं । इसलिये उनके लिये विनोबाजी ने ५-१० मिनट खास दिये ।

मेटी खेडा के श्री आनंदराव सरोदे नाम के भाई सभा मे आये थे । परंघाम के कान्चनमुक्ति के प्रयोग के बारे में उन्होंने सवाल पूछा । बाद में विनोबाजी से उनका निकट परिचय भी हुआ । विनोबाजी ने इनका नाम सर्वोदय ही रख दिया । ये भाई आगे कृष्णा में भी मिले ।

‘दैनिक प्रार्थना’ की दो पैसेवाली किताबें लोग बहुत खरीदते हैं। विनोबाजी का साहित्य भी साथ रखा गया है। हर मुकाम पर प्रार्थना के पहले और बाद में साहित्य की बिक्री होती है।

वर्धा से वायगांव पक्का रास्ता था। वायगांव से आगे रुंझा के पास मोहदा गांव तक कच्चे रास्ते से ही मुसाफिरी हुई। मोहदा से आगे पांढरकवडे तक पक्की सड़क थी। पांढरकवडे से फिर कच्चा रास्ता लिया। यवतमाल जिला पैनगंगा के किनारे पर समाप्त हो जाता है। पाटणबोरी से तीन मील की दूरी पर पैनगंगा मिली। इस नदी में भी पानी बहुत कम था। नदी पार करने पर निजाम-स्टेट शुरू हो गई। कामई नाम के गांव से फिर पक्की सड़क मिली जो आदिलाबाद और उसके बाद हैद्राबाद तक है।

पांढरकवडा गाँव न देहात और न शहर ऐसा अधूरा सा ही है। यहां की प्रार्थना में बच्चों ने असंस्कारिता का ही परिचय दिया। अश्लील खूब रही। आपस में मारना-धकेलना भी चलता रहा। विनोबाजी का करीब आधा घंटा बच्चों को समझाने में ही गया। इससे प्रार्थना सभा के लिये जो वातावरण चाहिये था वह नहीं रहा। विनोबाजी ५-१० मिनट ही बोले। शहरों के बच्चों में मामूली सम्यता भी दिखाई नहीं देती इसके लिये शालाओं के संबालकों को भी उन्होंने दोष दिया। संस्कारिता की दृष्टि से देहात और शहर का भेद साफ नजर आता था।

पाठरकवड़ में गंगाबिसनजी, राधाकृष्णजी, अनसूया, शांताबाई रानीवाला और ईश्वरभाई रका आ मिले थे। यक्तमाल के डॉक्टर मोरे भी आये। दिल्ली से हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता श्री कल्हण भी आ पहुंचे। वे दस दिन साथ रह कर निर्मल से वापिस गये। गंगाबिसनजी, राधाकृष्णजी और अनसूया आदिलाबाद तक साथ रहे। शांताबाई रानीवाला मांडवी तक साथ रहीं और वहां से डॉ० मोरे के साथ वापिस वर्धा आ गई। ईश्वरभाई हैद्राबाद तक साथ रहे।

बिनोबाजी तीन बातों पर ग्वास ध्यान देते हैं सुबह पांच बजे कूच करना, रात को नौ बजे सो जाना और दोपहर में ११ बजे भोजन करना। ये तीन बातें नियमित रहे तो बाकी का कार्यक्रम अपने आप नियमित बनता है ऐसा वे कहते रहते हैं। सुबह ५ बजे कूच करने का तो बिलकुल नियमित चलता रहा है। रात को नौ बजे सोने की बात ५-७ रोज के बाद होने लगी। रात को गाड़ी में सारा सामान भर कर तैयार रखना पड़ता था। सुबह सिर्फ बिस्तरे बांध कर गाड़ी में स्क्वना शेष रहता था। दोपहर का खाना ११ और १२ के बीच अकसर हो जाता था।

अब यात्रा का सारा कार्यक्रम घड़ी के मुआफिक व्यवस्थित बन गया। सुबह पांच से दस तक मुसाफिरी का समय रखा था जिसमें नश्ले आदि के लिये एक डेढ़ घंटा रखा था। लेकिन अब मुकाम पर पहुंच कर ही नास्त्रा करने का रखा जिससे एक रफ्तार में ही धूप के पहले आठ साढ़े आठ बजे के अन्दर मंजिल

तय हो जाती है। शाम की प्रार्थना समा का निश्चित समय नहीं है। छः बजे प्रार्थना हो ऐसी विनोबाजी की इच्छा रही। कुछ रोज वैसा चला भी। लेकिन आदिलबाद के बाद देखा गया कि आस-पास के देहात से काफी भाई-बहनें समा और दर्शन के लिये आ-जाती हैं। उनको अपने गाँव जल्दी वापिस जाने की सुविधा हो इस दृष्टि से विनोबाजी चार बजे या कभी कभी तीन बजे भी समा कर लेते हैं।

आदिलबाद जिले में और खास करके निर्मल तहसील में गगारेड़ी नाम के कार्यकर्ता ने देहातों में घूम कर काफी प्रचार किया दिखाई दिया। हर गाँव के प्रवेशद्वार पर बहनें आरतियाँ लेकर हाजिर रहती थीं और देहाती बाजे भी रहते थे। निर्मल तहसील के देहातों में चरखे काफी चलते हैं। निरडगोडी में पहली बार पचीस-तीस चरखे सिर पर ले कर बहनें सूत कातने के लिये विनोबाजी के डेरे पर पहुँच गईं।

गोपालेठ में तो हद हो गई। सारा गाँव पानी छिड़क कर साफ किया गया था। रांगोली भी आँगन में खींची गई थी। सड़क की दोनों बाजू आम के पत्तों की पताकाएं लगी थीं। आरतियाँ और बाजे तो ये ही। विनोबाजी की ठहरने की जगह बहुत ही कलमय और मार्मिक थी। हमली के पेड़ के नीचे बड़ और मोह के बूखों की डालियों का भव्य मंडप तैयार किया था। कहीं कील या रस्सी का नाम नहीं था। पाखाना, नहाने की जगह, रसोई घर

और विश्राम घर सभी पल्लवों के बने थे। ग्यारह बजे पास के चिचोली गाँव से पचास बहनों सिर पर चरखे ले कर गाने बजाने के साथ आ पहुँचीं। गोपालपेठ के पचास-साठ चरखे थे ही। कुल सौ से ऊपर चरखे जमा हो गये। और सारी बहनों कातने लगीं। इतने चरखे थे लेकिन एक चरखे की भी कर्णकटु आवाज नहीं आती थी। टूटन का तो नाम ही नहीं था। चरखे गूडे थे और लकड़ी की धुरा के थे, सिर्फ तकुआ लोहे का था। चमरख मकई के भुट्टों के पत्तों का और तकुले की धिरी अरहर के सूखे पेड़ की। प्रार्थना सभा के बाद सारी बहनों ने अपना कता सूत विनोबाजी को अर्पण किया। करीब साठ गुडिया थीं। यह सूत वहीं चिचोली गाव में बुनने के लिए दे दिया। हैद्राबाद सम्मेलन में कपड़ा तैयार होकर आ जायगा।

ता० २३ को गोदावरी के तट पर पहुँच गये। गोदावरी के किनारे सुवर्णपुर—जिसे आज सोन कहते हैं—गाव क्षेत्र माना जाता है। सुवर्ण नदी व गोदावरी का यहाँ सगम है।

इस के बाद 'गोदावर्या दक्षिणे तीरे' हो कर निजामाबाद जिले में प्रवेश किया।

सोन (सुवर्णपुर) में विनोबाजी ने एक घंटे की पाठशाला चलाने की बात कही थी। उसके अनुसार दो ब्राह्मण पंडितों ने जिम्मा लिया। अब पता चला है कि ८ लड़कियाँ और १३ लड़के सुबह एक घंटा और शामको एक घंटा बड़े उत्साह से पढ़ने के लिये

आते हैं। और वे पड़ित बारी बारी से उनको पढ़ाते हैं। ईशोपनिषद् के मराठी श्लोक "दैनिक प्रार्थना" पुस्तिका में से बच्चे कंठ कर लेते हैं।

सोन के आगे निम्न प्रकार प्रवास हुआ।

यात्रा का दिन	तारीख	मुकाम का गाँव	जिला	कितने मील चले
(१७)	२४	बालकोंडा	निजामाबाद	११
(१८)	२५	आरमूर	"	१०
(१९)	२६	निजामाबाद	"	१७
(२०)	२७	डिचपल्ली	"	१०
२१)	२८	कलवरल	"	११
(२२)	२९	कामारेड्डी	"	११

निजामाबाद और आरमूर में सायंप्रार्थना के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा का अच्छा कार्यक्रम हुआ।

बालकोंडा में मेटपल्ली के चरखा सघ के आठ-दस कार्यकर्ता पैदल आ कर बिनोबाजी से मिले। आरमूर तक वे बिनोबाजी के साथ रहे। और वहाँ से २२ मील फिर पैदल चल कर वापिस गये।

हैद्राबाद स्टेट के चंद बड़े शहरों में निजामाबाद एक बड़ा शहर है। यहाँ तेलगु में प्रवचनों का अनुवाद नहीं करना पड़ा।

और खोजगण भी मध्यम श्रेणी के थे । इसलिए विनोबाजी का यह प्रबन्धन काफी विस्तार से हुआ ।

कामारेड़ी से हैद्राबाद केवल ७२ मील है ।

इस तरफ के देहातों में खास बात यह देखी गई कि सभा में करीब आधी संख्या स्त्रियों की होती है । और सब भाषण बड़ी शांति से सुनती हैं ।

विनोबाजी का साहित्य हिंदी-मराठी में अच्छी मात्रा में बिकता गया । इस बिक्री की खास बात यह है कि केवल किसी विक्रेता या प्रचारक के पास पुस्तकें नहीं जाती बल्कि हरेक पढ़ने-वाले के पास वे पहुँच जाती हैं ।

पाठकों से सीधा संपर्क स्थापित होता है इस दृष्टि से यह बिक्री विशेष महत्त्व रखती है । हर गाँव में कितनी और कौनसी किताबें दी गई इसकी तालिका रखी गई है ।

कामारेड़ी पहुँचने के एक रोज पहले कलबरल में रात को काफी बारिश और आंधी आधी । विनोबाजी का बिरतरा कुछ भीग गया । कामारेड़ी पहुँचने तक खास असर दिखाई नहीं दिशा । लेकिन बाद में सर्दी और हलका बुखार हो गया ।

कामारेड़ी से अगला मुकाम १७ मील का था । लेकिन विनोबाजी की तबीयत देखते हुए दस मील पर मुकाम करने का

सब लोगों ने उनसे काफी आग्रह किया । विनोबाजी अपने निश्चित कार्यक्रम पर अटल रहे और बोले “जो अपना वचन पालन करता है उसको भगवान बल देता है ।” आखिर उस रोज १७ मील की सफर पूरी करके ही रहे ।

रामायम पेठ पहुंचने पर साबियोंने अगले कार्यक्रम में कुल हेर फेर किये । बारह मील के बदले आठ आठ मील के फासले पर मुकाम कर लिये । बदला हुआ कार्यक्रम निम्न प्रकार रहा ।

यात्रा का दिन	तारीख	मुकाम का गाँव	जिला	कितने मील चले
(२४)	३१	वडियारम	मेदक	९
(२५)	१	दुपरान	”	८
(२६)	२	कोचारम	”	८
(२७)	३	मेडचल	हैद्राबाद	८
(२८)	४	बोलारम	”	७
(२९)	५	सिकंदराबाद	हैद्राबाद	७
(३०)	६	हैद्राबाद	”	५
(३१)	७	शिवरामपल्ली	”	५

कामोन्गड़ी से रामायम पेठ के रास्ते पर बिकनूर नाम के गाँव में नाश्ते के लिये ठहरे । उस गाँव में नारायण रेड़ी नाम के अच्छे कार्यकर्ता हैं । वे कलबरल से विनोबाजी के साथ रहे । उनके

घर पर विनोबाजी ३० तारीख को ठहरें ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन नियत कार्यक्रम में फरक करना विनोबाजी को पसंद नहीं है। गांव वालों को चंद शब्द कह कर विनोबाजी रामायण पेट के लिये चल पड़े।

वडियारम मे क्रिस्ती लोगों द्वारा चलाई हुई एक पाठशाला में विनोबाजी का उकाम था। यहा की जगह अच्छी है। तेलगु में वहां के पाद्री ने गद्य प्रार्थना कही। अपने भाषण में सब धर्मों के रहस्य के विषय पर विनोबाजी बोलें। आज बुवार के कारण प्रार्थना साथियों ने चलाई।

तूरान कुल बडा गाव है। वहा दोपहर में कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई। गाव में भजन मंडली है और हर शुक्रवार को वे भजन करते हैं। यह सुनकर विनोबाजी को खुशी हुई। गाव की समिति रहे तो भजन के साथ उस समिति का काम अच्छा चलेगा यह बात गांव वालों को विनोबाजी ने समझायी।

तूरान से कोचारम नाम के एक छोटे गांव में मुकाम रहा। हरेक घर आम की पत्तियों से सजाया गया था। घर के सामने पानी छिड़का हुआ था और रागोली भी थी। गांव काफी साफ था। गोपालपेठ की याद हो रही थी। गाव की रचना भी अच्छी है। घरों की कतारें हैं, सबके हैं और ड्रेनेज भी है। हरिजन मोहल्ले में सभा रखी गयी थी। आज भी विनोबाजी को बुवार अधिक था। सभा स्थान कुछ दूर था फिर भी वे चलते हुए

वहाँ आये और खुद ही प्रार्थना चलाई और रोज की तरह माषण भी दिया।

कोचराम में सुबह हैद्राबाद से जमियत उल उलेमांक अध्यक्ष तथा सेक्रेटरी विनोबाजी से मिलने आये थे। हैद्राबाद राज्य की आज की हालत और खास करके उत्तमानाबाद जिले की हालत के बारेमें उन्होंने विनोबाजी को कुछ बातें बताईं।

३ तारीख को मेडचल का मुकाम था। यहाँ पर हैद्राबाद राज्य के पुराने कर्मचारी मंजूर यार जंग विनोबाजी से मिलने आये थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी वे आये और बहुत ही सरलता से और सच्चे दिल से हिंदू मुसलमान के प्रश्न पर अपने विचार उन्होंने प्रकट किये।

यहाँ भी दोपहर में कुछ कार्यकर्ता आये थे। उनके साथ एक एक घण्टा बार्तालाप हुआ।

हैद्राबाद से शहर काँग्रेस कमिटी के मंत्री, ग्यान कुमारी हेडा और अन्य कार्यकर्ता मेडचल आये थे। पवनार के बानूरावजी देशमुख अपने कुटुंब के साथ हैद्राबाद से यहाँ आये। वे शिवरामपल्ली तक विनोबाजी के साथ पैदल चलेगे।

आज से विनोबाजी की तबीयत में आराम हुआ। बुखार चला गया दीखता है।

४ ता० को बोलारम पहुंचे । यहां पर बिहार के श्री. पारसनाथ नाम के व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सालय चला रहे हैं । उनके आमद के कारण ही यहां का मुकाम हुआ ।

यहां की कार्यकर्ताओं की सभा बहुत ही अच्छी रही । ऐसी सभाओं में विनोबाजी अनेक विषयों पर अपने विचार कुछ खुलकर लोगों के सामने रखते हैं, जिससे दिग्दर्शन बर्नालाप होता है ।

यहां से हैद्राबाद की दूरी ही लग गई । फासला यद्यपि १०-११ मील का है फिर भी शहर का वातावरण यहीं से शुरू हो जाता है ।

सिकंदराबाद पहुंचने के पहले तिरमलगिरी में कुछ लोगोंने स्वागत किया । यहां से थोड़ी दूर पर खानापूर नाम का उजड़ा हुआ गांव बताने के लिये जमियत के कुछ कार्यकर्ता आये थे । वहां से सब उसलमान भागकर दूमरी जगह चले गये हैं । मकानों की टूट फूट काफी दिखाई दी ।

सिकंदराबाद से ता. ६ को सुबह विनोबाजी हैद्राबाद के लिये रवाना हुए । सिकंदराबाद से हमने अपनी बैलगाड़ी और बहुत सारा सामान सीधे शिवरामपल्ली भेज दिया । हैद्राबाद के हाथकोर्ट के सामने एक बगीचे में विनोबाजी का मुकाम रहा । फड़ोस में मूसल नदी बहती है और बगल में सरकारी अस्पताल की खासी इमारत खड़ी है ।

हैद्राबाद शहर में दो तीन जगह लोगों ने स्वागत किया । हरिजन छात्रालय में चार पांच मिनट विनोबा जी ठहरे । बाकी का स्वागत चलते चलते ही हो रहा था ।

हैद्राबाद में दोपहर को ४ से ५ बजे तक कार्यकर्ताओं की सभा रखी थी । सोशलिस्ट आदि कई पक्षों के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे । अनेक विषयों पर प्रश्नोत्तरी हुई जो काफी दिलचस्प और बोधप्रद रही ।

प्रार्थना सभा के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से करीब आधा घंटा बातचीत रखी गई थी । स्वामी रामानंद तीर्थ विनोबाजी से मिलने आये थे ।

ता० ७ को सुबह सवा छः बजे विनोबाजी शिवरामपल्ली पहुंच गये । इस तरह ठीक एक महीने में वर्धा से शिवरामपल्ली तक की मंजिल विनोबाजी ने पूरी की । इस पैदल यात्रा में चार पांच रोज विनोबाजी को बुखार आया । बाकी सारी मुसाफिरी बहुत ही आराम से और स्वस्थता से हुई । विनोबाजी साधियों से कहते थे कि 'खासा बादशाही प्रवास चल रहा है ।'

इस पैदल यात्रा में जो कुछ सृष्टि दर्शन और लोक-दर्शन हुआ उसके बारे में विनोबाजी के प्रवचनों में बीच बीच में जिक्र आया ही है ।

शिवरामपल्ली में ११ तारीख तक विनोबाजी ठहरेंगे । उसके बाद का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है । लेकिन वर्धा ७ जून

तक पहुंचना है और पैदल चल्ते हुए ही जाना है इतनी बात तय है। कुछ रोग आराम करके आगे का प्रवास शुरू किया जाय ऐसा मित्रों का आग्रह है। लेकिन विनोबाजी हैद्राबाद राज्य के उन जिलों में से हो कर जाना चाहते हैं जहां कम्युनिस्टों का जोर अधिक है। वह रास्ता कुछ दूर का है। इसलिये जल्दी निकलने की विनोबाजी की इच्छा है। १२ तारीख तक निकलने की तिथि तथा यात्रा का रास्ता आदि बातों का निर्णय हो जायगा।

—दत्तोबा दास्ताने

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० 280. ४ विनोबा

लेखक विनोबा

शीर्षक सेवा रूप पत्रा

खण्ड १०५३ क्रम संख्या